



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 22, 1992 (श्रावण 31, 1914)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 22, 1992 (SRAVANA 31, 1914)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1992

सं० 731, दिनांक 6 जुलाई, 1992—राष्ट्रपति, भारतीय प्रसासनिक सेवा (राजस्था : 83) की अधिकारी श्रीमती सीमा बहुगुणा को 1 जुलाई, 1992 के पूर्वाह्न से 13 सितम्बर, 1993 तक अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए रक्षा मंत्रालय में उच्च सचिव नियुक्त करते हैं।

सं० 732—राष्ट्रपति, श्री ए० के० भाइति, वर्क्स मैनेजर को आयु निर्वाणी, मेडक से स्थानांतरण होने पर दिनांक 10 जून, 1992 (पूर्वाह्न) से योजन एवं समन्वय निदेशालय, रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग में तकनीकी स्टाफ अधिकारी (कवचित विशेष आह्वन) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

हरि कुमार,  
अवर सचिव

के० पी० सुरेन्द्रन,  
अवर सचिव

नई दिल्ली, 16 जुलाई 1992

(कार्यालय महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा)

सं० 733, दिनांक 16 जुलाई, 1992—राष्ट्रपति, सहर्ष, श्री सी० पी० पंधार, वरिष्ठ भंडार अधीक्षक को 30 मई, 1992 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक सशस्त्र सेना चिकित्सा सामान डिपो लखनऊ में स्टोर अधिकारी (सिविलियन) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

राष्ट्रपति सहर्ष श्री ए०सी०रंजन वरिष्ठ भंडार अधीक्षक को 29 मई 92 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक मानकीकरण निदेशालय में स्टोर अधिकारी (सिविलियन) के रूप में नियुक्त करते हैं वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

राष्ट्रपति, सहर्ष, श्री अशोक कुमार सोहनलाल बलदावा को 14 अगस्त, 1991 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक सशस्त्र सेना चिकित्सा सामान डिपो बम्बई में भंडार अधिकारी (असैनिक) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष तक की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

राष्ट्रपति सहर्ष, श्री एन० आर० गणोड, वरिष्ठ भंडार अधीक्षक को 28 मई, 1992 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक सशस्त्र सेना चिकित्सा सामान डिपो पुणे में स्टोर अधिकारी (सिविलियन) के पद पर नियुक्त करते हैं। वे दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

के० सी० गतावाल  
सिविलियन स्टाफ अधिकारी  
डी०ए०डी०जी०/डी०जी०-2बी

(धल सेना)

संख्या 734, दिनांक, 3 जुलाई, 1992—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लैफ्टनेट से कैप्टन

एस० एम० कुमार (आई० सी०-43653) इन्फैंट्री, आर० एस० फटारिया (आई० सी०-43654) इन्फैंट्री, के० वी० कुमार (आई० सी०-43655) सिगनल्स, वाई० एस० चरन (आई० सी०-43656) ई० एम० ई०, पी० डी० नायडू (आई० सी०-43657) इंजीनियर्स, हरी सिंह (आई० सी०-43658) इंजीनियर्स, सुधीर कुमार (आई० सी०-43659) ई० एम० ई०, संजय ब्रह्मर (आई० सी०-43660) ए०सी० बी० आर० पिल्लै (आई० सी०-43661) ई० एम० ई०, संजीव मुंज (आई० सी०-43662) ए० सी०, एन० द्विवेदी (आई० सी०-43663) इन्फैंट्री, ए० के० सोनी

आई० सी०-43664) इंजीनियर्स, गुहेल सिंह (आई० सी०-43665) ए० सी०, ब्रह्मवीर सिंह (आई० सी०-43666) ए० सी०, के० एम० बरार (आई० सी०-43667) ए० सी०, एन० वी० मुनील कुमार (आई० सी०-43668) इन्फैंट्री, शिव पाल सिंह (आई० सी०-43669) इन्फैंट्री, अमरजीत सिंह (आई० सी०-43670) ए० सी०, आर० के० चिन्कारा (आई० सी०-43671) इन्फैंट्री, मुधाणू वर्मा (आई० सी०-43672) ए० ओ० सी०, गुरजप सिंह गिल (आई० सी०-43673) इन्फैंट्री, नेत्रवीर सिंह (आई० सी०-43674) आर्टिलरी, एस० आर० धागा (आई० सी०-43675) सिगनल्स, रविन्द्र सिंह (आई० सी०-43676) इन्फैंट्री, एच० पी० सूत (आई० सी०-43678) आर्टिलरी, 14 जून, 1991।

जी० पी० एम० सिसोदिया (आई० सी०-43679) इन्फैंट्री, राकेश कपूर (आई० सी०-43680) आर्टिलरी, ए० कर्माकर (आई० सी०-43681) इन्फैंट्री, ए० के० रामतरा (आई० सी०-43682) इन्फैंट्री, निरंजन कुमार (आई० सी०-43683) आर्टिलरी, संजीव राय (आई० सी०-43686) इन्फैंट्री, विवेक शर्मा (आई० सी०-43687) इन्फैंट्री, कल्याण सिंह (आई० सी०-43688) इन्फैंट्री, पी० एस० बाजवा (आई० सी०-43689) इन्फैंट्री, एच० एस० बोडी (आई० सी०-43690) ए० सी०, वी० बी० बोस (आई० सी०-43691) ए० एम० सी०, सुशील राना (आई० सी०-43692) इन्फैंट्री, रविन्द्र सिंह (आई० सी०-43693) ए० सी०, संजीत चौधरी (आई० सी०-43694) इन्फैंट्री, सरवजीत सिंह (आई० सी०-43696) ए० ओ० सी०, डी० बी० खत्री (आई० सी०-43697) इन्फैंट्री, शैलेन्द्र सिंह (आई० सी०-43698) आर्टिलरी, जी० पी० सिंह (आई० सी०-43699) आर्टिलरी, एम० एम० शर्मा (आई० सी०-43701) आर्टिलरी, पी० राहुल (आई० सी०-43702) आर्टिलरी, आर० के० माथुर (आई० सी०-43703) आर्टिलरी, एस० ब्यू० अहमद (आई० सी०-43704) आर्टिलरी, आर० के० शर्मा (आई० सी०-43706) सिगनल्स, ए० के० मजूमदार (आई० सी०-43707) आर्टिलरी, पी० पटनायक (आई० सी०-43708) इन्फैंट्री, 14 जून, 1991।

टी० के० गैच (आई० सी०-43710) इन्फैंट्री, दीपक मल्होत्रा (आई० सी०-43711) सिगनल्स, ए० बी० के० मिबल (आई० सी०-43712) इंजीनियर्स, आर० मल्होत्रा (आई० सी०-43713) इन्फैंट्री, जे० एम० जार्ज (आई० सी०-43714)-आर्टिलरी, पी० के० सिंह (आई० सी०-43715) इन्फैंट्री, राजवंत सिंह (आई० सी०-43716) आर्टिलरी, मुकुंद शर्मा (आई० सी०-43717) इंजीनियर्स, डी० एम० यादव (आई० सी०-43718) इन्फैंट्री, एस० एस० दबास (आई० सी०-43719) इन्फैंट्री, ए० त्रिपाठी (आई० सी०-43720) ए० सी०, रोहित जामवाल (आई० सी०-43721) आर्टिलरी, डी० के० सिंह (आई० सी०-43722) इन्फैंट्री, एच० के० पंत (आई० सी०-43723) ए० एस०

सी०, एस० के० चुष (आई० सी०-43724) आर्टीलरी, एम० के० कटियार (आई० सी०-43725) इन्फैंट्री, समरजीत (आई० सी०-43726) इन्फैंट्री, बहादुर सिंह (आई० सी०-43727) ए० ओ० सी०, आर० बी० बिरादर (आई० सी०-43728) इंजीनियर्स, राजीव समसेना (आई० सी०-43729) इन्फैंट्री, विक्रान्त नायर (आई० सी०-43730) ए० सो०, लदीन पाण्डे (आई० सी०-43731) इन्फैंट्री, ए० ए० पोल (आई० सी०-43733) इन्फैंट्री, योगेश सहगल (आई० सी०-43734) इंजीनियर्स, जे० सी० तलुकदार (आई० सी०-43735) आर्टीलरी, 14 जून 1991

डी० के० नैन (आई० सी०-43736) ए० सी०, राजीव थापड़ (आई० सी०-43737) इन्फैंट्री, एम० पार्थी साथी (आई० सी०-43738) सिगनल्स, आर० श्रीवास्तवा (आई० सी०-43739) इन्फैंट्री, योगेश आर्य (आई० सी०-43741) ई० एम० ई०, आर० एस० रती (आई० सी०-43743) इन्फैंट्री, बी० डी० जोशी (आई० सी०-43744) इंजीनियर्स, गोविन्द सिंह (आई० सी०-43745) इन्फैंट्री, अदीप कुमार (आई० सी०-43746) आर्टीलरी, संजीव हिल्लन (आई० सी०-43747) ए० सी०, आई० एस० रेधू (आई० सी०-43748) इन्फैंट्री, एम० एस० मटू (आई० सी०-43739) ए० एस० सी०, जी० पी० एम० विक्र (आई० सी०-43750) इन्फैंट्री, बी० एस० धौजला (आई० सी०-43751) इन्फैंट्री, आर० राजीव (आई० सी०-43752) सिगनल्स, एम० सी० उपरेती (आई० सी०-43753) आर्टीलरी आर० एस० यादव (आई० सी०-43754) इन्फैंट्री, ए० सी० वी० सिंह (आई० सी०-43755) इंजीनियर्स, संजीव लागे (आई० सी०-43756) इन्फैंट्री, एम० सी० थामस (आई० सी०-43758) इन्फैंट्री, एस० बी० कस्तूर (आई० सी०-43759) इन्फैंट्री, गुरीन्द्र सिंह (आई० सी०-43760) इंजीनियर्स, एस० एस० बिन्दू (आई० सी०-43761) ए० सी० निरेन भारती (आई० सी०-43762) इंजीनियर्स, एस० पी० त्रिपाठी (आई० सी०-43763) आर्टीलरी, 14 जून, 1991 ।

एस० बोस (आई० सी०-43764) आर्टीलरी, नरेन्द्र सिंह (आई० सी०-43765) इन्फैंट्री, ए० काले (आई० सी०-43766) इन्फैंट्री, राजीव श्रीवास्तवा (आई० सी०-43767) आर्टीलरी, मुकेश कुमार रस्तोगी (आई० सी०-43768) इन्फैंट्री, एस० के० सहारन (आई० सी०-43769) आर्टीलरी, शशी भूपण (आई० सी०-43770) इन्फैंट्री, एस० मोहन (आई० सी०-43771) आर्टीलरी, प्रोमिन्द्र सिंह (आई० सी०-43772) इन्फैंट्री, नरेश कुमार (आई० सी०-43773) ए० एस० सी०, ए० के० रोहिल्ला (आई० सी०-43776) इन्फैंट्री, पी० पी० श्रोक (आई० सी०-43777) आर्टीलरी, अजय कैला (आई० सी०-43778) ई० एम० ई०, अलोक जैन (आई० सी०-43779) आर्टीलर वीपक बैनर्जी (आई० सी०-43780) इन्फैंट्री, आर० पी० शर्मा (आई० सी०-43782) इन्फैंट्री, के० एस० सहरावत

(आई० सी०-43783) इन्फैंट्री, दिगविजय सिंह (आई० सी०-43784) इन्फैंट्री, ए० के० कालिया (आई० सी०-43785) सिगनल्स, आर० ए० खान (आई० सी०-3786) ए० सी०, पी० वी० जनार्धन (आई० सी०-43787) इंजीनियर्स, एस० जैतली (आई० सी०-43788) ए० ओ० सी०, वी० मुखिन्ना (आई० सी०-43789) इन्फैंट्री,—14 जून, 1991 ।

संजय सिंघल (आई० सी०-43790) आर्टीलरी एम० यू० रेड्डी (आई० सी०-43791) सिगनल्स, जे० के० चौरसिया (आई० सी०-43793) इन्फैंट्री, ए० मुखोसन (आई० सी०-43795) इन्फैंट्री, समीर गुप्ता (आई० सी०-43796) आर्टीलरी, सुनील कुमार वी० एस० (आई० सी०-43797) आर्टीलरी, बी० एस० मावी (आई० सी०-43798) ए० ओ० सी०, वी० के० पटपतिया (आई० सी०-43799) इन्फैंट्री, रवि सिंह (आई० सी०-43800) इंजीनियर्स, संजय बख्शी (आई० सी०-43801) ई० एम० ई०, एस० एस० प्रभु (आई० सी०-43803) आर्टीलरी, भुवनेश शर्मा (आई० सी०-43804) ए० एस० सी०, अतुल कोळड़ (आई० सी०-43805) इन्फैंट्री, राजीव रंजन (आई० सी०-43806) आर्टीलरी, जयदेव के० (आई० सी०-43807) सिगनल्स, वी० आर्य (आई० सी०-43810) आर्टीलरी, विशन दत्त (आई० सी०-43811) इन्फैंट्री, पी० तलवार (आई० सी०-43812) आर्टीलरी, के० वी० एस० भीमराज (आई० सी०-43813) इन्फैंट्री, वी० सुप्रामनी (आई० सी०-43814) इंजीनियर्स, सी० शर्मा (आई० सी०-43815) ए० ओ० सी०, के० एस० कटरिया (आई० सी०-43816) ए० ए० सी०, एन० जी० रायलकर (आई० सी०-43817) सिगनल्स ए० पी० कुमार (आई० सी०-43819) इन्फैंट्री, जी० आर० रेड्डी (आई० सी०-43820) इन्फैंट्री, 14 जून, 1991 ।

एन० एस० मंगत (आई० सी०-43821) इन्फैंट्री, एन० आर० बाबू (आई० सी०-43822) इन्फैंट्री, सतिन्द्र सिंह (आई० सी०-43823) इन्फैंट्री, एच० एस० श्रौलख (आई० सी०-43824) ए० एस० सी०, एस० एम० श्रीधरन (आई० सी०-43825) इंजीनियर्स, अनिल कुमार आर० (आई० सी०-43826) आर्टीलरी, एस० एन० नारायणन (आई० सी०-43827) इंजीनियर्स, अशोक कुमार (आई० सी०-43828) इन्फैंट्री, वी० सेबास्टियन (आई० सी०-43830) इन्फैंट्री, वी० एन० खादिलकर (आई० सी०-43831) सिगनल्स, मुरनजीत सिंह (आई० सी०-43832) इन्फैंट्री, एस० के० काहली (आई० सी०-43833) आर्टीलरी, आई० चैटर्जी (आई० सी०-43835) इन्फैंट्री, राजिन्द्र कुमार (आई० सी०-43837) सिगनल्स, राजन पस्ती (आई० सी०-43838) ए० एस० सी०, ए० शर्मा (आई० सी०-43839) आर्टीलरी, के० एन० गौतम (आई० सी०-43841) इन्फैंट्री, एम० के० दास (आई० सी०-43842) इन्फैंट्री, अदीश यादव (आई० सी०-43843) इन्फैंट्री, वी० एस० नाहल (आई० सी०-43844) इन्फैंट्री, संजीव सिंह (आई० सी०-43845)

इन्फैंट्री, अरून कुमार (आई० सी०-43846) इन्फैंट्री, पी जदेजा (आई० सी०-43847) इंजीनियर्स, सी० एस० मिश्रा (आई० सी०-43848) इन्फैंट्री, जे० के० शर्मा (आई० सी०-43849) इंजीनियर्स, आर० कुमार (आई० सी०-43850) ए० ग्री० सी०—14 जून, 1991 ।

विरेंद्र सिंह (आई० सी०-43851) ए० सी०, आर० विजय कुमार (आई० सी०-43852) इन्फैंट्री, गुरजीत सिंह (आई० सी०-43853) इन्फैंट्री, ए० डी० सरदाना (आई० सी०-43854) ई० एम० ई०, एस० जी० सरपोदतार (आई० सी०-43855) इन्फैंट्री, एम० जी० सेकरन (आई० सी०-43856) आर्टिलरी, एम० के० जंगली (आई० सी०-43857) आर्टिलरी, मंजीत कुमार (आई० सी०-43858) सिगनल्स, एच० एस० गिल (आई० सी०-43859) ए० एस० सी०, अजय अहुजा (आई० सी०-43862) इंजीनियर्स, संजय पंत (आई० सी०-43863) आर्टिलरी, ए० एम० गादे (आई० सी०-43867) सिगनल्स, बिसवाजीत दास (आई० सी०-43868) इन्फैंट्री, पी० कौल (आई० सी०-43869) आर्टिलरी, एस० सी० शर्मा (आई० सी०-43870) सिगनल्स, एस० के० जैना (आई० सी०-43871) इन्फैंट्री, प्रदीप भाटिया (आई० सी०-43872) इन्फैंट्री, एम० आर० पी० कुमार (आई० सी०-43873) आर्टिलरी, आर० के० यादव (आई० सी०-43874) इन्फैंट्री, विजय मेहता (आई० सी०-43875) इन्फैंट्री, आर० दीवान (आई० सी०-43877) इन्फैंट्री, यू सुन्दम (आई० सी०-43878) इन्फैंट्री, एस० पी० अहलावत (आई० सी०-43879) आर्टिलरी, एस० वतुवेंदी (आई० सी०-43880) ए० एस० सी०, एस० सी० गुप्ता (आई० सी०-43881) आर्टिलरी, --14 जून, 1991 ।

एस० भट्टाचार्य (आई० सी०-43882) इंजीनियर्स, एस० शर्मा (आई० सी०-43883) ए० एस० सी०, सुधीर कुमार (आई० सी०-43886) आर्टिलरी, आंशु तेरी (आई० सी०-43887) ए० एस० सी०, अनिल कमोजी (आई० सी०-43888) इंजीनियर्स, ए० के० सक्सेना (आई० सी०-43889) इन्फैंट्री, के० एस० जप्पल (आई० सी०-43890) ए० ग्री० सी०, पवन महरोत्रा (आई० सी०-43891) इन्फैंट्री, एन० पी० एस० बाना (आई० सी०-43892) इंजीनियर्स, एन० दीवानजी (आई० सी०-43893) इन्फैंट्री विरेश बहादुर (आई० सी०-43894) इन्फैंट्री, वी० एस०, वी० के० नायर (आई० सी०-43895) आर्टिलरी, संदीप सूद (आई० सी०-43897) इन्फैंट्री, आर० एस० हंस (आई० सी०-43898) ई० एम० ई०, एच० एम० माहेश्वरी (आई० सी०-43899) इन्फैंट्री, सतीश कुमार (आई० सी०-43902) आर्टिलरी, पी० मुखर्जी (आई० सी०-43903) इन्फैंट्री, ए० पी० सिंह (आई० सी०-43904) इन्फैंट्री आर० के० शर्मा (आई० सी०-43906) आर्टिलरी, के० के० शर्मा (आई० सी०-43907) सिगनल्स, एस० पी० विश्वानाथ (आई० सी०-43908) ए० ग्री० सी०, विश्वजीत

सिंह (आई० सी०-43909) ए० एस० सी०, असीम जोशी (आई० सी०-43910) इन्फैंट्री, संजय कपुर (आई० सी०-43911) आर्टिलरी,—14 जून, 1991 ।

शरद टंडन (आई० सी०-43912) ए० एस० सी०, एस० के० बी० शर्मा (आई० सी०-43913) इंजीनियर्स, आर० के० महाना (आई० सी०-43914) इन्फैंट्री, ए० के० पतरा (आई० सी०-43915) आर्टिलरी, एस० एस० एस० रिजवी (आई० सी०-43917) आर्टिलरी, राजीव मंडल (आई० सी०-43918) इन्फैंट्री, भूप सिंह (आई० सी०-43919) इन्फैंट्री, टी० के० राज (आई० सी०-43921) इन्फैंट्री, एस० इस्लाम (आई० सी०-43922) इन्फैंट्री, राजीव कपूर (आई० सी०-43923) इन्फैंट्री, आर० कोठारी (आई० सी०-43925) इन्फैंट्री, रामेश कुमार (आई० सी०-43927) इन्फैंट्री, एस० मंडारी (आई० सी०-43928) आर्टिलरी, अभय सिंह (आई० सी०-43930) ए० एस० सी०, विरेंद्र सिंह (आई० सी०-43931) इन्फैंट्री, भूपल कुमार (आई० सी०-43932) आर्टिलरी, आर० एस० कुशवाहा (आई० सी०-43933) सिगनल्स, अजीत कुमार (आई० सी०-43934) आर्टिलरी, अरुण पाण्डेय (आई० सी०-43935) इन्फैंट्री, वी० के० सुगाठन (आई० सी०-43937) इन्फैंट्री, राकेश वघावन (आई० सी०-43938) इन्फैंट्री, डी० अग्रवाल (आई० सी०-43940) आर्टिलरी, आर० एस० लोचम (आई० सी०-43941) ए० एस० सी०, अविनाश सिंह (आई० सी०-43942) ए० सी०, संजय खतरी (आई० सी०-43943) इन्फैंट्री—14 जून, 1991 ।

वी० के० बाहरी (आई० सी०-43944) आर्टिलरी, राजीव चौहान (आई० सी०-43945) ए० ग्री० सी०, सुभित्तो दास (आई० सी०-43946) ई० एम० ई०, टी० बैनर्जी (आई० सी०-43947) सिगनल्स, डी० चौधरी (आई० सी०-43948) इन्फैंट्री, जे० एस० बख्शी (आई० सी०-43949) ए० सी० एस० बी० सिंह (आई० सी०-43950) सिगनल्स, अश्विनी मुंशी (आई० सी०-43951) इंजीनियर्स, सांतनु घोष (आई० सी०-43952) इन्फैंट्री, इन्द्रजीत सिंह (आई० सी०-43953) इन्फैंट्री, एस० के० सांघवान (आई० सी०-43954) इन्फैंट्री, संदीप शांकरा (आई० सी०-43956) इन्फैंट्री, ए० पी० गुप्ता (आई० सी०-43957) आर्टिलरी, बिक्रम सिंह (आई० सी०-43958) इन्फैंट्री, एस० वी० सिंह (आई० सी०-43959) इन्फैंट्री, पी० एम० वसंत (आई० सी०-43960) आर्टिलरी, प्रवीण बिक्रम (आई० सी०-43961) इन्फैंट्री, के० एन० के० कोचु (आई० सी०-43962) इन्फैंट्री, पी० अग्निहोत्री (आई० सी०-43964) इंजीनियर्स, के० डी० एथले (आई० सी०-43967) आर्टिलरी, भूपेश कुमार (आई० सी०-43968) इन्फैंट्री, राकेश जुनेजा (आई० सी०-43969) सिगनल्स, राजीव शर्मा (आई० सी०-43971) इन्फैंट्री, ए० सिधवानी (आई० सी०-43972) ए० ग्री० सी०, अलोक शर्मा (आई० सी०-43974) ई० एम० ई०

एस० मेहरोत्रा (आई० सी०-43975) आर्टीलरी, एस० के० सिन्हा (आई० सी०-43976) आर्टीलरी, शरद कपूर (आई० सी०-43981) इन्फैंट्री, एन० मल्होत्रा (आई० सी०-43984) आर्टीलरी, रमन वर्मा (आई० सी०-43987) इन्फैंट्री, एस० सिवारमन (आई० सी०-43991) आर्टीलरी, बी० रबी कुमार (आई० सी०-43993) ए० एस० सी०, एस० वी० सिंह (आई० सी०-44014) ए० ई० सी०, बी० एस० प्रसाद (आई० सी०-44020) ए० ई० सी०, 14 जून, 1991 ।

टामस क्रोसफ (आई० सी०-37160) इंजीनियर्स—16 मई, 1982 ।

रवि शंकर (आई० सी०-35102) इंजीनियर्स—22 दिसम्बर, 1981 ।

बी० के० सक्सेना (आई० सी०-34750) इंजीनियर्स—01 फरवरी, 1988 ।

ए० के० मलिक  
सी० एस० प्रो०  
डी० ए० एम० एस० 8सी

#### राष्ट्रीय कैंडेट कोर

सं० 735, तारीख 15 जुलाई, 1992—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर कैंडेटों को राष्ट्रीय कैंडेट कोर उनके नाम के मामले दी गई तारीख से कमीशन प्रदान करते हैं:—

#### कनिष्ठ प्रभाग

तृतीय अफसर के रूप में

#### महाराष्ट्र

निलेश्वर देवराव (एन० सी० सी० जे०/178102)—18 मार्च, 1990 ।

संजय अहेर (एन० सी० सी० जे०/178103)—04 नवम्बर, 1991 ।

भाजेराव विनीत माधव (एन० सी० सी० जे०/178104)—04 नवम्बर, 1991 ।

मनवेल बाबूराव सोनावने (एन० सी० सी० जे०/178105)—04 नवम्बर, 1991 ।

निकुम्भ गुलाब राव दशरथ (एन० सी० सी० जे०/178106)—18 नवम्बर, 1991 ।

अनिल कुमार पुंडलीक राव कावडे (एन० सी० सी० जे०/178107)—11 फरवरी, 1991 ।

देशमुख अतुल गजाननराव (एन० सी० सी० जे०/178108)—05 नवम्बर, 1991 ।

आनन्द तुकाराम पाटिल (एन० सी० सी० जे०/178109)—04 नवम्बर, 1991 ।

मोरे संजय शाहाज (एन० सी० सी० जे०/178110)—03 नवम्बर, 1991 ।

#### दिल्ली

हरिबीरेंद्र सिंह (एन० सी० सी० जे०/166039)—06 दिसम्बर, 1991 ।

उषय सिंह (एन० सी० सी० जे०/166040)—13 मई, 1991 ।

गिरीश चन्द्र तिवारी (एन० सी० सी० जे०/166041)—03 नवम्बर, 1991 ।

मुनील कुमार (एन० सी० सी० जे०/166042)—08 नवम्बर, 1991 ।

योगेश सूद (एन० सी० सी० जे०/166043)—03 जून, 1991 ।

#### गुजरात

गौतम कुमार रामभाई राठौर (एन० सी० सी० जे०/172054)—05 सितम्बर, 1991 ।

सुस्मित एम० शाह (एन० सी० सी० जे०/172055)—04 नवम्बर, 1991 ।

अरविंदभाई भाईलाल भाई पटेल (एन० सी० सी० जे०/172056)—04 नवम्बर, 1991 ।

सुतारिया उमाकान्त गोविंदलाल (एन० सी० सी० जे०/172057)—03 नवम्बर, 1991 ।

परमार अमृत लाल मोतीलाल (एन० सी० सी० जे०/172058)—03 नवम्बर, 1991 ।

#### उत्तर पूर्व क्षेत्र

उमेश चन्द्र महन्त (एन० सी० सी० जे०/186048)—19 फरवरी, 1991 ।

जी० सुबिन्यन घास (एन० सी० सी० जे०/186049)—06 नवम्बर, 1991 ।

प्रमोद कुमार चौबे (एन० सी० सी० जे०/186050)—26 फरवरी, 1992 ।

कृष्ण कुमार सिंह (एन० सी० सी० जे०/186051)—29 फरवरी, 1992 ।

सुरेन्द्र सिंह (एन० सी० सी० जे०/186052)—29 फरवरी, 1992 ।

## बिहार

ब्रज नन्दन सिंह (एन० सी० सी० जे०/160053)—06  
नवम्बर, 1991।

नन्द किशोर सिंह (एन० सी० सी० जे०/160054)—17  
फरवरी, 1990।

## पश्चिम बंगाल

रंजन ब्रिस्वान (एन० सी० सी० जे०/192055)—27  
फरवरी, 1990।

ब्रजेन्द्र नाथ नस्कर (एन० सी० सी० जे०/192056)—  
06 नवम्बर, 1990।

गोकुल चन्द्र सरकार (एन० सी० सी० जे०/192057)—  
05 नवम्बर, 1990।

कार्तिक चन्द्र दे (एन० सी० सी० जे०/192058)—13  
फरवरी, 1991।

जुधिष्ठिर छातुई (एन० सी० सी० जे०/192059)—04  
नवम्बर, 1991।

कल्याण पात्रा (एन० सी० सी० जे०/192060)—03  
नवम्बर, 1991।

मदन मोहन मंडल (एन० सी० सी० जे०/192061)—  
11 नवम्बर, 1991।

अरविन्द कुमार राय (एन० सी० सी० जे०/192062)—  
04 नवम्बर, 1991।

जे० एस० अहलूवालिया,  
वि० से० मे० ब्रिगेडियर  
उप महानिदेशक (एम०एस०)

## राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं० 736, तारीख 15 जुलाई, 1992—राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पदोन्नतियां करते हैं—

तृतीय अफसर से द्वितीय अफसर के रूप में

## बिहार

तृतीय अफसर आर० एन० झा (एन० सी० सी० जे०/1720)  
—16 मार्च, 1991 से।

तृतीय अफसर आर० एम० कुमार (एन० सी० सी० जे०/  
2004)—24 जुलाई, 1991 से।

तृतीय अफसर ए० पी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/1960)  
—16 मार्च, 1991 से।

तृतीय अफसर बी० के० झा (एन० सी० सी० जे०/160002)  
—13 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर आर० के० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/160005)  
—12 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एस० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
160018)—13 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एम० एन० सिंह (एन० सी० सी० जे०/160017)  
—12 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर ए० के० तिवारी (एन० सी० सी० जे०/2009)  
—25 अगस्त, 1991 से।

## महाराष्ट्र

तृतीय अफसर ए० क० कदम (एन० सी० सी० जे०/82261)  
—25 अगस्त, 1991 से।

तृतीय अफसर एन० यू० सर्वडे (एन० सी० सी० जे०/178005)  
—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर पी० एन० चव्हाण (एन० सी० सी० जे०/178006)  
—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर ए० वी० डम्बरे (एन० सी० सी० जे०/  
178007)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर वाई० यू० अहीर राव (एन० सी० सी० जे०/  
178019)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर डी० एल० जाधव (एन० सी० सी० जे०/  
178042)—11 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर पी० आर० भावंत (एन० सी० सी० जे०/  
178021)—11 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर आर० आर० पवार (एन० सी० सी० जे०/  
178022)—11 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर डी० के० देवले (एन० सी० सी० जे०/  
178059)—11 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर आर० वी० ठाकरे (एन० सी० सी० जे०/  
178080)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एस० डी० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/  
178001)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एम० डी० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/  
178002)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एच० आर० मासी (एन० सी० सी० जे०/  
178008)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर बी० जे० खोबरे (एन० सी० सी० जे०/  
178004)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर आर० वी० पवार (एन० सी० सी० जे०/  
178024)—11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर गी० एम० कलकर्णी (एन० सी० सी० जे०/  
178010)—12 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर जी० के० कुलकर्णी (एन० सी० सी० जे०/  
178013)--11 सितम्बर, 1991 में।

तृतीय अफसर एम० एल० देरे (एन० सी० सी० जे०/  
178012)--11 सितम्बर, 1991 में।

तृतीय अफसर एस० एम० त्रिशजदार (एन० सी० सी० जे०/  
178011)--11 सितम्बर, 1991 में।

तृतीय अफसर बी० के० शेटके (एन० सी० सी० जे०/8  
82245)--10 मार्च, 1989 से।

तृतीय अफसर एस० डी० शिवाल (एन० सी० सी० जे०/  
82339)--15 जून, 1991 से।

तृतीय अफसर एम० एस० ए० गनी (एन० सी० सी० जे०/  
178063)--11 सितम्बर, 1991 में।

तृतीय अफसर टी० बी० जाधव (एन० सी० सी० जे०/  
178032)--22 मार्च, 1992 से।

तृतीय अफसर एस० एस० जाधव (एन० सी० सी० जे०/  
178036)--26 फरवरी, 1992 से।

तृतीय अफसर जे० एस० पिपरिया (एन० सी० सी० जे०/  
178082)--01 दिसम्बर, 1991 में।

तृतीय अफसर बी० के० वाघमोडे (एन० सी० सी० जे०/  
178035)--27 फरवरी, 1992 में।

तृतीय अफसर बी० के० कक्कड़ (एन० सी० सी० जे०/  
178030)--25 फरवरी, 1992 से।

तृतीय अफसर एम० एच० तेन्वी (एन० सी० सी० जे०/  
178025)--21 मार्च, 1992 में।

तृतीय अफसर एम० एम० शितोले (एन० सी० सी० जे०/  
178046)--06 फरवरी, 1992 से।

तृतीय अफसर डी० के० मदाने (एन० सी० सी० जे०/  
178037)--25 फरवरी, 1992 से।

तृतीय अफसर एम० एस० मोने (एन० सी० सी० जे०/  
178039)--21 मार्च, 1992 में।

तृतीय अफसर एस० टी० माने (एन० सी० सी० जे०/  
178043)--01 दिसम्बर, 1991 में।

तृतीय अफसर आर० एच० घोष (एन० सी० सी० जे०/  
178044)--01 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एच० आर० दराडे (एन० सी० सी० जे०/  
82270)--24 जुलाई, 1991 में।

तृतीय अफसर यू० डी० जोशी (एन० सी० सी० जे०/  
178038)--21 मार्च, 1992 में।

तृतीय अफसर के० एल० खैरे (एन० सी० सी० जे०/  
178047)--12 मार्च, 1992 में।

तृतीय अफसर डी० एम० देवरे (एन० सी० सी० जे०/178034)  
--21 मार्च, 1992 में।

## उत्तर पूर्व क्षेत्र

तृतीय अफसर एणमय माहा (एन० सी० सी० जे०/795)  
--10 मई, 1991 में।

तृतीय अफसर टी० बनिज (एन० सी० सी० जे०/796)  
--10 मई, 1991 में।

तृतीय अफसर एस० एस० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
186020)--01 दिसम्बर, 1991 में।

## गुजरात

तृतीय अफसर के० डी० ज्ञानाय (एन० सी० सी० जे०/  
35784)--06 अप्रैल, 1991 से।

तृतीय अफसर बी० टी० जाधव (एन० सी० सी० जे०/  
1720011)--27 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एस० डी० खेडकर (एन० सी० सी० जे०/  
172010)--28 दिसम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर डी० डी० माहिदा (एन० सी० सी० जे०/  
172005)--11 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एम० जे० पटेल (एन० सी० सी० जे०/  
172004)--11 सितम्बर, 1991 में।

तृतीय अफसर एन० ओ० गोंडालिया (एन० सी० सी० जे०/  
172007)--01 दिसम्बर, 1991 से।

## पश्चिम बंगाल

तृतीय अफसर जी० एन० भुनिथा (एन० सी० सी० जे०/  
15798)--15 मार्च, 1991 से।

तृतीय अफसर एम० आर० भट्टो (एन० सी० सी० जे०/  
192003)--13 सितम्बर, 1991 से।

तृतीय अफसर एस० के० एन० अमीन (एन० सी० सी० जे०/  
192009)--21 जनवरी, 1992 से।

तृतीय अफसर बी० सरकार (एन० सी० सी० जे०/192010)  
--21 जनवरी, 1992।

तृतीय अफसर डी० सी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/एन०/  
15638)--14 अप्रैल, 1985 से।

## दिल्ली

तृतीय अफसर जे० बी० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/  
166013)--01 अगस्त, 1991 में।

तृतीय अफसर एच० आर० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
166017)--01 अगस्त, 1991 में।

तृतीय अफसर एस० के० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/  
166007)--01 दिसम्बर, 1991 से।

द्वितीय अफसर से प्रथम अफसर के रूप में

## महाराष्ट्र

द्वितीय अफसर बी० के० गजरे (एन० सी० सी० जे०/  
82157)--27 फरवरी, 1992 से।

द्वितीय अफसर आर० एम० चौहान (एन० सी० सी० जे०/  
81977)---01 दिसम्बर, 1991 से।

द्वितीय अफसर एम० एम० रत्नावारे (एन० सी० सी० जे०/  
82033)---25 अगस्त, 1991 से।

द्वितीय अफसर ए० एम० वकोडे (एन० सी० सी० जे०/  
82226)---27 फरवरी, 1992 से।

द्वितीय अफसर जे० बी० ब.विस्कर (एन० सी० सी० जे०/  
82153)---27 फरवरी, 1992 से।

द्वितीय अफसर एल० जी० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/  
82154)---27 फरवरी, 1992 से।

द्वितीय अफसर जे० बी० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/  
82167)---02 मई 1992 से।

द्वितीय अफसर बी० डी० नलवाडे (एन० सी० सी० जे०/  
82152)---27 फरवरी, 1992 से।

द्वितीय अफसर बी० आर० पाटिल (एन० सी० सी० जे०/  
82151)---27 फरवरी, 1992 से।

द्वितीय अफसर वी० एम० महाजन (एन० सी० सी० जे०/  
82145)---01 दिसम्बर, 1991 से।

द्वितीय अफसर एम० पी० दौलतानी (एन० सी० सी० जे०/  
एन०/82228)---14 मई, 1992 से।

द्वितीय अफसर आर्क्ष० ए० शोख (एन० सी० सी० जे०/  
82168)---27 नवम्बर, 1991 से।

द्वितीय अफसर एन० एन० गवहाने (एन० सी० सी० जे०/  
82014)---08 अक्टूबर, 1991 से।

द्वितीय अफसर एम० आर० नरखेडे (एन० सी० सी० जे०/  
82013)---08 अक्टूबर, 1991 से।

द्वितीय अफसर एच० ए० जाधवार (एन० सी० सी० जे०/  
81967)---29 जुलाई, 1987 से।

द्वितीय अफसर बी० पी० राजगुरू (एन० सी० सी० जे०/  
82165)---06 सितम्बर, 1991 से।

#### उत्तर पूर्व क्षेत्र

द्वितीय अफसर बी० डी० नाथ (एन० सी० सी० जे०/762)  
---10 अगस्त, 1991 से।

द्वितीय अफसर बी० सी० पाल (एन० सी० सी० जे०/  
25829)---26 फरवरी, 1990 से।

द्वितीय अफसर ए० सी० गोस्वामी (एन० सी० सी० जे०/  
687)---10 सितम्बर, 1991 से।

द्वितीय अफसर यू० एन० गवान (एन० सी० सी० जे०/  
740)---02 दिसम्बर, 1991 से।

द्वितीय अफसर एल० ब्राह्मण (एन० सी० सी० जे०/  
25833)---09 अगस्त, 1991 से।

#### गुजरात

द्वितीय अफसर एच० आर० गोस्वामी (एन० सी० सी० जे०/  
35710)---01 दिसम्बर से 1991।

द्वितीय अफसर के० जे० घाला (एन० सी० सी० जे०/  
35701)---24 जुलाई, 1991 से।

#### पश्चिम बंगाल

द्वितीय अफसर एल० के० दला (एन० सी० सी० जे०/  
15180)---05-12-90 से।

द्वितीय अफसर ए० चक्रवर्ती (एन० सी० सी० जे०/  
15695)---14-09-91 से।

द्वितीय अफसर ए० के० धारा (एन० सी० सी० जे०/  
15602)---01-12-91 से।

द्वितीय अफसर ए० सी० चतुर्वेदी (एन० सी० सी० जे०/  
15635)---24-07-91 से।

द्वितीय अफसर एल० एम० मैटी (एन० सी० सी० जे०/  
15685)---01-12-91 से।

द्वितीय अफसर एम० सी० मरकार (एन० सी० सी० जे०/  
15468)---04-12-91 से।

द्वितीय अफसर आर० के० घोष (एन० सी० सी० जे०/ए०/  
15645)---08-10-91 से।

द्वितीय अफसर एम० सी० राय (एन० सी० सी० जे०/  
15553)---26-07-89 से।

द्वितीय अफसर पी० के० पाल (एन० सी० सी० जे०/  
15598)---20-05-89 से।

द्वितीय अफसर वी० पी० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
15574)---06-12-89 से।

#### बिहार

द्वितीय अफसर टी० के० विस्वास (एन० सी० सी० जे०/  
1820)---24-07-91 से।

द्वितीय अफसर के० शर्मा (एन० सी० सी० जे०/1761)-  
25-8-91 से।

द्वितीय अफसर ए० कुमार (एन० सी० सी० जे०/1908)-  
24-09-91 से।

द्वितीय अफसर डी० सी० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
1810)---16-03-91 से।

द्वितीय अफसर आर० डी० मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/  
1901)---25-08-91 से।

द्वितीय अफसर एम० मंडल (एन० सी० सी० जे०/  
1906)---22-12-91 से।



द्वितीय अफसर यू० कुमार (एन० सी० सी० जे०/  
1913)---28-02-92 से

द्वितीय अफसर जी० एम० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
1915)---29-02-92 से

द्वितीय अफसर एन० के० लाथ (एन० सी० सी० जे०/  
1921)---01-03-92 से

द्वितीय अफसर मुहम्मद निजामुद्दीन (एन० सी० सी० जे०/  
1927)---28-2-92 से

द्वितीय अफसर एस० एन० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/  
1926)---28-02-92 से

द्वितीय अफसर एस० एन० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
1918)---29-02-92 से

दिल्ली

द्वितीय अफसर के० के० यादव (एन० सी० सी० जे०/  
166010)---13-09-91 से

प्रथम अफसर से मुख्य अफसर के रूप में

महाराष्ट्र

प्रथम अफसर के० के० मिश्रा (एन० सी० सी० जे०/  
81843)---01-10-91 से

प्रथम अफसर एस० ए० मुस्ताक (एन० सी० सी० जे०/  
81815)---09-09-91 से

प्रथम अफसर वी० एस० शिवकर (एन० सी० सी० जे०  
81853)---08-10-91 से

प्रथम अफसर वी० वी० कविमंडन (एन० सी० सी० जे०  
81851)---09-09-91 से

प्रथम अफसर एन० एम० मोते (एन० सी० सी० जे०/  
81835)---16-7-91 से

बिहार

प्रथम अफसर के० पी० सिंह एन० सी० सी० जे०/  
1729)---24-02-92 से

प्रथम अफसर एम० डी० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/  
1739)---18-03-92 से

प्रथम अफसर जी० एल० दाम (एन० सी० सी० जे०/  
1719)---17-01-92 से

प्रथम अफसर आर० पी० महती (एन० सी० सी० जे०/  
1732)---01-01-92 से

गुजरात

प्रथम अफसर एम० के० घोड़ेसरा (एन० सी० सी० जे०/  
35626)---01-10-91 से

2-204 GI/92

प्रथम अफसर एम० पी० त्रिवेदी (एन० सी० सी० जे०/  
35588)---18-07-91 से

पश्चिम बंगाल

प्रथम अफसर पी० कारक (एन० सी० सी० जे०/  
15153)---24-07-91 से

प्रथम अफसर एम० पी० गांगुली (एन० सी० सी० जे०/  
15399)---25-08-91 से

प्रथम अफसर डी० आर० मुखोपाध्याय (एन० सी० सी०  
जे०/15491)---15-01-92 से

प्रथम अफसर जी० एन० घोष (एन० सी० सी० जे०/  
15442)---01-12-91 से

उत्तर पूर्व क्षेत्र

प्रथम अफसर एम० एम० त्यागी (एन० सी० सी० जे०/  
4821)---25-08-91 से

प्रथम अफसर जे० प्रसाद (एन० सी० सी० जे०/684)-  
24-07-91 से

प्रथम अफसर एन० सी० सरमाह (एन० सी० सी० जे०/  
683)---15-11-90 से

प्रथम अफसर डब्ल्यू० के० सिंह (एन० सी० सी० जे०/  
755)---01-01-92 से

जे० एम० अहलूवालिया,  
वि० से० मे०

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक (एम एस)

(सेना विभाग)

सं० 737, दिनांक 15-7-92---राष्ट्रपति, निम्नलिखित  
पदोन्नति (यां) करते हैं:---

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

कर्नल वी० एन० दत्त (आई० सी०-12130) आर्टी---  
02-02-90 ।

कर्नल डी० ए० परांजवे (आई० सी०-12416) बीर-  
चक्र, इन्फैन्ट्री---02-02-90 ।

कर्नल एस० के० दीवान (आई० सी०-12488) ए०  
एम० सी०---02-02-90 ।

कर्नल एम० वी० पाल (आई० सी०-12598),  
इन्फैन्ट्री---02-02-90 ।

कर्नल डी० डी० भल्ला (आई० सी०-12624) शौर्य  
चक्र, इन्फैन्ट्री---02-02-90 ।

कर्नल एम० सी० गुप्ता (आई० सी०-12638) ए०  
श्री० सी०-02-02-90 ।

कर्नल ए० के० मिश्रा (आई० सी०-12902) इन्फैन्ट्री,  
02-02-90

कर्नल आर० सी० शर्मा (आई० सी०-12930)  
इन्फैन्ट्री-02-02-90 ।

कर्नल एम० सी० मनोवा (आई० सी०-13026)  
ए० श्री० सी०-02-02-90 ।

कर्नल आर० एन० महाजन (आई० सी०-19799),  
ई० एम० ई०-02-02-90 ।

कर्नल एम० एम० वत्सा (आई० सी०-19801) इन्जी-  
नियर्स-19-02-90 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन और पेंशन पर  
प्रभाव डाले बिना 02-02-90 से दी जायेगी ।

कर्नल एम० एस० शेरगिल (आई० सी०-13152)  
वीर चक्र, आर्मर्ड कोर-02-02-90 ।

कर्नल आर० एम० फादयान (आई० सी०-13153)  
वि० मे० मे०, इन्फैन्ट्री-02-02-90 ।

कर्नल सी० एल० वर्मा (आई० सी०-13164) इन्जी-  
नियर्स-21-1-91 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन और पेंशन पर  
प्रभाव डाले बिना 2-2-90 से दी जायेगी ।

कर्नल डी० के० मदान (आई० सी०-13168)  
इन्फैन्ट्री-02-02-90 ।

कर्नल आर० पी० आर० सी० नायक (आई० सी०-  
13169) वि० मे० मे०-02-02-90 ।

कर्नल पी० के० शर्मा (आई० सी०-13172) वीरचक्र,  
आर्टी०-02-02-90 ।

कर्नल जे० पी० सिंह (आई० सी०-13175), आर्मर्ड-  
कोर-02-02-90 ।

कर्नल पी० सी० उषा (आई० सी०-13177),  
इन्फैन्ट्री-02-02-90 ।

कर्नल विरेन्द्र कुमार (आई० सी०-13185) सिग्नल-  
02-02-90 ।

कर्नल एच० आर० एम० कालकत (आई० सी०-  
13193) इन्फैन्ट्री-02-02-90 ।

कर्नल एच० एम० मंथा (आई० सी०-13194) इन्फैन्ट्री  
-02-02-90 ।

कर्नल बी० एम० मलिक (आई० सी०-13198)  
अ० वि० मे० मे०, इन्फैन्ट्री-02-02-90 ।

कर्नल एम० एम० पुरी (आई० सी०-13199) इन्फैन्ट्री-  
-02-02-90 ।

कर्नल पी० एम० मिगलानी (आई० सी०-13204)  
आर्टी०-02 फरवरी, 1990 ।

कर्नल जे० के० चड्ढा (आई० सी०-13211) इन्फैन्ट्री  
-02 फरवरी 1990 ।

कर्नल ए० के० मंडी (आई० सी०-13228) ई० एम०  
ई०-01 मार्च, 1990 ।

कर्नल यू० एस० तन्ना (आई० सी०-13231) आर्टी०  
-01 मार्च, 1990 ।

कर्नल एम० एम० शाहिया (आई० सी०-13233)  
सिग्नल-01 मार्च 1990 ।

कर्नल एम० जे० एम० महगल (आई० सी०-13244)  
आर्टी०-01 मार्च, 1990 ।

कर्नल एस० बी० एम० कोवर (आई० सी०-13247)  
इन्फैन्ट्री-01 मार्च 1990 ।

कर्नल जे० एम० मान (आई० सी०-13248) आर्टी०-  
01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल बी० एम० गिल (आई० सी०-13251) आर्टी०-  
01 अप्रैल 1990 ।

कर्नल आर० एस० पठानिया (आई० सी०-13254)  
इन्फैन्ट्री-01 अप्रैल 1990 ।

कर्नल ए० सी० शर्मा (आई० सी०-13260) बी० एम०  
एम०, ए० श्री० सी०-01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल ए० एन० सिरपुरकर (आई० सी०-13261)  
इन्फैन्ट्री-01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल एम० एम० प्रेवाल (आई० सी०-13264)  
मे० मे० इन्फैन्ट्री-01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल एम० सी० मगोत्रा (आई० सी०-13265)  
आर्टी०-01 अप्रैल 1990 ।

कर्नल मुलतान महमूद (आई० सी०-13270) आर्टी०-  
01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल ए० एम० अधिकारी (आई० सी०-13275)  
बी० एम० एम० इन्फैन्ट्री-01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल एम० एम० वामुशेव (आई० सी०-13294)  
इन्जीनियर्स-01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल एम० एम० कलेर (आई० सी०-13297)  
इन्फैन्ट्री-01 अप्रैल 1990 ।

कर्नल विजय लाल (आई० सी०-13306) ए० श्री०  
सी०-01 अप्रैल, 1990 ।

कर्नल एम० के० ज्ञान्डीवाल (आई० सी०-13311)  
सिग्नल-01 अप्रैल 1990 ।

कर्मल के. एम. डिल्लो (आई. सी.—13320) आर्टी—  
01 अप्रैल, 1990 ।

कर्मल आर. एन. बत्रा (आई. सी.—13328)  
ए. प्रो. सी.—10 अप्रैल, 1990 ।

कर्मल ए. एम. बल (आई. सी.—13377) ग. और  
चक्र, आमंडे—16 अप्रैल, 1990 ।

कर्मल ए. आर. के. रेड्डी (आई. सी.—13379)  
इन्फैन्ट्री—28 अप्रैल, 1990 ।

कर्मल ए. एम. राव (आई. सी.—13385) इन्फैन्ट्री—  
01 मई, 1990 ।

कर्मल बी. मिह्रा (आई. सी.—13393) ए. एम.  
सी.—01 मई, 1990 ।

कर्मल अन्नार मिह (आई. सी.—13395) इन्फैन्ट्री—  
01 मई, 1990 ।

कर्मल आर. सी. भाटिया (आई. सी.—13398)  
इन्फैन्ट्री—01 मई, 1990 ।

कर्मल एच. सी. दुआ (आई. सी.—13348) आर्टी—  
01 मई, 1990 ।

कर्मल ए. के. मोहला (आई. सी.—13350) ए. एम.  
सी.—01 मई, 1990 ।

कर्मल एच. डी. पन्थ (आई. सी.—13357)  
इन्फैन्ट्री—01 मई, 1990 ।

कर्मल एम. एम. भट्टी (आई. सी.—13357)  
आर्टी—01 मई, 1990 ।

कर्मल के. के. चतुर्वेदी (आई. सी.—13415) आर्टी—  
01 मई, 1990 ।

कर्मल जे. के. रेली (आई. सी.—13416) आर्टी  
ए. एम., इन्फैन्ट्री—01 मई, 1990 ।

कर्मल आर. बी. शर्मा (आई. सी.—13442) ए.  
प्रो. सी.—20 अक्टूबर, 1990 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन  
और पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01 मई, 1990 से दी  
जायेगी ।

कर्मल एफ. एफ. बलसारा (आई. सी.—13234)  
ए. बी. एम. एम. इन्फैन्ट्री—01 मई, 1990 ।

कर्मल बी. एम. नीलकण्ठप्पा (आई. सी.—23664)  
ई. एम. ई.—14 जुलाई, 1990 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन  
और पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 01 मई, 1990 से दी जायेगी ।

कर्मल जेड एम. खोसा (आई. सी.—19776) ई.  
एम. ई.—01 मई, 1990 ।

कर्मल आर. एम. गुक्ला (आई. सी.—13227)  
मिस्तक—01 मई, 1990 ।

कर्मल एम. एम. बेनियप्पा (आई. सी.—13375)  
वि. से. मे. इन्फैन्ट्री—01 मई, 1990 ।

कर्मल सी. नागयण (आई. सी.—13521) इंजीनियर्स—  
9-8-90 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन और पेंशन पर प्रभाव  
डाले बिना 01-6-90 से दी जायेगी ।

कर्मल एम. पी. एम. कोरुल (आई. सी.—13522)  
इंजीनियर्स—01-6-90 ।

कर्मल ए. बी. माथे (आई. सी.—13523) इंजी-  
नियर्स—01-6-90 ।

कर्मल एम. एन. कार्ती (आई. सी.—13527)  
इंजीनियर्स—17-7-90 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन और पेंशन  
पर प्रभाव डाले बिना 01-6-90 से दी जायेगी ।

कर्मल आर. एम. रंभादा (आई. सी.—13528)  
आमंडे फोर्स—01-6-90 ।

कर्मल आर. एम. कडु (आई. सी.—13529)  
इंजीनियर्स—01-6-90 ।

कर्मल बी. बी. बत्रा (आई. सी.—13531) आर्टी—  
15-6-90 ।

कर्मल एम. एन. ए. करियप्पा (आई. सी.—13532)  
इन्फैन्ट्री—01-7-90 ।

कर्मल एम. डी. सोहन (आई. सी.—13534)  
इंजीनियर्स—10-7-90 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन और पेंशन  
पर प्रभाव डाले बिना 01-7-90 से दी जायेगी ।

कर्मल आर. के. कश्यप (आई. सी.—13538) वि.  
से. मे. ई. एम. ई.—01-7-90 ।

कर्मल के. एम. पल्लारडे (आई. सी.—13539) अति.  
वि. से. मे. इन्फैन्ट्री—01-7-90 ।

कर्मल एम. बी. मिह (आई. सी.—13544)  
इन्फैन्ट्री—01-7-90 ।

कर्मल एम. जी. बोम्बकंटे (आई. सी.—13545)  
इंजीनियर्स—10-7-90 से परन्तु ज्येष्ठता वेतन और पेंशन  
पर प्रभाव डाले बिना 01-7-90 से दी जायेगी ।

कर्मल बी. एन. बोहरा (आई. सी.—13547) ए.  
ओ. सी.—01-7-90 ।

कर्मल एम. के. करियप्पा (आई. सी.—13548)  
ग्रू. से. मे. आर्टी—01-7-90 ।

कर्मल एम. सी. कुकरेजा (आई. सी.—13552)  
ए. एम. सी.—01-7-90 ।

कर्मल एच. एम. मन्देश्वर (आई. सी.—13553)  
से. मे. वि. से. मे. इन्फैन्ट्री—14-7-90 ।

कर्मल बी. के. कृटारिया (आई. सी.—13558)  
वि. से. मे. मिस्तक—28-7-90 ।

कर्नल एस० डी० सूद (आई० सी०-13560)

इन्फैन्ट्री--01-8-90।

कर्नल बी० के० शर्मा (आई० सी०-13562)

सिग्नल--01-8-90।

कर्नल एन० एल० पूनिया (आई० सी०-13565)

से० में० इन्फैन्ट्री--01-8-90।

कर्नल ए० ०० अदालखा (आई० सी०-13566) ई०

एम० ई०--01-8-90।

कर्नल सुरेन्द्र वर्मा (आई० सी०-13567) इन्फैन्ट्री--

02-8-90।

कर्नल बी० के० श्रीवास्तव (आई० सी०-13575)

इन्फैन्ट्री--01-8-90।

कर्नल एस० एन० वर्मा (आई० सी०-13580)

इन्फैन्ट्री--01-8-90।

कर्नल एम० एम० पठानिया (आई० सी०-13581)

इन्फैन्ट्री--01-8-90।

कर्नल रमेश्वर सेठी (आई० सी०-13583) आर्टी-

01-8-90।

कर्नल एस० डी० सिंह (आई० सी०-13587) सिग्नल

04-8-90।

कर्नल जे० पी० सिंह (आई० सी०-13591) सिग्नल

08-8-90।

कर्नल बी० के० बजाज (आई० सी०-13592)

सिग्नल--08-8-90।

कर्नल एस० के० दसा (आई० सी०-13593) सिग्नल

10-8-90।

कर्नल ए० के० शर्मा (आई० सी०-13594) ई० एम०

ई०--23-8-90।

कर्नल एस० सी० जौली (आई० सी०-13597) इन्ट

कोर--01-9-90।

कर्नल जएस० एस० कपूर (आई० सी०-13601)

सिग्नल--01-9-90।

कर्नल के० के० खजूरिया (आई० सी०-13606)

इन्फैन्ट्री--01-9-90।

कर्नल आर० आर० पलसोकर (आई० सी०-13607)

इन्फैन्ट्री--01-9-90।

कर्नल एल० सी० कुठियाला (आई० सी०-13621)

आर्टी--01-9-90।

कर्नल जी० एम० खिमटा (आई० सी०-13632)

इन्फैन्ट्री--01-9-90।

कर्नल एम० ए० गुरवक्षानी (आई० सी०-13633)

इन्फैन्ट्री--01-9-90।

कर्नल शंकर प्रसाद (आई० सी०-13642) वि० मे० मे०

इन्फैन्ट्री--01-9-90।

कर्नल पी० के० पुरी (आई० सी०-13650), इन्फैन्ट्री-

01-9-90।

कर्नल बी० के० सरौत (आई० सी०-13652) ए०

ओ० सी०--01-9-90।

कर्नल बी० एम० नारंग (आई० सी०-13655) इन्फैन्ट्री

01-9-90।

कर्नल आर० एम० सोहन (आई० सी०-13659)

इन्फैन्ट्री--02-9-90।

कर्नल एम० के० सिंह (आई० सी०-13665) इन्फैन्ट्री

02-9-90।

कर्नल पी० के० श्रेवाल (आई० सी०-13673) ए०

ओ० सी०--02-9-90।

कर्नल ए० एम० पोमली (आई० सी०-13676) वि०

से० मे०; ई० एम० ई०--25-9-1990।

कर्नल सुरेन्द्र शाह (आई० सी०-13687) इन्फैन्ट्री--

25-9-90।

कर्नल एन० के० बाराटन (आई० सी०-13765)

आर्टी--25-9-90।

कर्नल जेड० एम० धालीवाल (आई० सी०-13772)

इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्नल जे० के० तोमर (आई० सी०-13775) वीर

चक्र, इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्नल ए० एम० निगोदी (आई० सी०-13789)

इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्नल एम० के० अरोड़ा (आई० सी०-13795)

सिग्नल--25-9-90।

कर्नल एन० सी० विज (आई० सी०-13710)

इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्नल जी० एम० कहलों (आई० सी०-13714)--

25-9-90।

कर्नल बी० के० मारदा (आई० सी०-13715) वीर

चक्र (इन्फैन्ट्री)--25-9-90।

कर्नल पी० एस० जोशी (आई० सी०-13720) वी०

एस० एम० इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्नल सी० नन्दवानी (आई० सी०-13726) वी० एम०

एम०, ए० एम० सी०-25-9-90।

कर्नल आर० एम० मुगई (आई० सी०-14745) से०

मे०, ए० एम० सी०--25-9-90।

कर्नल एस० एस० पाटील (आई० सी०-13799) उ०

यु० से० में०, इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल पी० एम० भट्ट (आई० सी०-13808) से० मे०  
त्रि० से० मे०; इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल के० सी० सतपथी (आई० सी०-13809) आर्टी--  
25-9-90।

कर्मल बी० ए० करियप्पा (आई० सी०-13810)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल डी० पी० सिंह (आई० सी०-13817) वीर  
सक. इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल आर० के० नानावटी (आई० सी०-13878)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल आर० मलहोत्रा (आई० सी०-13881) आर्मर्ड  
कोर--25-9-90।

कर्मल कुलवन्त सिंह (आई० सी०-13887) इंजीनियर्स  
29-12-90 से परन्तु ज्वेष्ठता, बेलत और पेशन पर प्रभाव  
डालने बिना 25-9-90 से दी जायेगी।

कर्मल ए० साहानी (आई० सी०-13888) इंजीनियर्स  
25-9-90।

कर्मल पी० के० भण्डारी (आई० सी०-13893)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल मोहन सिंह (आई० सी०-13894) इंजीनियर्स--  
25-9-90।

कर्मल एम० एस० मेहता (आई० सी०-13898) वि०  
मे० मे०, आर्मर्ड कोर--25-9-90।

कर्मल बी० एस० राठी (आई० सी०-13900) ई०  
एम० ई०--25-9-90।

कर्मल आई० एस० डिल्लन (आई० सी०-13905)  
इंजीनियर्स--25-9-90।

कर्मल एम० एम० चाद (आई० सी०-13908) आर्टी  
25-9-90।

कर्मल एम० एम० पुरी, (आई० सी०-13911)  
इंजीनियर्स--25-9-90।

कर्मल गुरप्रीत सिंह (आई० सी०-13914) इन्ट कोर  
25-9-90।

कर्मल ए० एम० बल (आई० सी०-13916) आर्मर्ड  
कोर--25-9-90।

कर्मल एम० के० गुप्ता (आई० सी०-13917) ई०  
एम० ई०--25-9-90।

कर्मल जी० एम० लमराडो (आई० सी०-13921)  
आर्टी--25-9-90।

कर्मल एम० सी० खुल्लर (आई० सी०-13928)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल शमशेर सिंह (आई० सी०-13929) सिग्नल--  
25-9-90।

कर्मल बी० जयणकार (आई० सी०-13946) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मल बी० के० सेवल (आई० सी०-13947) आर्मर्ड  
कोर--25-9-90।

कर्मल एम० बाहरी (आई० सी०-13950) आर्टी--  
25-9-90।

कर्मल डी० एम० चौहान (आई० सी०-13951) उ०  
यू० से० मे० वि० से० मे० इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल एम० के० जैन (आई० सी०-13954) अ०  
वि० से० मे० वि० से० मे० ई० एम० ई०--25-9-90।

कर्मल सी० एस० पनाग (आई० सी०-13960) यू०  
मे० मे०; इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल एच० एम० संगत (आई० सी०-13962)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल एन० सी० चांभड़ा (आई० सी०-13963) वि०  
मे० मे० इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल एच० एस० बग्गा (आई० सी०-13969)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल एच० उमियाल (आई० सी०-13971) इंजीनियर्स  
25-9-90।

कर्मल ए० के० शर्मा (आई० सी०-13983) सिग्नल--  
25-9-90।

कर्मल कवलजीत सिंह (आई० सी०-13992) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मल आर० के० बत्रा (आई० सी०-13997) आर्टी--  
25-9-90।

कर्मल एम० एम० ढाका (आई० सी०-14002) आर्टी--  
25-9-90।

कर्मल आर० मेहता (आई० सी०-14003) वि० से०  
मे०, ए० ओ० सी०--25-9-90।

कर्मल बी० एल० गुंजीकर (आई० सी०-14006)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल धरमजीत सिंह (आई० सी०-14011) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मल कृष्ण पाल (आई० सी०-14039) (वि० से०  
मे०, इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मल एम० एस० चन्वोक (आई० सी०-14058)  
ए० एम० सी०--25-9-90।

कर्मल जे० एस० कांग (आई० सी०-14060) इन्टि०  
कोर--25-9-90।

कर्मचारी पी० एम० मनोहरन (आई० सी०-14205)  
आर्टी (जी० सी०)--25-9-90।

कर्मचारी एम० नर० मंगुचो, (आई० सी०-14210)  
इन्फैन्ट्री--25-9-90।

कर्मचारी एम० जी० पिले (आई० सी०-14261) इन्जी-  
नियर्स--8-10-90 से परन्तु ज्येष्ठता 25-9-90 में  
वेतन और पेंशन पर प्रभाव डालने बिना दी जायेगी।

कर्मचारी एम० सी० जोशी (आई० सी०-14266) इन्फैन्ट्री,  
25-9-90।

कर्मचारी के० के० सागुली (आई० सी०-14269) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मचारी ओ० पी० एकबाल (आई० सी०-14271) इन्फैन्ट्री  
25-9-90।

कर्मचारी एम० सी० धराला (आई० सी०-14077) ई०एम०  
ई० 05-11-90 में परन्तु ज्येष्ठता, वेतन और पेंशन पर प्रभाव  
डालने बिना 25-9-90 में दी जायेगी।

कर्मचारी आर० कार्तिकेयन (आई० सी०-14105) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मचारी जी० एम० आर (आई० सी०-14106) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मचारी एम० बी० जोशी (आई० सी०-14142) इन्जी-  
नियर्स--25-9-90।

कर्मचारी एम० पी० मन्महोत्रा (आई० सी०-14155) आर्टी  
--25-9-90।

कर्मचारी एम० एम० गिण (आई० सी०-14160) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मचारी सी० के० मैत्रा (आई० सी०-14172) थि० से०  
ने० आर्टी 25-9-90

कर्मचारी बी० रमनन (आई० सी०-14228) इन्फैन्ट्री--  
25-9-90।

कर्मचारी आर० पी० सिंह (आई० सी०-14287) कौन्सिलर,  
इन्फैन्ट्री--25-9-90

कर्मचारी जी० एम० श्रीवास्तव (आई० सी०-14288)  
आर्टी--25-9-90।

कर्मचारी बी० एम० मन्धू (आई० सी०-12481) आर्मड्ड  
कोर--25-9-90।

कर्मचारी एम० एम० रंधावा (आई० सी०-12905)  
आर्टी--25-9-90

### थल सेना विभाग

नं० 738, दिनांक 15-7-92--राष्ट्रपति निम्न-  
लिखित पथोन्नतियां करते हैं--

#### नियमित सेना

#### सेना आनुसूचकों

पदों सूचेदार लिपिक ए० ओ० सी० के बैंक में

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण सुरेन्द्र कुमार सिंह  
(जे० सी०-176575 एफ०)--01 मार्च, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण (काशी नाथ बह्मरा  
(जे० सी०-180510 एफ०)--01 मई, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण भंवर सिंह (जे०  
सी०-187701 वाई०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य हवलदार सिंह  
यर्मा (जे० सी०-187009 एफ०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य (राम लखन  
मिश्रा (जे० सी०-187032 एल०)--01 अक्टूबर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण हरिण सिंह ब्रिटेन  
(जे० सी०-187056 वाई०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राम चरण दुवे  
(जे० सी०-187057 एफ०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण हर महिन्द्र सिंह  
(जे० सी०-187094 एल०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण वन ध्याम सिंह  
चाहान (जे० सी०-187014 एन०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण महिन्द्र लाल  
उच्छास्ती (जे० सी०-186990 एच०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण जोग राज  
सिंह (जे० सी०-187221 वाई०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण दर्शन लाल सहोता  
(जे० सी०-187224 एच०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण देवीन्द्र सिंह चौमा  
(जे० सी०-186923 एफ०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन भगत सिंह  
मिनमिनवार (जे० सी०-186991 पी०)--01 नवम्बर,  
1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन हरचरण सिंह  
(जे० सी०-186992 एम०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन नीलकण्ठ बरआह  
(जे० सी०-187074 वाई०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूचेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन अनातागरी  
नरेशवाह एन० (जे० सी०-187182 वाई०)--01 नवम्बर,  
1991।

के० पी० धामन,  
सहायक सेना सचिव

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन बाबू लाल (जे० सी०-187242 एल०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन धर्म पास सिंह वर्मा (जे० सी०-187243 एल०)--01 नवम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन रामायण प्रसाद (जे० सी०-187139 ए०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन लक्ष्मी दाम (जे० सी०-187244 डब्ल्यू०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण जोनिन्दर सिंह (जे० सी०-186944 एक्स०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य वर्गव्य शिव चन्द्र प्रसाद सिंह (जे० सी०-186602 के०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन सैलेश दाम (जे० सी०-187038 एम०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन गोपाल प्रसाद मिन्हा (जे० सी०-187225 एल०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन कृष्णन केशविल वेलापिल (जे० सी०-187039 एल०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन मठवारा दशरथ भाई (जे० सी०-186993ए०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन राम चन्द्र कृष्णन श्री० (जे० सी०-187154 पी०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन (दिनाद चन्द्र कानिता (जे० सी०-186968 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पत्रके सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० सितवल परमहंस सिंह (जे० सी०-192152 एल०)--01 मई, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० उमेद सिंह (जे० सी०-187763 वाई०)--01 मई, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० निगमल हरी चन्द (जे० सी०-186996 एल०)--01 जून, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० लखाटे भीम राज (जे० सी०-187022 एफ०)--01 जून, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० इंजीनियर हरेन्द्र नाथ सैफिया (जे० सी०-187780 वाई०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० श्रीधर सिंह राठौर (जे० सी०-187783 एल०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० गुरराम सिंह (जे० सी०-187251 एम०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० वकील यादव (जे० सी०-18065 डब्ल्यू०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० शेष नाथ प्रवाल (जे० सी०-187080 एल०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० इंजीनियर राम सुन्दर (जे० सी०-187161 एम०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० इंजीनियर रविन्द्र पाल सिंह रावत (जे० सी०-187273 एल०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एन० टी० वारीता राम गोग (जे० सी०-192153 डब्ल्यू०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० वैपन माम्यल के० जी० (जे० सी०-187089 ए०)--01 सितम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० वैपन पूर्ण चन्द्र महान्ती (जे० सी०-187234 एम०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० एण्ड सी० राम धिराज राम (जे० सी०-187090 पी०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० वैपन रुकम केश यादव (जे० सी०-187091 एक्स०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार के० टी० वैपन जवाहर सिंह मन्नु सिंह (जे० सी०-187275 डब्ल्यू०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० अक्षय बटगिरी (जे० सी०-187201 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० यूदवीर सिंह गुप्ता (जे० सी०-187003 डब्ल्यू०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० श्याम प्रसाद वन्देपात्राय (जे० सी०-187276 एक्स०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० रोशन लाल (जे० सी०-187169 एक्स०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० जमबीर सिंह (जे० सी०-187223 ए०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० प्रभाकर बांडरे (जे० सी०-187143 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० सुन्दर सुभा राव (जे० सी०-187202 के०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० वैपन प्रफुल्ला कुमार साहू (जे० सी०-187048 डब्ल्यू०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० विश्व नाथ आर्य (जे० सी०-187109 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० अम्बुनिधान कुसा कनियापन (जे० सी०-187203 एल०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० एम० टी० मन्डवान् पंकीराम (जे० सी०-187204 पी०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी अब्दुल सुभान  
(जे० सी०-187205 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी एन० टी० श्री कृष्णा यादव  
(जे० सी०-187206 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी जी० एम एण्ड सी० मुसुम  
बकुल मिश्रा (जे० सी०-187110 एफ०)--01 दिसम्बर,  
1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी अम्युनिशन मरजू राम वर्मा  
(जे० सी०-187278 के०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी अम्युनिशन गायकबाह बाबू (जे०  
सी०-187207 एच०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी एम० टी चार्ल्स भाग्योती भरना  
(जे० सी०-187279 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० अब्दुल्ला  
कुरी (जे० सी०-187280 एफ०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० सतबीर  
सिंह राणा (जे० सी०-187208 एल०)--01 दिसम्बर,  
1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्युनिशन अमरजीत सिंह  
(जे० सी०-187210 एच०)--01 दिसम्बर, 1991।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० अम्युनिशन हेम चन्द्र राणा  
(जे० सी०-186934 एन०)--01 दिसम्बर 1991।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी अम्युनिशन लडू किशोर  
महापात्रा (जे० सी० 177211 एल०)--01 जनवरी,  
1992।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एण्ड सी० सौंदर  
चतियार संकरबेल (जे० सी०-187281 के०)--01 जनवरी  
1992।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी जी० एम० एण्ड सी० बृजेश  
कुमार सिंह (जे० सी०-186953 एफ०)--01 जनवरी,  
1992।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी जी० एस० एण्ड सी०  
राजाप्पन अम्बारीका (जे० सी०-187212 एन०)--01  
जनवरी, 1992।

पे/ए सूबेदार एन० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० राज  
किशोर निवारी (जे० सी०-187213 डब्ल्यू०)--01  
जनवरी, 1992।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी अम्युनिशन लाल्लन राम  
(जे० सी०-189735 एल०)--01 जनवरी, 1992।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिगनल भगत सिंह चन्दला  
(जे० सी०-189736 एन०)--01 जनवरी, 1992।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी पूर्ण  
चन्द (जे० सी०-186608 एल०)--01 जनवरी, 1992।

एम० के० रे,  
अवर सचिव

-----

सेना शाखा

सं० 739, दिनांक 20-7-92-राष्ट्रपति निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करने हैं :-

निश्चित भेना

आमूचना फोर

(नायब सूबेदार के पद में)

हवलदार कर्ग सिंह (सं० 3975934 एक्स अब जे० सी०-  
219622 डब्ल्यू०)--18 अप्रैल 1992

(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 जनवरी 92 से दी जाती है)

खलभर लाल सिंह (सं० 3976447 के अब जे० सी०-  
219823 वाई०)--21 अप्रैल 1992

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 जनवरी 92 से दी जाती है )

हवलदार खेम राज बिष्टा (सं० 5844126 डब्ल्यू अब  
जे० सी०-219824 एफ०)--13 अप्रैल 1992

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 फरवरी 92 से दी जाती है )  
(नायब सूबेदार (लिपिक) के पद में)

हवलदार (लिपिक) शक्ति चन्द खनोरिया (सं० 14522378  
एल अब जे० सी० 219825 के)--13 अप्रैल 1992

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 फरवरी 92 से दी जाती है )।

हवलदार (लिपिक) मनोहर लाल (सं० 4055492 एच  
अब जे० सी० 219826)--22 फरवरी 1992

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 फरवरी 92 से दी जाती है )

हवलदार (लिपिक) ए० नटेशन (सं० 14524713 एच  
अब जे० सी०-219827 पी०)--09 अप्रैल 92

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 मार्च 92 से दी जाती है )

हवलदार (लिपिक) महावीर सिंह चौहान (सं० 1430774  
के अब जे० सी०-219828 एक्स)--24 अप्रैल 92

(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना वरिष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 92 से दी जाती है )।

हवलदार (लिपिक) पीताम्बर दत्त बर्बवाल (सं० 4052987  
के अब जे० सी०-219829 ए)--24 अप्रैल 92।



(नायब सूबेदार के पद में बिना वेतन और बर्से पत्र प्रभाव वाले परिष्कारात्मिक 01 अगस्त 92 में दी जाती है।

हवेलदार (लिपिक) मोहन लाल जी० (सं० 14312293-एकम अब जे० सी०-219830 पी०)---01 मई 1992

सूबेदार के पद पर

नायब सूबेदार दुर्गा सिंह नेगी (सं० जे० सी०-176806 एच०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (सं० जे० सी०-176807-एल०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार तेज सिंह रावत (सं० जे० सी०-176808 एम०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार सेम्बरा सिंह (सं० जे० सी०-176909 डब्ल्यू०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार शाम चन्द राजवार (सं० जे० सी०-176810 एल०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार श्रीश चन्द्र सिंह रावत (सं० जे० सी०-176811 एल०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार मोहन सिंह राणा (सं० जे० सी०-176812-डब्ल्यू०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (सं० जे० सी०-176813-वाई०)---01 मई 1992

सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार (लिपिक) धनवारी शर्मा लाल (सं० जे० सी०-176868 एच०)---01 मई 1992

नायब सूबेदार (लिपिक) अजीत कुमार दुबे (सं० जे० सी०-176869 एल०)---01 मई 1992

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार जगदीश चन्द (सं० जे० सी०-115986 ए०)---01 मई 1992

सूबेदार पूरन सिंह कैरा (सं० जे० सी०-118947 एम०)---01 मई 1992

प्रेम कुमार हंस,  
डेप्युटी अधिकारी

(धन सेना विभाग)

सं० 740, दिनांक 10-7-92-राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करने हैं :-

निधमित सेना

तोता रामा रेजिमेंट

मजिस्ट्रेट सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार तोता राम (सं० जे० सी०-174130 एम०)---01 सितम्बर 1991

नायब सूबेदार जे० गोपालन (सं० जे० सी०-158843-एल०)---01 नवम्बर 1991

नायब सूबेदार पूरन चन्द्र (सं० जे० सी०-179638 ए०)---01 जनवरी 1992

नायब सूबेदार तेज बहादुर छेत्री (सं० जे० सी०-76999-एल०)---01 जनवरी 1992

नायब सूबेदार हमन कुट्टी रीथरमैनुअल आबदीन (सं० जे० सी०-146242-डब्ल्यू०)---01 जनवरी 1992

नायब सूबेदार फूल सिंह (सं० जे० सी०-176213 डब्ल्यू०) 01 फरवरी 1992

नायब सूबेदार निकल सिंह (सं० जे० सी०-152664-एकम)---01 फरवरी 1992

नायब सूबेदार पी० हरी दाम (सं० जे० सी०-158532-ए०)---01 फरवरी 1992

नायब सूबेदार नरेश कुमार शर्मा (सं० जे० सी०-163007 एल०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार अलगरसामी पांडियन (सं० जे० सी०-170956 एच०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार बंसी लाल (सं० जे० सी०-172126 एल०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार मुरजीत सिंह (सं० जे० सी०-173315-एफ०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार एम० सेधुरामन (सं० जे० सी०-179206-एल०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार चीरथ वेनुगोपालन (सं० जे० सी०-187621 एफ०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार राम प्यारे (सं० जे० सी०-177009 के०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार लच्छुमन गुरंग (सं० जे० सी०-181036-एल०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार मुरजीत सिंह (सं० जे० सी०-157980-ए०)---01 मार्च 1992

नायब सूबेदार वी० वेदी (जे० सी०-152703 एल०)---1 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार शामशेर सिंह (जे० सी०-158006 एफ०)---1 मार्च, 1992।

नाथब सूबेदार मभा चंद (जे० सी०-154762 डब्ल्यू)---  
1 मार्च, 1992 ।

नाथब सूबेदार तानाजी इंगले (जे० सी०-155896 एफ)---1 मार्च, 1992 ।

नाथब सूबेदार राज कुमार गुक्ला (जे० सी०-164706 एल)---1 मार्च, 1992 ।

नाथब सूबेदार कश्मीरी लाल (जे० सी०-169758 एल)---1 मार्च, 1992 ।

नाथब सूबेदार पुष्पोत्तम लाल शर्मा (जे० सी०-171084 एक्स)---1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार के० बी० राधाकृष्णन (जे० सी०-171227 एम)---1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार सरदुल सिंह (जे० सी०-174128 पी)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार मुरारी लाल शर्मा (जे० सी०-174206 एफ)---1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-178895 एल)---1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार साजवार सिंह (जे० सी०-181044 के)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार मेहर सिंह (जे० सी०-184545 पी)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार रतन सिंह (जे० सी०-190751 पी)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार कोडोलकर भास्ति ममु (जे० सी०-187636 के)---1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार मांगेराम (जे० सी०-162996 पी)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार चित्र बहादुर गुरंग (जे० सी०-160324 के)---1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार टेक बहादुर थापा (जे० सी०-168424 के)---1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-174124 वाई)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार ब्रिज लाल (जे० सी०-175281 एक्स)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार मान सिंह (जे० सी०-179209 वाई)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

नाथब सूबेदार विष्णु बहादुर थापा (जे० सी०-181037 एल)---1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार रामासामी परमभिवम (जे० सी०-190746 के)---1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार चिंता जगनमोहन राय (जे० सी०-172102 एफ)---1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार लक्ष्मन सिंह (जे० सी०-163851 डब्ल्यू)---  
1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार कोडार्ड (जे० सी०-197876 पी)---  
1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार एम० लक्ष्मना गौडा (जे० सी०-197495 एल)---1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार तरसम लाल (जे० सी०-197439 पी)---  
1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार सीता राम थादव (जे० सी०-137712 पी)---1 मई, 1992 ।

नाथब सूबेदार अजीत कुमार दाम (जे० सी०-157996 एल)---1 जून, 1992 ।

नाथब सूबेदार रघुनाथ पाल (जे० सी०-171105 एल)---1 जून, 1992 ।

नाथब सूबेदार रंजित सिंह (जे० सी०-156281 एल)---  
1 जुलाई, 1991 ।

नाथब सूबेदार जगदीश प्रसाद (जे० सी०-169769 एक्स)---1 अगस्त, 1991 ।

नाथब सूबेदार भरपूर सिंह (जे० सी०-175556 ए)---  
1 अगस्त, 1991 ।

नाथब सूबेदार शीलक राम (जे० सी०-178827 एक्स)---  
1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार शिव नाथक सिंह (जे० सी०-179634 के)---1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार खेम चंद शर्मा (जे० सी०-182096 एम)---1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार एम० मुल्गेसन (जे० सी०-182103 एक्स)---1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार एम० एम० डी० गालिब (जे० सी०-182102 पी)---1 सितम्बर 1991 ।

नाथब सूबेदार जनैल सिंह (जे० सी०-181047 एक्स)---  
1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार कप्तान सिंह (जे० सी०-178914 एल)---1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार धरमनाथ सिंह (जे० सी०-182039 एल)---1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार राय सिंह (जे० सी०-182118 ए)---  
1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार धन्ना लाल थादव (जे० सी०-184622 वाई)---1 सितम्बर, 1991 ।

नाथब सूबेदार किशन चंद (जे० सी०-184548 एल)---  
1 सितम्बर, 1991 ।

- नायब सूबेदार कौलाश सिंह (जे० सी०-186471 के)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे० सी०-190732 के)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार मोहर सिंह (जे० सी०-186501 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार जोय ए० वी० (जे० सी०-187565 एन)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार ओमपाल (जे० सी०-193100 के)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार लारा चंद (जे० सी०-186430 ए)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार केशव नाथ (जे० सी०-193108 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार रतन सिंह (जे० सी०-193594 वाई)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार उन्नीकुण्ठन नायर (जे० सी०-186709 वाई)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार धरम पाल (जे० सी०-165622 के)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार तेजराम (जे० सी०-181029 पी)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार परणोत्तम चंद (जे० सी०-172106 एक)---1 सितम्बर 1991 ।
- नायब सूबेदार ज्ञान सिंह (जे० सी०-176439 एफ)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-145884 वाई)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार मोहन लाल (जे० सी०-138348 एन)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार राम प्रसाद (जे० सी०-138388 पी)---1 सितम्बर 1991 ।
- नायब सूबेदार बन्नी प्रसाद (जे० सी०-140456 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार बलविंदर सिंह (जे० सी०-146264 पी)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार प्लाविनापूथेनवीडु ओम्मन वैदियन कोशी वैदियन (जे० सी०-146239 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जे० सी०-146744 वाई)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार राजेन्द्रा सिंह (जे० सी०-144718 वाई)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार घनी राम (जे० सी०-151060 एम)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी०-151061 पी)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार गुरभेज सिंह (जे० सी०-148661 एम)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार देस राज (जे० सी०-153674 एन)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार रमेश धाल शर्मा (जे० सी०-158031 ए)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार अरुणाचलम मेक्की (जे० सी०-155883 के)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार पृथ्वी राज (जे० सी०-157502 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार सतपाल (जे० सी०-158035 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार अनूप सिंह (जे० सी०-164888 के)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार बलदेव वृषान (जे० सी०-165596 एन)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार श्रवन कुमार (जे० सी०-166989 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार मंभा राम (जे० सी०-167661 एफ)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार अशोक कुमार (जे० सी०-168428 ए)---1 सितम्बर, 1991 ।
- नायब सूबेदार राम नाथ (जे० सी०-167668 एल)---01 अक्टूबर, 1991 ।
- नायब सूबेदार प्रेस्टन विल्सन (जे० सी०-169990 डब्ल्यू)---1 अक्टूबर, 1991 ।
- नायब सूबेदार याद राम (जे० सी०-166978 के)---1 अक्टूबर, 1991 ।
- नायब सूबेदार जगतार सिंह बुधन (जे० सी०-167674 वाई)---1 अक्टूबर, 1991 ।
- नायब सूबेदार सुच्चा सिंह (जे० सी०-169745 एन)---1 अक्टूबर, 1991 ।
- नायब सूबेदार परन राम (जे० सी०-168441 के)---1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार कल्लूनायहल्ली वेंकना रामैया धरधा  
कुण्णा (जे० सी०-182122 एच)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार बृजपाल सिंह राघवा (जे० सी०-169670  
एफ)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार ए० सुब्रमनियम (जे० सी०-169893  
वाई)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार बिमाथी राम (जे० सी०-169942  
डब्ल्यू)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार धरधर सिंह (जे० सी०-171110 एन)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरबकम सिंह (जे० सी०-169929 एम)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार राम निहाल (जे० सी०-176238 एच)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार कैशव राम (जे० सी०-175554 पी)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार राम सिंह भुई (जे० सी०-171447  
डब्ल्यू)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-179624 ए)  
--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जे० सी०-175560 एच)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार परस नाथ सिंह (जे० सी०-173321  
पी)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार सुरेश राय (जे० सी०-176589 एक्स)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार हिरा सिंह (जे० सी०-172148 के)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरबयाल सिंह (जे० सी०-175567 एम)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार धरम चंद (जे० सी०-176246 एफ)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार लछमन सिंह राघव (जे० सी०-173328  
वाई)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जे० सी०-175570 एम)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार अनवीर सिंह (जे० सी०-179625 एच)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार बोध राज (जे० सी०-176264 के)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार साहिब सिंह (जे० सी०-176462 पी)--  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार भासीधरन बी० (जे० सी०-177841  
एक्स)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार बनविंदर सिंह (जे० सी०-179627  
एन)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार दशरथ मिश्र वर्मा (जे० सी०-184008  
के)--1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार बक्षिश सिंह (14318331 वाई अरब जे० सी०  
219850 एच)--09 फरवरी 1991 ।

हवलदार जगदीश प्रसाद (14330476 डब्ल्यू अरब जे०  
सी०-219851 एल)--09 फरवरी 1991 ।

हवलदार बिशन सिंह मानहास (14327323 एफ अरब  
जे० सी० 219852 एन)--6 मार्च 1991\* ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 1991) ।

हवलदार नागा राम (11144478 ए अरब जे० सी०-  
219853 डब्ल्यू)--05 मार्च 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 1991) ।

हवलदार लक्ष्मी नारायण (14323634 एक्स अरब जे०  
सी०-219854 वाई)--04 मार्च 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 1991) ।

हवलदार स्वर्ण सिंह (14308854 के अरब जे० सी०-  
219855 एच)--01 मार्च 1991 ।

हवलदार प्रेम चन्द (1256732 एल अरब जे० सी०-  
219856 के)--01 मार्च 1991 ।

हवलदार खोस महादेव राव गहिव (1266652 वाई अरब  
जे० सी०-219857 एम)--01 अक्टूबर 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च 1991) ।

हवलदार रमेश चन्द (14333891 एल अरब जे० सी०-  
217858 पी)--06 मार्च 1991 ।

हवलदार राम प्रसाद (1266718 के अरब जे० सी०-  
219859 एक्स)--06 मार्च 1991 ।

हवलदार धरम देव (14325695 एल अरब जे० सी०-  
219860 एम)--14 मार्च 1991 ।

हवलदार दर्शन सिंह (1253718 एल अरब जे० सी०-  
219861 पी)--15 मार्च 1991 ।

हवलदार रत्नापदी रतना कुमार (1259886 ए)--अरब  
जे० सी०-219862 एक्स)--09 अप्रैल 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 21 मार्च 1991) ।

बी० एच० एम० सीर सिंह (1265859 एम अब जे० सी० 219863 ए)---21 मार्च 1991।

हवलदार दत्त पाटील (1267344 एल अब जे० सी० 219864 एच)---21 मार्च 1991।

हवलदार राम निवास (1265725 एन अब जे० सी० 219865 एल)---24 मार्च 1991।

हवलदार एम० हरी नारायण रेड्डी (14453556 पी अब जे० सी० 219866 एन)---07 जून 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991)।

हवलदार मेहाल सिंह (1243763 के अब जे० सी० 219867 डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1991।

बी० एच० एम० राजिन्दर सिंह (1292840 एक्स अब जे० सी० 219868 बाई)---15 अप्रैल 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991)।

हवलदार खयाली राम यादव (14323907 एल अब जे० सी० 219869 एफ)---04 अप्रैल 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991)।

हवलदार तेज सिंह शम्बावत (1266215 बाई अब जे० सी० 219870 डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1991।

हवलदार ज्ञान चन्द्र (14313878 एक्स अब जे० सी० 219871 बाई)---01 अप्रैल 1991।

हवलदार राजिन्दर सिंह (14453283 एक्स अब जे० सी० 219872 एफ)---01 अप्रैल 1991।

हवलदार रूप सिंह (14335484 बाई अब जे० सी० 219873 के)---01 अप्रैल 1991।

हवलदार फरतार सिंह (14321597 डब्ल्यू अब जे० सी० 219874 एम)---01 अप्रैल 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 अप्रैल 1991)।

हवलदार विजय सीता राम राउल (14322637 बाई अब जे० सी० 219875 पी)---10 अप्रैल 1991।

हवलदार गोपालन नैलिअडका (1256527 एफ अब जे० सी० 219876 एक्स)---01 मई 1991।

बी० एच० एम० राम कुवर सिंह एम० (13809176 एम अब जे० सी० 219877 ए)---01 मई 1991।

आर० एच० एम० नर सिंह लिपाडी (1248945 एफ अब जे० सी० 219878 एच)---01 मई 1991।

हवलदार तरसेम सिंह (1288758 डब्ल्यू अब जे० सी० 219879 एल)---01 मई 1991।

आर० एच० एम० सुरजीत सिंह (1245124 एफ अब जे० सी० 219880 ए)---01 जून 1991।

बी० एच० एम० हरभजन सिंह (14313786 एल अब जे० सी० 219881 एच)---01 जून 1991।

बी० एच० एम० ओम प्रकाश (13856368 डब्ल्यू अब जे० सी० 219882 एल)---09 जून 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1991)।

हवलदार ओंकार सिंह (1294719 एच अब जे० सी० 219883 एन)---01 जून 1991।

हवलदार शिम्बु दयाल (1266831 बाई अब जे० सी० 219884 डब्ल्यू)---01 जून 1991।

बी० एच० एम० अश्राहम टी० ए० (1265782 पी अब जे० सी० 219885 बाई)---01 जुलाई 1991।

बी० एच० एम० रामाचन्द्रन के० (14301640 एल अब जे० सी० 219886 एफ)---01 जुलाई 1991।

बी० एच० एम० मुद्गन सी० (14327266 एल अब जे० सी० 219887 के)---05 जुलाई 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991)।

हवलदार ब्राबू सिंह (1252599 एन अब जे० सी० 219888 एम)---01 अगस्त 1991।

बी० एच० एम० ननाय्या सी० जे० (1266308 एन अब जे० सी० 219889 पी)---01 सितम्बर, 1991।

बी० एच० एम० शमशेर सिंह (1248682 एन अब जे० सी० 219890 के)---05 अगस्त, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991)।

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (जी० डी०) के पद में सूबेदार बनवारी लाल (जे० सी० 120181 एम)---01 मार्च, 1992।

सूबेदार देव राज (जे० सी० 122864 बाई)---01 मई, 1992।

सूबेदार श्री राम (जे० सी० 121336 एच)---01 मई, 1992।

सूबेदार पोन्नईया बेलनुरुयन (जे० सी० 107670 बाई)---01 मई, 1992।

सब्सटेंटिव सूबेदार मेजर (ए०आई०जी०) के पद में सूबेदार लटोरी प्रसाद यादव (जे० सी० 87736 ए)---01 मई, 1992।

सूबेदार साहब प्रसाद यादव (जे० सी० 89035 बाई)---10 मई, 1992।

- सब्सटेंटिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में
- नायब सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-182129 एम)---  
01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार रामवीर सिंह (जे० सी०-186417  
डब्ल्यू)---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार कैलाश प्रसाद (जे० सी०-180469  
डब्ल्यू)---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार नसीब सिंह (जे० सी०-176508 एम)  
---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार चन्द्र पाल (जे० सी०-180406 एन)---  
01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार केसवन पी० (जे० सी०-176610 पी)  
---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार हरमेश पाल (जे० सी०-180596 एल)  
---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार मंजीत सिंह (जे० सी०-180481 एक्स)  
---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार शराना गौडा (जे० सी०-182051 एम)  
---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार सवित्रा प्रसाद (जे० सी०-182052  
पी)---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार नरिंदर कुमार (जे० सी०-184592  
एम)---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार भदाने चुडामन राजाराम (जे० सी०-  
180417 ए)---01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार मेजर सिंह (जे० सी०-184557 के)---  
01 अक्टूबर, 1991।
- नायब सूबेदार भूप सिंह यादव (जे० सी०-180447  
एक्स)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार रघुनन्दन सिंह (जे० सी०-184620  
एन)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार रघवीर सिंह शेखावत (जे० सी०-186513  
एल)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार सोमान सिंह छेत्री (जे० सी०-186707  
एन)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार बबन भोसले (जे० सी०-190734 पी)  
---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी०-190625  
एच)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार एजाज अली (जे० सी०-186478  
एच)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-186724  
एन)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार फतेह सिंह परिहार (जे० सी०-193122  
एच)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार गुरमोज सिंह (जे० सी०-197574 एच)  
---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार टी० के० बालाजी (जे० सी०-193605  
ए)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार करनजीत सिंह (जे० सी०-195101---  
एल)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार मोहम्मद काय्या सी० टी० (जे० सी०-  
198754 एक्स)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार अभय सिंह (जे० सी०-200173 एफ)  
---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार राम रतन सिंह (जे० सी०-176592  
एक्स)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार भूरी सिंह (जे० सी०-146296 एक्स)---  
01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार सदन सिंह (जे० सी०-178930 एच)---  
01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार ओम प्रकाश (जे० सी०-153411 पी)---  
01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार नरजन सिंह (जे० सी०-180411 वार्ड)  
---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार उजागर सिंह (जे० सी०-148138  
एफ)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार धांवर सिंह (जे० सी०-174179 एच)  
---01 नवम्बर 1991।
- नायब सूबेदार राजवीर सिंह (जे० सी०-200414  
डब्ल्यू)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार करन सिंह (जे० सी०-200455 ए)---  
01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार रामाचन्द्रन के० (जे० सी०-203559  
एम)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार मुरलीधरन ए० पी० (जे० सी०-198732  
वार्ड)---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-158540 वार्ड)  
---01 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार सुन्दर राधगुडा (जे० सी०-167561  
डब्ल्यू)---01 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार महा नंर (जे० सी०-190720 पी)  
---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कात्रेया कल्याणी सुन्दरम (जे० सी०-  
190649 एम)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार केवल सिंह (जे० सी०-200227 एकम)  
---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार शंभर सिंह (जे० सी०-150382 ए)  
---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार चन्त सिंह (जे० सी०-148615 एकम)  
---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार धर्म सिंह (जे० सी०-151032 ए)---  
1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार ब्रह्मेश्वर (जे० सी०-148624 बाई)  
---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कुमार प्रधान (जे० सी०-150300 एम)  
---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार आशा सिंह (जे० सी०-151009 एम)  
---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरधयाल सिंह (जे० सी०-149894  
ए)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार के० पी० नैमिष्यन (जे० सी०-150429  
ए)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार निक्का राम (जे० सी०-157488 पी)  
---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरधयाल सिंह रोमाना (जे० सी०-  
150432 ए)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरधेव सिंह (जे० सी०-157986 एक)  
---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार चैत सिंह (जे० सी०-155879 एक)---  
1 दिसम्बर, 1991 ।

महसुदेंदिव सूबेदार (ए० आई० जी०) के पद में

नायब सूबेदार जसवंत सिंह (जे० सी०-186759 के)---  
1 अक्तूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार गुरवचन सिंह (जे० सी०-178835  
डब्ल्यू)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार कृपाल सिंह (जे० सी०-178917  
बाई)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार जसनेर सिंह (जे० सी०-186527 एक)  
---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार शीषा राम खोषा (जे० सी०-178836  
बाई)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार सुबेवल सिंह भाग (जे० सी०-178833  
एन)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार नारायणन नाथर के० एम० (जे० सी०-  
200367 के)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार उरमान एम० (जे० सी०-200369  
पी)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार संतोख सिंह (जे० सी०-178832 एक०)  
---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार मोहित्थर सिंह (जे० सी०-178916  
डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार रतन सिंह थाकव (जे० सी०-186532  
डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार रंजित सिंह भुल्लर (जे० सी०-184887  
एच०)---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार रमवीर सिंह (जे० सी०-182078 के)  
---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार सुभ राम (जे० सी०-202330 एक)  
---1 अप्रैल, 1992 ।

महसुदेंदिव सूबेदार (टि० आई० एक० सी०) के पद में

नायब सूबेदार राम बोहोर राम (जे० सी०-164898  
एन)---1 मार्च, 1993 ।

नायब सूबेदार हरीशगौरी गोस्वामी (जे० सी०-  
164900 ए)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार वेन्नमपल्ली मुनु स्वामी सुब्बैया (जे० सी०-  
165716 एक)---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार दथालु राम शर्मा (जे० सी०-164899  
डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार भाग सिंह (जे० सी०-164901 एक)  
---1 अप्रैल, 1992 ।

महसुदेंदिव सूबेदार (एफ० जी० ए०) के पद में

नायब सूबेदार अन्नाल बहादुर नेवार (जे० सी०-  
177693 एकम)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार तरसेम लाल (जे० सी०-182083 पी)  
---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार सुवे सिंह (जे० सी०-177694 ए)---  
1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार जोगा सिंह (जे० सी०-178852 डब्ल्यू)  
---1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार रतन चंद (जे० सी०-178853 बाई)  
---1 अप्रैल, 1992 ।

सबरटैटिथ सूबेदार (ओ० पी० एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार विष्णुदास मिह (जे० सी०-177695 एच)---1 दिसम्बर, 1991 ।

कोर आफ मिग्गल्स

स्थाई सूबेदार (एफ० आफ० एम०) के रैंक में

नायब सूबेदार जीवन मिह (जे० सी०-133154 एफ)---1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार हरी कृष्ण (जे० सी०-149712 एफ) 1 जून, 1992 ।

नायब सूबेदार रामजी तिवारी (जे० सी०-149716 एफ)---1 जून, 1992 ।

स्थाई सूबेदार (ओ० पी० माईफर) के रैंक में

नायब सूबेदार परमानाथन ऐन.पोन्द (जे० सी०-172237 एच)---1 जनवरी, 1992 ।

स्थाई सूबेदार (कलर्क जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार शुभान मिह गुड्डा (जे० सी०-182184 एच)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार राम बहादुर (जे० सी०-182185 एल)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कमलेश्वर तिवारी (जे० सी०-182194 एम)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार गंधर्व मिह (जे० सी०-186003 के)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार रामू माधयन (जे० सी०-188135 डब्ल्यू)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार राम नवल पाल (जे० सी०-188137 वाई)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार कृष्ण बुधारे लाल (जे० सी०-188138 के)---1 मई, 1992 ।

स्थाई सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार एस० बी० मिह (जे० सी०-168216 पी)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-168219 एच)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार केदार पाल (जे० सी०-172913 के)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार धूम मिह (जे० सी०-172915 एफ)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार हनु लाल शर्मा (जे० सी०-172916 ए)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार एन० पी० रामाचन्द्रन (जे० सी०-168224 एन)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार अनाथन वान (जे० सी०-168225 डब्ल्यू)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार विष्णु राय (जे० सी०-172917 एच)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार देवा नारायन रामन (जे० सी०-172918 एन)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार रंग लाल (जे० सी०-168226 वाई)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार कस्त लाल महतो (जे० सी०-168227 एफ)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार के० जी० आर० कृष्ण कुरुप (जे० सी०-173670 वाई)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार जाना राम (जे० सी०-172919 एन)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार परनाथ मिह विष्ट (जे० सी०-172920 एच)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार पी० एस० एन० रामेश धिलक (जे० सी०-172921 एल)---1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार बिनदेश्वर भगत (जे० सी०-168228 के)---1 मई, 1992 ।

इन्फैन्ट्री

गैरगुट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुमानु कुमार अधिकारी (जे० सी०-108948 एफ)---1 जनवरी, 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अजीत मिह (जे० सी०-156375 ए)---1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार बलवीर मिह (जे० सी०-164474 एफ)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार प्रभु लाल गुर्जर (जे० सी०-164475 ए)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार फौजा राम (जे० सी०-164476 एच)---1 जनवरी, 1992 ।

सूबेदार (गिथिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (गिथिक) राजेश प्रसाद मिह (जे० सी०-193651 पी)---1 जनवरी, 1992 ।



## पंजाब रेजिमेंट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जे० सी०-100189 एक्स)  
—1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार मुन्शी राम (जे० सी०-104178 एम)---  
1 अप्रैल, 1992।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-152791 एम)  
—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार गुरचरण सिंह (जे० सी०-143548  
एन)---1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार जसवंत सिंह राणा (जे० सी०-177918  
पी)---1 अप्रैल, 1992।

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक मुरजीत सिंह (जे० सी०-  
174940 पी)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक लाल सिंह (जे० सी०-174941  
एक्स)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक कोहर सिंह राणा (जे० सी०-  
174942 ए)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक ओंकार चन्द (जे० सी०-  
178474 एच)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक रत्न चन्द शर्मा (जे० सी०-  
178473 ए)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक जन्म सिंह (जे० सी०-177920  
एम)---1 फरवरी, 1992।

## मद्रास रेजिमेंट]

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार चंगलरायन (जे० सी०-92421 ए)---  
1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार मनुस्वामी (जे० सी०-105246 एक्स)---  
1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार संगम राममूर्ति (जे० सी०-87853 एल)---  
—1 अप्रैल, 1992।

सूबेदार चौडि नारायण रावू (जे० सी०-103355  
एल)---1 अप्रैल, 1992।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विश्वनाथन अनकाई (जे० सी०-  
144835 के)---1 जनवरी, 1991।

नायब सूबेदार प्रभाकरन तैकन्डियल (जे० सी०-  
151148 डब्ल्यू)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार पत्तिकरीसामि शरवणराज (जे० सी०-  
156859 ए)---1 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार नारायणन वि० के० (जे० सी०-156865  
एन)---1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार महामुत्तु कल्लिगम (जे० सी०-149378  
एल)---1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार बापन नायर इडुतुम परंबत (जे० सी०-  
152088 वाई)---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार बालकृष्णन सी० के० (जे० सी०-  
155020 एच)---1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार जनार्दन राजन पिल्लै (जे० सी०-  
152089 वाई)---1 मार्च, 1992।

## सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क ई० अब्दुल करीम (जे० सी०-  
172558 ए)---1 फरवरी, 1992।

## प्रिन्सिपल

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०-103573 के)---  
1 फरवरी, 1992।

सूबेदार तेज सिंह, सेना मेडल (जे० सी०-117491  
एम)---1 फरवरी, 1992।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार टेक राम (जे० सी०-155050 ए)---  
1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह (जे० सी०-157281 पी)---  
1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार नौरंग सिंह (जे० सी०-160878 एच)  
---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार साहल राम (जे० सी०-155065 एच)  
---1 मार्च, 1991।

नायब सूबेदार राम दयाल (जे० सी०-152820  
डब्ल्यू)---1 जून, 1991।

नायब सूबेदार जगपाल सिंह (जे० सी०-174997  
के)---1 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार अश्वे सिंह (जे० सी०-148360 एच)---  
1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार वेश राज (जे० सी०-128980 एक्स)  
---1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जे० सी०-180829 एफ)---1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार मन्त राम (जे० सी०-162106 के)---1 मार्च, 1992 ।

#### राजपूताना राइफल्स

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क मतपाल (जे० सी०-114353 ए)---1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार भगल सिंह (जे० सी०-110906 एन)---1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार अर्जुन सिंह (जे० सी०-99869 एम)---1 अप्रैल 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जे० सी०-168840 एन)---1 फरवरी 1992 ।

नायब सूबेदार क्या राम (जे० सी०-155989 इन्स्यू) 1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार सम्पत सिंह (जे० सी०-155655 एफ)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जे० सी०-158366 एक्स)---1 मार्च, 1992 ।

#### राजपूत रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार रतन सिंह (जे० सी०-128964 ए)---1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार झाबर सिंह (जे० सी०-168539 एक्स)---1 मार्च, 1991 ।

नायब सूबेदार राम किशन (जे० सी०-156391 एक्स)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जे० सी०-178551 एम)---1 फरवरी, 1992 ।

#### ग्रेट रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार धूप राम (जे० सी०-117302 एक्स)---1 जनवरी 1992 ।

सूबेदार पाहकर मल (जे० सी०-104239 पी)---1 फरवरी, 1992 ।

सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-122180 एच)---1 फरवरी, 1992 ।

सूबेदार मूल चन्द (जे० सी०-104230 ए)---1 फरवरी 1992 ।

सूबेदार बनबीर सिंह (जे० सी०-108589 एक्स)---1 मार्च 1992 ।

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क राम किशन सिंह (जे० सी०-135655 ए)---1 जनवरी, 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रणबीर सिंह हुडा (जे० सी०-177961 इन्स्यू)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार विद्याधर प्रोला (जे० सी०-177973 एल)---8 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार बिस्वू राम (जे० सी०-177975 इन्स्यू)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार श्री कृष्ण (जे० सी०-177976 वार्ड)---1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार भाना राम (जे० सी०-178263 ए)---1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार केशर राम (जे० सी०-183006 एम)---1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार श्रीम प्रकाश (जे० सी०-184335 पी)---1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार चन्द्र पाल सिंह (जे० सी०-185178 ए)---21 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जसराम (जे० सी०-188483 एक्स)---22 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार शिव लाल (जे० सी०-166060 के)---29 फरवरी 1992 ।

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-152097 ए)---1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार मतपाल (जे० सी०-158383 एक्स)---1 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार हवा सिंह (जे० सी०-159201 एल)---1 मार्च, 1992 ।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क देवी सिंह राणा (जे० सी०-184328 वार्ड)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क मारायण सिंह भंडारी (जे० सी०-186004 ए)---1 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क शिव पाल सिंह (जे० सी०—185005 एच)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क शिव प्रसाद पाल (जे० सी०—188669 एफ)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क राम सिंह कादयान (जे० सी०—188670 डब्ल्यू)—16 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क दिवान सिंह धर्मा (जे० सी०—192416 के)—21 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क शैलत राम (जे० सी०—192946 बाई)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क नवाब सिंह चौधरी (जे० सी०—193758 के)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क नवाब सिंह (जे० सी०—193754 एन)—1 मार्च, 1992 ।

#### मिख लाईट इन्फैन्ट्री

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चन्चल सिंह (जे० सी०—168897 एच)—1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जे० सी०—168898 एल)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार सम्पूर्ण सिंह (जे० सी०—156063 के)—1 मार्च 1992 ।

#### दि कुमाऊं रेजीमेन्ट

##### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चन्द्रिका सिंह यादव (जे० सी०—141858 ए)—8 अगस्त, 1990 ।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जे० सी०—141862 एच)—1 अक्टूबर, 1990 ।

नायब सूबेदार करोरी लाल (जे० सी०—144896 एफ)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार यादव राम (जे० सी०—167109 एफ)—1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार हनुमान सिंह (जे० सी०—167265 एल)—14 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार महेश्वर सिंह यादव (जे० सी०—169216 एफ)—1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार रूप चन्द (जे० सी०—171986 एम)—1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार श्रोम प्रकाश (जे० सी०—175998 बाई)—1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार दलीप सिंह (जे० सी०—176000 एच)—1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार राम सनेही (जे० सी०—176001 एल)—1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार कृष्ण (जे० सी०—176002 एन)—1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार रूप चन्द (जे० सी०—176003 डब्ल्यू)—1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०—184259 एन)—1 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार सीताराम (जे० सी०—180772 एन्स)—1 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार श्रोम प्रकाश (जे० सी०—180775 एल)—1 सितम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०—180777 डब्ल्यू)—1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार राम निषाम यादव (जे० सी०—183494 ए)—1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार हनुमान सिंह यादव (जे० सी०—185078 पी)—1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहन चन्द्र (जे० सी०—171990 पी)—1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जे० सी०—172598 एफ)—1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार राम फल (जे० सी०—185226 पी)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार खुशाल सिंह (जे० सी०—172782 एम)—1 दिसम्बर 1991

नायब सूबेदार विजय कुमार (जे० सी०—172783-पी)—1 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार चन्द्रा सिंह (जे० सी०—178624 एन)—1 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द्रा जोशी (जे० सी०—180798 एम)—1 अप्रैल 1992 ।

#### बिहार रेजिमेंट

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार जमबिरा देवगम (जे० सी०—102088 एच)—1 फरवरी 1992 ।

सूबेदार बंगाली सिंह (जे० सी०—96784 एफ)—1 मार्च 1992 ।

सूबेदार जनक प्रसाद (जे० सी०-103238 ए)—  
1 मार्च 1992 ।

सूबेदार कृष्णोपर इक्का (जे० सी०-103240 एक्स)—  
1 मार्च 1992 ।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सत्य नारायण प्रसाद (जे० सी०-160974-  
एक्स)—1 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार बंज नाथ सिंह (जे० सी०-166111-  
एम)—1 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार राम पबित्र पण्डित (जे० सी०-166112-  
पी) —1 जनवरी 1992 ।

#### सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) राम भीज सिंह (जे० सी०-  
179473 एम)—1 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) रणजीत यादव (जे० सी०-  
179027 एल)—1 फरवरी 1992 ।

#### जम्मू और कश्मीर लाईट इन्फैन्ट्री

#### नायब सूबेदार (सूबेदार) के रैंक में

नायब सूबेदार गुलाम रसूल लोन (जे० सी०-144606  
वाई)—1 जुलाई 1991 ।

नायब सूबेदार मिरजा सफ़कत अली जराल (जे० सी०-  
157935 एन)—1 अक्टूबर 1991 ।

#### 1 जी० आर०

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार म्याम नारायण पुन (जे० सी०-106048  
वाई)—1 अप्रैल 1992 ।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार लोक बहादुर थापा (जे० सी०-172039  
एक्स)—1 फरवरी 1992 ।

नायब सूबेदार प्रेम बहादुर (जे० सी०-175461 ए)—  
1 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार तारा प्रसाद (जे० सी०-164095  
एफ)—1 अप्रैल 1992 ।

#### 4 जी० आर०

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार किशन बहादुर गुरुंग (जे० सी०-94195  
एम)—1 जनवरी 1992 ।

सूबेदार ज्ञान दर्शन सिंह थापा (जे० सी०-95690  
एक्स)—1 मार्च 1992 ।

#### सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक बल राम शर्मा (जे० सी०-142860  
के)—1 जनवरी 1992 ।

#### सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार विनोद कुमार घाले (जे० सी०-161023  
एम)—1 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार विनोद कुमार गुरुंग (जे० सी०-177824  
एक्स)—1 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार देव बहादुर गुरुंग (जे० सी०-155853  
एम)—1 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार पदम सिंह रोंका (जे० सी०-161027  
एच)—1 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार भीम प्रसाद गुरुंग (जे० सी०-180911  
डब्ल्यू)—1 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार शंकर सिंह थापा (जे० सी०-181920  
के)—1 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह (जे० सी०-183546  
एल)—1 अप्रैल 1992 ।

#### सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक तिलक प्रसाद बुरा (जे० सी०-  
184498 एच)—1 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार लिपिक अशीष कुमार अचार्य (जे० सी०-  
185281 एल)—1 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार लिपिक माइकल भूटिया (जे० सी०-  
185282 एन)—1 अप्रैल 1992 ।

#### 9 जी० आर०

#### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार धन बहादुर छेत्री (जे० सी०-95331 के)—  
1 अक्टूबर 1991 ।

सूबेदार विदेन्द्र सिंह थापा (जे० सी०-105678 एम)—  
1 अक्टूबर 1991 ।

#### 8 जी० आर०

#### सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार लोक बहादुर गुरुंग (जे० सी०-  
164107 एल)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार पदम बहादुर गुरुंग (जे० सी०-173977  
के)—1 फरवरी, 1992 ।

#### सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह चौहान (जे० सी०-198702-  
एच)—1 मार्च, 1992 ।

## लदाख स्काउट्स

सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार (जी० डी०) लामचूंग छेरिंग (जे० सी०—159319 एम)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) नवंग रिगजिन (जे० सी०—164852 एम)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) ताशी फुन्चोक (जे० सी०—161015 एन)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) फुन्चोक ताशी (जे० सी०—161016 डब्ल्यू)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) छेरिंग दोरजे (जे० सी०—163951 एफ)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) छेरिंग मुटुप (जे० सी०—163956 ए)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) छेवांग नुरुबु (जे० सी०—163960 एच)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सोनम रिगजिन (जे० सी०—163953 एम)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) मतनजिन दोरजे (जे० सी०—163954 पी)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) सोनम अंगचुक (जे० सी०—163955 एक्स)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) ताशी फुन्चोक (जे० सी०—163957 एन)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) छेरिंग ताशी (जे० सी०—163959 एम)—1 अप्रैल, 1992 ।

## गारख ब्रिगेड

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क डेबीड सुबासे (सं० 13667195 ए अब जे० सी०—218127 पी)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार क्लर्क बिहारी लाल शर्मा (सं० 13669261 डब्ल्यू अब जे० सी०—218128 एक्स)—1 जून, 1991 ।

हवलदार क्लर्क ईश्वर प्रसाद टामटा (सं० 13669796 के अब जे० सी०—218129 ए)—22 जुलाई, 1991 ।\*

\* (नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1991 में दी जायेगी) ।

हवलदार क्लर्क रघवीर सिंह डूडा (सं० 6648259 डब्ल्यू अब जे० सी०—218130 पी)—1 जुलाई, 1991 ।

हवलदार क्लर्क राम धनी बर्नवाल (सं० 13666732 एन अब जे० सी०—218131 एक्स)—1 जुलाई, 1991 ।

०० (नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जुलाई, 1991 में दी जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क) चन्द्रन केटी (सं० 6648232 बाई अब जे० सी०—218132 ए)—16 जुलाई, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) जगत राम बग्गा (सं० 6648280 बाई अब जे० सी०—218133 एच)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार क्लर्क मुनेश्वर सिंह (सं० 6648296 के अब जे० सी०—218134 एल)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार क्लर्क शुभ राम (सं० 6648318 एक्स अब जे० सी०—218135 एन)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार क्लर्क हरमेल सिंह धालीवाल (सं० 6648330 बाई अब जे० सी०—218136 डब्ल्यू)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार क्लर्क भंवर सिंह (सं० 6648335 एक्स अब जे० सी०—218137 बाई)—1 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क तराटे बबन धोन्डीबा (सं० 6648341 एन अब जे० सी०—218138 एफ)—1 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क अनन्त प्रसाद शुक्ला (सं० 6648353 ए अब जे० सी०—218139 के)—1 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क हरेन्द्र सिंह चौहान (सं० 6648342 एन अब जे० सी०—218140 बाई)—1 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क क्रियाल सिंह (सं० 13664136 एच अब जे० सी०—218141 एफ)—1 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क सागरमल पुरोहित (सं० 6648365 एन अब जे० सी०—218142 के)—1 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क सुरता राम पुनिया (सं० 6648388 डब्ल्यू अब जे० सी०—218143 एम)—1 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क मिबरामा पिल्ले एस० (सं० 13670480 के अब जे० सी०—218144 पी)—1 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क अब्राहम फिलिप (सं० 13670577 पी अब जे० सी०—218145 एक्स)—1 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क सुबास प्रसाद सिंह (सं० 13670630 पी अब जे० सी०—218146 ए)—1 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार क्लर्क जगतार सिंह सन्धु (13670642 के अब जे० सी०-218147 एच)--7 नवम्बर, 1991।

०(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार (क्लर्क) वायु जार्ज (सं० 13668025 एच अब जे० सी०-218148 एल)--1 नवम्बर, 1991।

हवलदार (क्लर्क) लड्डू लाल चौधरी (सं० 13670665 एल अब जे० सी०-218149 एन)--1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार (क्लर्क) उदय कुमार मुखोपाध्याय (सं० 13669414 पी अब जे० सी०-218150 एच)--1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क गोपाला कुण्ठन (सं० 13670670 डब्ल्यू अब जे० सी०-218151 एल)--1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार (क्लर्क) बलवन्त सिंह नागरकोट्टी (सं० 8023104 एल अब जे० सी०-218152 एन)--1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार (क्लर्क) मुबीस चंद पान्डेय (सं० 5746219 पी अब जे० सी०-218153 डब्ल्यू)--1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार (क्लर्क) मोनीश्वरसु पी (सं० 10450800 ए अब जे० सी०-218284 वाई)--1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क राम अयोध्या प्रसाद (सं० 13670690 के० अब जे० सी०-218155 एफ०)--08 दिसम्बर 1991।\*\*

००(नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी।)

#### पैराशूट रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम० महेंद्र सिंह (सं० 13608454 ए अब जे० सी० 218156 के 01 जून 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1990 से दी जायेगी।)

हवलदार चह्वान शान्ताराम शंकर (सं० 13610269 एल अब जे० सी०-218157 एम)--1 फरवरी, 1991।

हवलदार के० वासु (सं० 13610631 एन अब जे० सी०-218158 पी)--27 जून, 1991।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार घोट्टे कान्तिनाथ श्रीपति (सं० 13610073 एक्स अब जे० सी०-218159 एक्स--10 मई, 1991।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार जय राम (सं० 13609723 एन अब जे० सी०-218160 एम)--1 जुलाई, 1991।

हवलदार अजायब सिंह (सं० 13611116 एन अब जे० सी०-218161 पी)--4 अगस्त, 1991।

हवलदार रूप चन्द (सं० 13609801 ए अब जे० सी०-218162 एक्स)--16 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक मज्जन सिंह (सं० 13607953 एच अब जे० सी०-218163 ए)--1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक विश्वनाथन नायर के० के० (सं० 13608371 पी अब जे० सी०-218164 एच)--1 दिसम्बर, 1991।

#### पंजाब रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सवर्ण सिंह झल (सं० 2464595 के अब जे० सी०-218165 एल)--26 अगस्त, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी, 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार गयान चन्द (सं० 2463440 डब्ल्यू अब जे० सी०-218166 एन)--27 मार्च, 1991।

हवलदार रघबीर सिंह (सं० 2462418 एल अब जे० सी०-218167 डब्ल्यू)--1 मई, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 9 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी।)

हवलदार सुरेश कुमार (सं० 2463911 एल अब जे० सी०-218168 वाई)--18 मई, 1991।

हवलदार शमशेर सिंह (सं० 2459954 एच अब जे० सी०-218169 एफ)--1 जुलाई, 1991।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 2459829 वाई अब जे० सी०-218170 डब्ल्यू)--1 अगस्त, 1991।

हवलदार दिवान सिंह (सं० 2465780 के अब जे० सी०-218171 वाई)--1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार शिगारा सिंह (सं० 2465961 पी अब जे० सी०-218172 एफ)--1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार श्याम लाल (नं० 2462323 एल अब जे० सी०-218173 के)---01 नवम्बर 1991।

हवलदार मखन सिंह (सं० 2466881 के अब जे० सी०-218174 एम)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लच्छू राम (सं० 2462800 एफ अब जे० सी०-218175 पी)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार जोगिन्दर सिंह (सं० 2464514 वाई अब जे० सी०-218176 एक्स)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार नन्धू राम (सं० 2464965 वाई अब जे० सी०-218177 ए०-6 दिसम्बर, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर बिना प्रभाव डाले ज्येष्ठता 13 नवम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार सुरिन्दर सिंह (सं० 2462461 एम अब जे० सी०-218178 एच)---27 नवम्बर, 1991।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 नवम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक गुरवेव सिंह (सं० 2461113 वाई अब जे० सी०-218179 एल)---1 अगस्त, 1991।

हवलदार लिपिक अमीन चन्द चौहान (सं० 2461294 पी अब जे० सी०-218180 ए)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक पर भात सिंह (सं० 2461601 एफ अब जे० सी०-218181 एच)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक अमर सिंह (सं० 2461605 एक्स अब जे० सी०-218182 एल)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक लखमीर सिंह लिद्धड (सं० 2461701 एम अब जे० सी०-218183 एन)---1 अक्टूबर, 1991।

हवलदार लिपिक मंगल राम पतियाल (सं० 2461744 एफ अब जे० सी०-218184 डब्ल्यू)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक केमरी दाम (सं० 2461769 एन अब जे० सी०-218185 वाई)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक प्रकाश चन्द सोहल (सं० 2461873 एफ अब जे० सी०-218186 एफ)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक छोटे लाल दिक्षत (सं० 2461874 के अब जे० सी०-218187 के)---1 नवम्बर, 1991।

हवलदार लिपिक मुभाष चन्द चन्देल (सं० 2461875 एफ अब जे० सी०-218188 एम)---1 नवम्बर, 1991।

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार के० चित्रराज (सं० 2575469 के अब जे० सी०-218189 पी)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार पि० सि० पोन्नय्या (सं० 2575739 डब्ल्यू अब जे० सी०-218190 के)---15 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क रामचंद्र नायडू के० (सं० 2573892 एन अब जे० सी०-218191 एम)---1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क उणिक्कण्णन एम० वी० (सं० 2573962 एफ अब जे० सी०-218192 पी)---26 दिसम्बर, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क जेकब डी० (सं० 2573976 एफ अब जे० सी०-218193 एक्स)---1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क वेलू पिल्लै के० (सं० 2574150 ए अब जे० सी०-218194 पी)---1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क मेम शोखरन नायर के० (सं० 2570971 एक्स अब जे० सी०-218195 एच)---19 दिसम्बर, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार क्लर्क मेल्वरराज पंडारी नायडू (सं० 2571237 डब्ल्यू अब जे० सी०-218196 एल)---1 दिसम्बर, 1991।

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नीलापाला वैकुण्ठम (सं० 2573668 एफ अब जे० सी०-218197 एन)---9 जुलाई, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 8 मई, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार बोद्यु मन्यनारायणा (सं० 2574430 एन अब जे० सी०-218198 डब्ल्यू)---18 जुलाई, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार टी० महासिगम (सं० 2576284 एक्स अब जे० सी०-218199 वाई)—1 जुलाई, 1991 ।

हवलदार अतुल चन्द्र कालिता (सं० 4350057 एच अब जे० सी०-218200 एच)—14 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार राम कृष्ण (सं० 3166597 एल अब जे० सी०-218201 एल)—14 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार विमल कुमार नायक (सं० 4349706 डब्ल्यू अब जे० सी०-218202 एन)—14 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार बी० चन्द्र बाबू (सं० 2579196 एम अब जे० सी०-218203 डब्ल्यू)—14 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार मणिकन्दन के० (सं० 2580901 एम अब जे० सी०-218204 वाई)—14 सितम्बर, 1991 ।

#### प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भोमदान (सं० 2666855 एम अब जे० सी०-218205 एफ)—1 अक्टूबर, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर, 1991) ।

हवलदार गोविन्द सिंह भवोरिया (सं० 2665198 एफ अब जे० सी०-218206 के)—13 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार नाथू सिंह रानावत (सं० 2665529 एक्स अब जे० सी०-218207 एम)—1 नवम्बर 1991 ।

हवलदार श्रीमकार सिंह (सं० 2661859 वाई अब जे० सी०-218208 पी)—1 नवम्बर 1991 ।

हवलदार अब्दुल हैय (सं० 2666964 वाई अब जे० सी०-218209 एक्स)—9 नवम्बर, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जून 1991) ।

हवलदार सतबीर सिंह (सं० 2672186 पी अब जे० सी०-218210 एम)—30 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार सुभेर सिंह (सं० 2663621 एक्स अब जे० सी०-218211 पी)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार किरपा राम (सं० 2661786 एक्स अब जे० सी०-218212 एक्स)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार मोहम्मद मुनीर आलम (सं० 2668418 एल अब जे० सी०-218213 ए)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार मोहम्मद इशाक (सं० 2666626 एफ अब जे० सी०-218214 एच)—1 अक्टूबर 1991 ।

हवलदार बलदेव सिंह (सं० 2662480 एफ अब जे० सी०-218215 एल)—1 दिसम्बर, 1991 ।

हवलदार मोहम्मद हनीफ खान (सं० 2665929 के अब जे० सी०-218216 एन)—1 दिसम्बर 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1991) ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक गुरदयाल सिंह जरियाल (सं० 2664788 एन अब जे० सी०-218217 डब्ल्यू)—1 दिसम्बर, 1991 ।

हवलदार लिपिक सूबे सिंह (सं० 2664841 एन अब जे० सी०-218218 वाई)—1 दिसम्बर, 1991 ।

हवलदार लिपिक रन सिंह (सं० 2664927 एम अब जे० सी०-218219 एफ)—1 दिसम्बर, 1991 ।

#### प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बिर्री सिंह (सं० 2663965 डब्ल्यू अब जे० सी०-218220 डब्ल्यू)—4 नवम्बर 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 सितम्बर, 1991) ।

हवलदार मोहिन्दर सिंह मनहास (सं० 2665826 एल अब जे० सी०-218221 वाई)—27 दिसम्बर, 1991 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 नवम्बर, 1991) ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक बलबीर मासुते (सं० 2664714 वाई अब जे० सी०-218222 एफ)—1 नवम्बर, 1991 ।

#### मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक मुसांत कुमार दलाल (सं० 14523927 एम अब जे० सी०-218223 के)—1 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार लिपिक दलवाई दुंभाप्पा शिहाप्पा (सं० 2769111 एफ अब जे० सी०-218224 एम)—1 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार लिपिक कुलकर्णी रामकृष्ण व्यंकटेश (सं० 2769252 डब्ल्यू अब जे० सी०-218225 पी)—1 दिसम्बर, 1991 ।

हवलदार लिपिक चिरमें रामदास धनु (सं० 2769370 के अब जे० सी०-218226 एक्स)—9 दिसम्बर, 1991 ।\*

\* (नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1991 से दी जाती है ।)



हवलदार लिपिक जाधव धनुष्या केरवा (सं० 2769400  
डब्ल्यू अब जे० सी०-218227 ए)--1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरीदास मखाराम माने (सं० 2769245 ए  
अब जे० सी०-218228 एच)--6 नवम्बर, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 जून, 1991 से  
दी जाती है)।

हवलदार नारे अगोक (सं० 2764672 एम अब  
218229 जे० सी०एल०) अगस्त 1991।

हवलदार कुमार भोसले आबाजी केशवराव (सं०  
2767719 एक्स अब जे० सी०-218230 ए)--22  
अक्तूबर, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्तूबर, 1991 से  
दी जाती है)।

हवलदार पांडुरंगसद्गुडे (सं० 2771683 एफ अब  
जे० सी०-218231 एच)--1 अक्तूबर, 1991।

हवलदार बलबुर्गे लक्ष्मण लिवाजी (सं० 2768341 एच  
अब जे० सी०-218232 एल)--16 नवम्बर, 1991।

राजपूताना राहफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार अजाद मिह कदियान (सं० 2867208 एच  
अब जे० सी०-218233 एन)--1 अगस्त, 1991।

हवलदार बजरंग लाल (सं० 2867130 एच अब  
जे० सी०-218234 डब्ल्यू)--1 अगस्त, 1991।

हवलदार कंवर सिंह (सं० 2868770 वाई अब जे०  
सी०-218235 वाई)--23 दिसम्बर, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 अगस्त, 1991 से  
दी जायेगी)।

हवलदार भीख सिंह (सं० 2865237 वाई अब जे०  
सी०-218236 एफ)--1 सितम्बर, 1991।

हवलदार मन फूल मिह (सं० 2871946 के अब  
जे० सी०-218237 के)--25 सितम्बर, 1991।

हवलदार राम देव जाट (सं० 2865931 एल अब  
जे० सी०-218238 एम)--1 अक्तूबर, 1991।

हवलदार अन्तर मिह राठी (सं० 2867713 एल अब  
जे० सी०-218239 पी)--13 अक्तूबर, 1991।

हवलदार शिवापाल मिह (सं० 2869911 पी अब  
जे० सी०-218240 के)--9 नवम्बर, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्तूबर, 1991 से  
दी जायेगी)।

हवलदार रोहिताण कुमार (सं० 2865608 डब्ल्यू  
अब जे० सी०-218241 एम)--23 अक्तूबर, 1991।

हवलदार मेवा मिह पूनिया (सं० 2868869 पी अब  
जे० सी०-218242 पी)--1 नवम्बर, 1991।

हवलदार महावीर प्रसाद (सं० 2863671 एम अब  
जे० सी०-218243 एक्स)--1 नवम्बर, 1991।

हवलदार राजेन्द्र सिंह शिवरेन (सं० 2869172 एम  
अब जे० सी०-218244 ए)--1 नवम्बर, 1991।

हवलदार नत्थू सिंह (सं० 2862269 डब्ल्यू अब जे०  
सी०-218245 एच)--23 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार क्लर्क सुमेर सिंह यादवा (सं० 2866725 एम  
अब जे० सी०-218246 एल)--1 सितम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क विकरम सिंह राजावत (सं० 2866940  
वाई अब जे० सी०-218247 एम)--1 सितम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क राय सिंह (सं० 2866908 के अब  
जे० सी०-218248 डब्ल्यू)--1 अक्तूबर, 1991।

हवलदार क्लर्क सरदार सिंह मुन्डा (सं० 2866925  
के० अब जे० सी०-218249 वाई)--1 अक्तूबर, 1991।

हवलदार क्लर्क धरम पाल सिंह (सं० 2867138 पी  
अब जे० सी०-218250 एन)--1 नवम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क उमेश मिह (सं० 2867204 एम अब  
जे० सी०-218251 डब्ल्यू)--1 नवम्बर, 1991।

नरेन्द्र सिंह,  
डेस्क अधिकारी

राजपूत रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कृपा राम (सं० 2972987 पी अब जे० सी०-  
218252 वाई)--07 मार्च 1991।

हवलदार भाव सिंह (सं० 2965112 डब्ल्यू अब जे० सी०-  
218253 एफ)--27 मार्च 1991।

हवलदार मांगे राम (सं० 2971927 एन अब जे० सी०-  
218254 के०)--01 जुलाई 1991।

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना दिनांक 01 जून 1991 से दी जायेगी।

हवलदार गोपी राम गूजर (सं० 2970105 के० अब  
जे० सी०-218255 एम)--01 अक्तूबर 1991।

हवलदार हेम राज (सं० 2973183 एम अब जे० सी०-  
218256 पी)--01 नवम्बर 1991।

हवलदार शिरंजी सिंह (सं० 2970114 एल अब जे०  
सी०-218257 एक्स)--01 दिसम्बर 1991।

## नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क गजराज सिंह यादव (सं० 2971 763 एच अब जे० सी०-218258 ए)—13 दिसम्बर 1991\*

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 नवम्बर 1991 से दी जायेगी।

हवलदार क्लर्क किरन पाल सिंह (सं० 2971777 एच अब जे० सी०-218259 एच)—01 नवम्बर 1991।

हवलदार हरभजन सिंह (सं० 4456839 के अब जे० सी०-218260 एक्स)—01 जुलाई 1991।

हवलदार करतार सिंह (सं० 2972148 एक्स अब जे० सी०-218261 ए)—01 अक्टूबर 1991।

हवलदार राजिन्द्र कुमार (सं० 2976924 के अब जे० सी०-218262 एच)—07 अक्टूबर 1991।

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं० 2976845 पी अब जे० सी०-218263 एल)—07 अक्टूबर 1991।

हवलदार बानू लाल वर्मा (सं० 2976696 एम अब जे० सी०-218264 एन)—07 अक्टूबर 1991।

हवलदार अमृतलास (सं० 2970296 के अब जे० सी०-218265 डब्ल्यू)—01 जनवरी 1992\*

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 1991 से दी जायेगी।

## जाट रेजीमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रामधर सिंह (सं० 3165419 डब्ल्यू अब जे० सी०-218266 वाई)—11 अक्टूबर 1991।

हवलदार रनबीर सिंह (सं० 3167865 डब्ल्यू अब जे० सी०-218267 एफ)—24 अक्टूबर 1991।

हवलदार राम किशन (सं० 2166005 डब्ल्यू अब जे० सी०-218268 के)—24 अक्टूबर 1991।

हवलदार नफे सिंह (सं० 3166023 वाई अब जे० सी०-218269 एन)—24 अक्टूबर 1991।

हवलदार भगवान सिंह (सं० 3164796 ए अब जे० सी०-218270 एफ)—24 अक्टूबर 1991।

हवलदार मागे राम-लाम्बा (सं० 3165171 एक्स अब जे० सी०-218271 के)—24 अक्टूबर 1991।

हवलदार ख्याली राम (सं० 3164864 एच अब जे० सी०-218272 एम)—1 नवम्बर 1991।

## नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) जय नारायण (सं० 3166266 के अब जे० सी०-218273 पी)—1 दिसम्बर 1991।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम कुमार (सं० 3164970 एफ अब जे० सी०-218274 एक्स)—2 दिसम्बर 1991\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1991 से दी जायेगी।)

## नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क केहर सिंह (सं० 3166348 एम अब जे० सी०-218275 ए)—1 दिसम्बर 1991।

हवलदार क्लर्क चेत राम यादव (सं० 3166470 एच अब जे० सी०-218276 एच)—1 दिसम्बर 1991।

## सिख रेजीमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार दलजीत सिंह (3374567 एम अब जे० सी०-218277 एल)—11 जून 1991\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 1991 से दी जाती है)।

हवलदार भगवंत सिंह (3372607 के अब जे० सी०-218278 एन)—01 सितम्बर 1991।

हवलदार वृध सिंह (3372053 डब्ल्यू अब जे० सी०-218279 डब्ल्यू)—02 दिसम्बर 1991

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 1991 से दी जाती है।)

हवलदार तरीलोक सिंह (3370165 एक्स अब जे० सी०-218280 एल)—22 अक्टूबर 1991।

हवलदार प्रीतम सिंह (3372259 एन अब जे० सी०-218281 एन)—01 नवम्बर 1991।

हवलदार मोहिन्दर सिंह (3374548 एफ अब जे० सी०-218282 डब्ल्यू)—1 नवम्बर 1991।

हवलदार हरमन्दर सिंह (3371917 एच अब जे० सी०-218283 वाई)—01 दिसम्बर 1991।

हवलदार अवतार सिंह (4452586 एच अब जे० सी०-218284 एफ)—07 अप्रैल 1991।

हवलदार गुरनाम सिंह (13857455 डब्ल्यू अब जे० सी०-218285 के)—20 अप्रैल 1991।

हवलदार सुरिन्दर पाल सिंह (4457943 के अब जे० सी०-218286 एम)—27 अप्रैल 1991।

हवलदार अन्तर सिंह (4455909 एन अब जे० सी०-218287 पी)—22 जून 1991

हवलदार प्यारा सिंह (4455314 एन अब जे० सी०-218288 एक्स)—19 अगस्त 1991।\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991 से दी जायेगी।

हवलदार सुब्बा सिंह (4456625 एन अब जे० सी०-218289 ए)--01 अगस्त 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) मुख्तियार सिंह (4453526 ए अब जे० सी०-218290 पी०)--17 दिसम्बर 1991 ।†

†(नायब सूबेदार(क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क) रमेश चन्द (4453797 एक्स अब जे० सी०-218291 एक्स)--01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) लक्ष्मण प्रसाद सिंह (4453843 एफ अब जे० सी०-218292 ए)--01 दिसम्बर 1991 ।

डोगरा रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बकशी सिंह ठाकुर (3968894 वाई अब जे० सी०-218293 एच)--29 अक्टूबर 1991\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1991 से दी जाती है) ।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार (लिपिक) कृष्ण चन्द चौहान (3971063 एम अब जे० सी०-218294 एल)--01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (लिपिक) भीर सिंह (3971097 वाई अब जे० सी०-218295 एन)--01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (लिपिक) योग राज शर्मा (3971103 एफ अब जे० सी०-218296 डब्ल्यू)--01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (लिपिक) बलवीर सिंह (3971135 के अब जे० सी०-218297 वाई)--01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (लिपिक) करतार सिंह (3971273 एल अब जे० सी०-218298 एफ)--02 दिसम्बर 1991\*

\* (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1991 से दी जाती है) ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विजय कुमार शर्मा (3971729 वाई अब जे० सी०-218299 के)--05 जून 1991 ।

हवलदार कूलवीर सिंह (3968178 एन अब जे० सी०-218300 एन)--25 जून 1991 ।

हवलदार कृष्ण लाल (3970049 एम अब जे० सी०-218301 डब्ल्यू)--29 सितम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) भूपन राय (6648325 एन अब जे० सी०-218302 वाई)--01 दिसम्बर 1991 ।

गढ़वाल राइफल

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रजेन्द्र सिंह गुसाई (सं० 4053818 पी अब जे० सी०-218303 एफ)--01 अगस्त 91 ।

हवलदार बलदास सिंह (सं० 4050824 एक्स अब जे० सी०-218304 के)--01 अक्टूबर 91 ।

हवलदार रमेश चन्द्र (सं० 4053811 एल अब जे० सी०-218305 एम)--01 नवम्बर 91 ।

हवलदार जगदीश सिंह गुसाई (सं० 4050704 वाई अब जे० सी०-218306 पी)--01 दिसम्बर 91 ।

हवलदार प्रेम सिंह (सं० 4052748 पी अब जे० सी०-218307 एक्स)--01 दिसम्बर 91 ।

हवलदार रघुबीर सिंह बुटोला (सं० 4049957 एफ अब जे० सी०-218308 ए)--01 दिसम्बर 91 ।

हवलदार रघुबीर सिंह बिष्ट (सं० 4054798 वाई अब जे० सी०-218309 एच)--01 दिसम्बर 91 ।

हवलदार बचन सिंह पंवार (सं० 4051228 एक्स अब जे० सी०-218310 एक्स)--07 दिसम्बर 91\* ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 91 से दी जाती है) ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) भगवान सिंह धनवाल (सं० 1452081 डब्ल्यू अब जे० सी०-218311 ए)--01 दिसम्बर 91 ।

दि कुमाऊं रेजीमेंट

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) रोशन लाल खरवाल (सं० 4163321 ए अब जे० सी०-218312 एच)--22 सितम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) हरपाल सिंह यादव (नं० 4163497 एल अब जे० सी०-218313 एल)--27 अक्टूबर 1991\* ।

\* (नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क) ईश्वर सिंह (नं० 4163506 एफ अब जे० सी०-218314 एन)--01 अक्टूबर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) धरम पाल सिंह यादव (नं० 4163879  
पी अब जे० सी०-218315 डब्ल्यू)---01 दिसम्बर 1991।

हवलदार (क्लर्क) हरी सिंह (नं० 4163910 बाई अब  
जे० सी०-218316 बाई)---12 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लक्ष्मन सिंह बोरा (नं० 4167208 एच अब  
जे० सी०-218317 एफ)---11 अक्टूबर 1991।

हवलदार गजेन्द्र सिंह मेहता (नं० 4166007 एम अब  
जे० सी०-218318 के)---22 दिसम्बर 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार नन्दन सिंह (नं० 4168659 पी अब जे० सी०-  
218319 एम)---14 दिसम्बर 1991।

द्वि नागा रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० एच० एम०, एस० टी० स्वीटसन (नं० 14700582  
एन अब जे० सी०-218320 एफ)---01 मई 1991।

हवलदार देव सिंह (नं० 4163039 पी अब जे० सी०-  
218321 के)---01 जनवरी 1992।

आसाम रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार माहा काम्ता रेखा राजा (4348797 एच अब  
जे० सी०-218322 एच)---01 जनवरी 91।

हवलदार बाणी राम राभा (4348691 एम अब जे०  
सी०-218323 पी)---01 जून 91।

हवलदार नोरेन्द्रा चन्द्रा हाजारीका (4347896 पी अब  
जे० सी०-218324 एक्स)---18 जून 91।

हवलदार इन्द्रा प्रसाद छेत्री (4348180 एच अब जे० सी०-  
218325 ए)---18 जून 91।

हवलदार वीरेन्द्र बेका (4348795 एन अब जे० सी०-  
218324 एच)---18 जून 91।

हवलदार के० एच० श्रीजाधोन सिंहा (4348930 डब्ल्यू  
अब जे० सी०-218327 एल)---18 जून 91।

हवलदार काम्ताक चन्द्रा वोरमान (4349209 एम अब  
जे० सी०-218328 एन)---18 जून 91।

हवलदार पुतुल चन्द्रा बोरा (4350097 के अब जे० सी०-  
218329 डब्ल्यू)---01 जुलाई 91।

हवलदार कारना बंहादुर थापा (4350462 ए अब जे० सी०-  
218330 एल)---01 दिसम्बर 91।

हवलदार सुगन्दर कुमार (13733959 डब्ल्यू अब जे०  
सी०-218331 एन)---02 दिसम्बर 91।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जगदीश प्रसाद राजाक (4348573  
बाई अब जे० सी०-218332 डब्ल्यू)---01 नवम्बर 91।

हवलदार लिपिक अनील भौमीक (4348575 के अब  
जे० सी०-218333 बाई)---01 दिसम्बर 91।

हवलदार लिपिक डिम्बेश्वर शार्ङ्किष्ठा (4348580 पी अब  
जे० सी०-218334 एफ)---01 दिसम्बर 91।

हवलदार लिपिक हीरा लाल सिंह (4348595 एक्स अब  
अब जे० सी०-218335 के)---1 दिसम्बर 91।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कमल शार्ङ्किष्ठा (4350042 ए अब जे० सी०-  
218336 एम)---01 दिसम्बर 91।

बिहार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मकेश्वर प्रसाद सिंह (सं० 4250128 के अब  
जे० सी०-218337 पी)---19 अगस्त 1991\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार हर दयाल सिंह (सं० 4250113 एफ अब जे०  
सी०-218338 एक्स)---01 फरवरी 1991।

हवलदार लोहर सिंह स्वान्ती (सं० 4250647 एम अब  
जे० सी०-218339 ए)---15 नवम्बर 1991\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार श्याम नन्दन कुमार (सं० 4249450 के अब  
जे० सी०-218340 पी)---11 सितम्बर 1991\*।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले  
बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 1991 से दी जायेगी)।

सी० एच० एम० धनेश्वर यादव (सं० 4250182 एक्स  
अब जे० सी०-218341 एक्स)---25 अगस्त 1991।

हवलदार वीरेन्द्र कुमार सिंह (सं० 4253644 के अब जे०  
सी०-218342 ए)---29 अगस्त 1991।

हवलदार एम० लक्ष्मीनारायणा (सं० 4255438 बाई अब  
जे० सी०-218343 एच)---01 अक्टूबर 1991।

हवलदार राजेश कुमार खांखा (सं० 4252853 पी अब  
जे० सी०-218344 एल)---01 अक्टूबर 1991।

हवलदार खिरोद कुमार दाम (सं० 4256235 एफ अब  
जे० सी०-218345 एन)---01 अक्टूबर 1991।

बिहार रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार चन्द्र शेखर मोहन्ती (सं० 4256644 पी अब जे० सी०-218 346 डब्ल्यू)---01 अक्टूबर 1991 ।

हवलदार जय कुमार मिह (सं० 4254025 एच अब जे० सी०-218 347 वाई)---23 नवम्बर 1991 ।

सी० एच० एम० जमुना प्रसाद मिह (सं० 4252146 एन अब जे० सी०-218348 एफ)---07 दिसम्बर 1991\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 दिसम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) भृगु नाथ मिह (सं० 4252081 एच अब जे० सी०-218349 के)---01 नवम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) राजेन्द्र प्रसाद मिह (सं० 2970244 एन अब जे० सी०-218350 वाई)---01, दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) देव राज धिमन (सं० 5341633 एन अब जे० सी०-218 351 एफ)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) कश्मीरी लाल (सं० 50398 25 डब्ल्यू अब जे० सी०-218352 के)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) स्वप्न कुमार चक्रवर्ती (सं० 4253551 पी अब जे० सी०-218 353 एम)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) टी० सी० मैथूम (सं० 4253789 पी अब जे० सी०-218354 पी)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) पूरना चन्द्र मोहन्ती (सं० 4253776 ए अब जे० सी०-218355 एक्स)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) रामेश्वर सिंह (सं० 4253865 डब्ल्यू अब जे० सी०-218356 ए)---01 दिसम्बर 1991 ।

जम्मू और कश्मीर राईफल

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक कुलबीर चन्द शाली (13735300 एम अब जे० सी०-218357 एच)---05 अक्टूबर 1991\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार अर्जुन सिंह संघोत्रा (13735872 एन अब जे० सी०-218358 एन)---23 दिसम्बर 1991।\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

हवलदार ओम प्रकाश (13733730 एक्स अब जे० सी०-218359 एन)---01 अगस्त 1991 ।

हवलदार सुरेश कुमार (13734083 पी अब जे० सी०-218360 एच)---01 अगस्त 1991 ।

हवलदार होशियार मिह (13732946 अब जे० सी०-218361 एन)---09 अगस्त 1991 ।

हवलदार प्रेम चन्द (13735946 एक्स अब जे० सी०-218362 एन)---22 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार श्याम लाल (13736390 एन अब जे० सी०-218363 डब्ल्यू)---05 नवम्बर 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार हरनाम मिह (13732857 एन अब जे० सी०-218364 वाई)---18 अक्टूबर 1991\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रकाश चन्द (13735792 डब्ल्यू अब जे० सी०-218365 एफ)---08 नवम्बर 1991।@

@ (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार सिकन्दर मिह (13736037 वाई अब जे० सी०-218366 के)---01 नवम्बर 1991 ।

हवलदार मोहिन्द्र मिह (13735351 ए अब जे० सी०-218367 एम)---18 दिसम्बर 1991।

† (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 नवम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार मदन लाल (13732923 एन अब जे० सी०-218368 पी)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार मेहर चन्द बुड्डागा (13733591 वाई अब जे० सी०-218369 एक्स)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार अशोक कुमार (13733910 ए अब जे० सी०-218370 एम)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार कुन्दन सिंह (13734393 ए अब जे० सी०-218371 पी)---01 दिसम्बर 1991 ।

हवलदार जगतार सिंह (13737691 एफ अब जे० सी०—218372 एक्स)—01 दिसम्बर 1991।

हवलदार रीमा राम (13734165 एक्स अब जे० सी०—218373 ए)—14 दिसम्बर 1991।

हवलदार दर्शन सिंह (13733082 ए अब जे० सी०—218374 एच)—01 जनवरी 1992।

हवलदार रमेश कुमार शर्मा (13736285 पी अब जे० सी०—218375 एल)—01 जनवरी 1992।

#### जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कस्तूरी लाल (9078692 एम अब जे० सी०—218376 एन)—29 जून 91।

हवलदार दिलीवर सिंह (9081372 डब्ल्यू० अब जे० सी०—218377 डब्ल्यू)—29 जून 91।

हवलदार युव राज सिंह (9081531 एच अब जे० सी०—218378 आई)—18 अगस्त 91।

हवलदार शेर बाज (9081259 एफ अब जे० सी०—218379 एफ)—25 अगस्त 91।

हवलदार सन्तोष सिंह (9079565 एक्स अब जे० सी०—218380 डब्ल्यू)—21 दिसम्बर 91\*।

\*(17 अक्टूबर 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार जगदीश चन्द्र (9080844 पी अब जे० सी०—218381 आई)—21 दिसम्बर 91\*\*।

\*\* (04 नवम्बर 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

सी० एच० एम० शमशेर सिंह (9079764 एल अब जे० सी०—218382 एफ)—22 जुलाई 91।

हवलदार रथ खीर सिंह (9078952 एम अब जे० सी०—218383 के)—22 जुलाई 91।

हवलदार बलवीर सिंह बिलावारिया (9081344 के अब जे० सी०—218384 एम)—22 जुलाई 91।

हवलदार सतीश कुमार मनहास (9081354 एन अब जे० सी०—218385 पी)—22 जुलाई 91।

सी० एच० एम० भगवान सिंह चौधरी (9081376 एच अब जे० सी०—218786 एक्स)—22 जुलाई 91।

हवलदार जसपाल सिंह (9081380 पी अब जे० सी०—218387 ए)—22 जुलाई 91।

हवलदार गुलाम मोहम्मद (9081979 एच अब जे० सी०—218388 एच)—22 जुलाई 91।

हवलदार जनक राज (9081538 एम अब जे० सी०—218389 एल)—26 दिसम्बर 91\*।

\*(01 अगस्त 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार रतन लाल (13734106 एल अब जे० सी०—218390 ए)—10 दिसम्बर 91\*।

\*(01 दिसम्बर 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

हवलदार बाल किशन (9079265 डब्ल्यू अब जे० सी०—218391 एच)—21 नवम्बर 91।

\*(24 अक्टूबर 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए)।

##### 1 जी० आर०

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रिखी राम पुन (सं० 5038495 डब्ल्यू अब जे० सी०—218392 एल)—07 नवम्बर 1991\*।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अक्टूबर 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार दुर्गा बहापुर सिरिश (सं० 5039246 के अब जे० सी०—218393 एन)—01 नवम्बर 1991।

##### लहाख स्काउट्स

##### नायब सूबेदार (जी० डी०) के पद में

हवलदार (जी० डी०) सोनम फुन्चोग (सं० 9921540 डब्ल्यू अब जे० सी०—218394 डब्ल्यू)—11 नवम्बर 1991\*।

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1991 से दी जायेगी)।

##### गारख ब्रिगेड

##### सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार केशवर प्रसाद यादव (जे० सी०—101866 डब्ल्यू)—01 मार्च 1992।

सूबेदार राम नरेश यादव (जे० सी०—108957 एच)—01 मार्च 1992।

सूबेदार डूंगर सिंह (जे० सी०—107095 एच)—01 अप्रैल 1992।

सूबेदार रोहतास सिंह (जे० सी०—96965 एम)—01 अप्रैल 1992।

सूबेदार राम लाल (जे० सी०—107082 एल)—01 अप्रैल 1992।

सूबेदार बालिया परमबिल अम्मु हामना (जे० सी०—122752 आई)—01 अप्रैल 1992।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रविन्द्र बाबु (जे० सी०-157255 एन)---  
01 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार भागीरथ (जे० सी०-166000 पी)---01  
नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार राम लखन पाल (जे० सी०-163998 एम)  
---01 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार दिवानी चन्द (जे० सी०-166001 एक्स)  
---01 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार राज सिंह (जे० सी०-166002 एच)---  
01 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार कुंजेश्वर सिंहा (जे० सी०-173114 एच)  
---01 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार मेजा सिंह (जे० सी०-159094 पी)---  
01 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार बुद्धिमता स्वैन (जे० सी०-162077 ए)---  
01 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार भिमाप्पा पडाडणे (जे० सी०-147356  
एन)---01 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार करनी सिंह (जे० सी०-162070 डब्ल्यू)  
---01 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार भगत राम कच्छी (जे० सी०-159097  
एच)---01 अप्रैल 1992 ।

## मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

## सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अशोक जाधव (जे० सी०-108583 एक्स)---  
01 मार्च 1992 ।

सूबेदार शंकर बनकर (जे० सी०-106120 के)---01 मार्च  
1992 ।

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अशोक राउत (जे० सी०-152448 के)---  
01 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार पाटील भरमा बालकृष्ण (जे० सी०-162130  
ए)---01 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार सुभाष पोवार (जे० सी०-151227 एल)---  
01 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार आनंदा उबरहाडे (जे० सी०-159149  
एन)---01 अप्रैल 1992 ।

## सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक तारी सत्यवान गोपाल (जे० सी०-  
175347 एच)---01 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार लिपिक लुईस फर्नांडीस (जे० सी०-179312  
के)---01 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार लिपिक दत्तू चह्माण (जे० सी०-179298  
एच)---01 अप्रैल 1992 ।

## प्रिनेडियर्स

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार उमेश सिंह (जे० सी०-152810 एम)---  
01 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार सादिक मोहम्मद भाटिया (जे० सी०-155066  
एल)---01 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार अयूब अली खान (जे० सी०-152811 पी)  
---01 फरवरी 1992 ।

नायब सूबेदार शंकर लाल मीना (जे० सी०-181773  
एम)---01 अप्रैल 1992 ।

## राजपूत रेजीमेंट

## सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राजिन्द्र सिंह (जे० सी०-178253 डब्ल्यू)  
---01 मार्च 1991 ।

नायब सूबेदार धर्मपाल सिंह (जे० सी०-172569 एम)---  
01 अप्रैल 1991 ।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र पाल (जे० सी०-158374 डब्ल्यू)  
---01 जुलाई 1991 ।

नायब सूबेदार बनवारी लाल (जे० सी०-155308 एच)  
---01 नवम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार राम पाल सिंह (जे० सी०-155306 एक्स)  
---01 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार प्रह्लाद राम गूजर (जे० सी०-169155  
पी)---01 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार धर्म पाल (जे० सी०-156006 एच)---  
1 दिसम्बर, 1990 ।

नायब सूबेदार तिलक राज सिंह (जे० सी०-171721  
एच)---1 जनवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार रूप सिंह (जे० सी०-156008 एच)---  
1 फरवरी, 1991 ।

नायब सूबेदार सुरजीत सिंह (जे० सी०-156009  
डब्ल्यू)---1 अप्रैल, 1991 ।

नायब सूबेदार अमीन चन्द (जे० सी०-156005 ए)---  
1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार फूला सिंह (जे० सी०-156007 एल)---  
1 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार जर्नेल सिंह (जे० सी०-158010  
एल)---1 जुलाई, 1991 ।

## मिख रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-97846 एच)---  
1 फरवरी, 1992 ।

सूबेदार अब्दुल नहीथ (जे० सी०-111855 एक्स)---  
1 फरवरी, 1992 ।

सूबेदार पी० वसुदेवन (जे० सी०-117162 डब्ल्यू)---  
1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सुरत सिंह (जे० सी०-184356 एल)---01 जनवरी 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क गुरुवीप सिंह (जे० सी०-185773 के)---  
01 मार्च 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क प्रोकार सिंह (जे० सी०-192954 एक्स)---  
01 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क बलविन्दर सिंह (जे० सी०-192955 ए)---  
01 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क ज्ञान सिंह (जे० सी०-192968 एक्स)---  
01 अप्रैल 1992 ।

## मिख लाईट इन्फैन्ट्री

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार मेजर सिंह (जे० सी०-144886 एक्स)---  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-152540 एच)---  
1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार रघबीर सिंह (जे० सी०-163660 एफ)---  
1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार घग्ना सिंह (जे० सी०-152542 एन)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार करनैल सिंह (जे० सी०-152543 डब्ल्यू)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार बुध सिंह (जे० सी०-156062 एफ)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जरनैल सिंह (जे० सी०-167224 एफ)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार अमरजीत सिंह (जे० सी०-167225 के)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जे० सी०-155701 एल)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-152125 एफ)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जे० सी०-162153 एफ)---  
1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार अवतार सिंह (जे० सी०-167226 एम)---  
1 फरवरी, 1992 ।

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सुष्मा सिंह (जे० सी०-193791 एफ)---  
1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क गुरुवीप सिंह (जे० सी०-193785 एन)---  
1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क सिधारा सिंह (जे० सी०-193786 डब्ल्यू)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क राम लाल (जे० सी०-193787 वाई)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क मधर सिंह (जे० सी०-196517 पी)---  
1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क गुरुबचन सिंह गिल (जे० सी०-  
196498 पी)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्लर्क सुमेल बी मसीह (जे० सी०-  
196499 एक्स)---1 जनवरी, 1992 ।

## डोगरा रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार राजेन्द्र चौहान (जे० सी०-104111 के)---  
1 दिसम्बर, 1991 ।

सूबेदार बलदेव सिंह (जे० सी०-103503 एल)---  
1 जनवरी, 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार हरबंस सिंह (जे० सी०-178599 ए)---  
1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जे० सी०-155729 एच)---  
1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (जे० सी०-149031 वाई)---  
1 जनवरी, 1992 ।

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क भाग सिंह मनहास (जे० सी०-  
178031 एफ)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क जगदीश सिंह पठानिया (जे० सी०-  
178030 वाई)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क मोहिन्द्र सिंह (जे० सी०-  
179385 डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क तरसेम लाल (जे० सी०-179386 वाई)---  
1 दिसम्बर, 1991 ।



नायब सूबेदार क्लर्क पंजाब सिंह (जे० सी०—179387 एफ)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार क्लर्क हरनाम सिंह बर्मा (जे० सी०—179388 के)—1 दिसम्बर, 1991।

गढ़वाल राइफल्स  
सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गमाल सिंह (जे० सी०—99885 ए)—1 फरवरी, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भगत सिंह, एस० एम० (जे० सी०—149076 वार्ड)—26 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार कुंवर सिंह रोपान (जे० सी०—152574 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह रावत (जे० सी०—167245 के)—1 फरवरी, 1992।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक विलवर सिंह (जे० सी०—176372 एन)—1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक वीर सिंह रावत (जे० सी०—176373 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक रघुबीर सिंह रावत (जे० सी०—185225 एम)—1 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार लिपिक गोविन्द सिंह रावत (जे० सी०—188531 एम)—1 फरवरी, 1992।

गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार कुमला मन्व गौड़ (जे० सी०—118914 एफ)—1 जनवरी, 1992।

सूबेदार कुंवर सिंह (जे० सी०—103460 एफ)—01 जनवरी, 1992।

सूबेदार पद्मेन्द्र सिंह नेगी (जे० सी०—108934 एफ)—1 जनवरी, 1992।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह नेगी (जे० सी०—163677 पी)—1 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार सुरेश सिंह (जे० सी०—163680 पी)—21 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार रघुनाथ सिंह नेगी (जे० सी०—159238 एम)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार नन्दन सिंह (जे० सी०—159239 पी)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार हरी राम (जे० सी०—159240 के)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार त्रिलोक सिंह (जे० सी०—172778 के)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार बना मन्व खुगशास (जे० सी०—151367 एफस)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार भगत सिंह नेगी (जे० सी०—151368 ए)—1 दिसम्बर 1991।

नायब सूबेदार रमेश चन्व (जे० सी०—160928 एन)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह नेगी (जे० सी०—164597 के)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जे० सी०—164984 वार्ड)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार गोविन्द राम ममगाँधी (जे० सी०—164821 एल)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार जयमाल सिंह सजवान (जे० सी०—166095 ए)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार विजय सिंह नेगी (जे० सी०—167256 के)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार जोत सिंह बिष्ट (जे० सी०—173886 ए)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार भरत सिंह पवार (जे० सी०—159224 एम)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार जय सिंह (जे० सी०—159228 एन)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जे० सी०—167252 एन)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार यशवन्त सिंह बिष्ट (जे० सी०—175389 पी)—1 जनवरी, 1992।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) दिल सिंह (जे० सी०—176365 एफस)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) ठाकुर सिंह (जे० सी०—176366 ए)—1 दिसम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) घूम सिंह (जे० सी०—176367 एच)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार (लिपिक) बलबीर सिंह (जे० सी०—176368 एल)—1 जनवरी, 1992।

नायब सूबेदार (लिपिक) गिरधर सिंह (जे० सी०—176370 एन)—1 जनवरी, 1992।

सूबेदार (म्यूजीशियन) के रैंक में

नायब सूबेदार (म्यूजीशियन) राम चन्द्र सिंह (जे० सी०-158403 ए)—1 जून, 1991 ।

गठवाल राइफल्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार गबर सिंह (जे० सी०-103464 एक्स)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार जगदीश सिंह (जे० सी०-106778 के)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार मेजर (लिपिक) के रैंक में

सूबेदार (लिपिक) सुरेन्द्र सिंह धिष्ट (जे० सी०-130848 डब्ल्यू)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार दयाल सिंह (जे० सी०-155409 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार यशपाल सिंह (जे० सी०-152896 डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार शिव सिंह (जे० सी०-152904 के)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार खीम सिंह (जे० सी०-152906 पी)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार राजे सिंह (जे० सी०-155398 पी)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) कृष्ण चन्द्र उपाध्याय (जे० सी०-188528 एम)—1 अप्रैल, 1992 ।

द्वि. नागा रेजिमेन्ट

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार भीम सिंह (जे० सी०-173235 के)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार रंगसेन लेम्बा आओ (जे० सी०-116520 के)—13 मार्च, 1992 ।

द्वि. कुमाऊँ रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हम्सा दत्त (जे० सी०-105391 पी)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार शुली माओ (जे० सी०-116519 पी)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार शम्भू दयाल (जे० सी०-101111 बाई)—1 मई, 1992 ।

सूबेदार बहादुर सिंह (जे० सी०-124619 पी)—1 मई, 1992 ।

आसाम रेजिमेन्ट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सुरेन्द्रा चन्द्र हजारीका (जे० सी०-105722 एल)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार घनश्याम दास (जे० सी०-145575 डब्ल्यू)—1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार टी० खान थांग पाइवे (जे० सी०-148504 ए)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार शेर बहादुर थापा (जे० सी०-156109 एफ)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार सेकेन्द्र मरक (जे० सी०-156111 बाई)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार बेनी कुट्टि ओ (जे० सी०-159257 एक्स)—1 मई, 1992 ।

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक सचिन्द्र मोहन पाल (जे० सी०-112873 एम)—1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार लिपिक के रैंक में

नायब सूबेदार लिपिक बुलाल चन्द्र बड़ो (जे० सी०-164608 एल)—1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार लिपिक थोमास टि० एम० (जे० सी०-164831 पी)—1 दिसम्बर, 1991 ।

महार रेजिमेन्ट

सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) सुबा सिंह (जे० सी०-172031 एल)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) रामेन्द्र सिंह चौहान (जे० सी०-173271 पी)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) गुरमैल चन्द प्रेमी (जे० सी०-173272 पी)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) यशवंत काम्बले (जे० सी०-175101 के)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) मुकुमारन जी (जे० सी०-175102 एम)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) राम पाल सिंह (जे० सी०-175103 पी)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क (जी० डी०) दर्शन सिंह (जे० सी०-175445 एच)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कलकं (जी० डी०) सज्जन सिंह (जे० सी०-175446 एल)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कलकं (जी० डी०) गुलजार सिंह (जे० सी०-178665 एक्स)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कलकं (जी० डी०) सुन्दर सिंह बिष्ट (जे० सी०-179465 एफ)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कलकं (जी० डी०) एम० जनार्धन (जे० सी०-179469 के)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कलकं (जी० डी०) प्रीतम मिह (जे० सी०-179470 वाई)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कलकं (जी० डी०) मौनी राम चौधरी (जे० सी०-178301 एल)---1 दिसम्बर, 1991 ।

#### जम्मू और काश्मीर राईफल

#### सूबेदार मेजर (जी० डी०) के रैंक में

सूबेदार पूरन चन्द जोशी (जे० सी०-86083 एक्स)---1 सितम्बर, 1991 ।

सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०-100601 ए)---1 अक्टूबर, 1991 ।

सूबेदार टेक चन्द राना (जे० सी०-88269 ए)---1 अक्टूबर, 1991 ।

सूबेदार धोंकार सिंह (जे० सी०-82823 के)---1 नवम्बर, 1991 ।

सूबेदार बेसर राम चौधरी (जे० सी०-83426 एक्स)---1 दिसम्बर, 1991 ।

सूबेदार पूरन मिह जम्वाल (जे० सी०-86088 डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 1991 ।

सूबेदार गुंजर मिह (जे० सी०-83538 एक्स)---1 जनवरी, 1992 ।

सूबेदार छज्जू मिह (जे० सी०-87524 पी)---1 जनवरी, 1992 ।

#### सूबेदार (जी० डी०) के रैंक में

नायब सूबेदार द्वारका नाथ (जे० सी०-178116 एक्स)---1 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार रंगीला राम (जे० सी०-152961 एल)---1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार करजेल सिंह (जे० सी०-155794 एल)---1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार धर्म चन्द शर्मा (जे० सी०-155788 एक्स)---1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार मोहिन्द्र सिंह (जे० सी०-159296 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार पुरिया राम (जे० सी०-169259 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार (म्यूजिशियन) खेम चन्द (जे० सी०-172603 एफ)---1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार कणामीर सिंह (जे० सी०-152975 एल)---1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार रतजीत राम शूकले (जे० सी०-163929 डब्ल्यू)---1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार कृष्ण राम (जे० सी०-162222 एम)---1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार बाबू राम (जे० सी०-152207 के)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी०-185252 डब्ल्यू)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार रतन लाल (जे० सी०-161001 एन)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार अच्छर सिंह (जे० सी०-163939 ए)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जे० सी०-169256 एच)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार सरदूल सिंह (जे० सी०-180898 एक्स)---1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार रवेल सिंह (जे० सी०-159298 एफ)---21 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार अमर सिंह चौहान (जे० सी०-152204 डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार भारत सिंह (जे० सी०-152205 वाई)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जे० सी०-157920 एल)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार सुलखान सिंह (जे० सी०-169455 डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार चैन लाल (जे० सी०-161012 ए)---1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार खिला राम (जे० सी०-155813 एल)---14 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार रघुबीर सिंह (जे० सी०-180899 ए)---16 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार मनमोहन सिंह (जे० सी०-130860 एक्स)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार चिन्ता बहादुर थापा (जे० सी०-169252 एम)---1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार धनीराम (जे० सी०-180903 एक्स)  
—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार पद्म सिंह (जे० सी०-180904 ए)  
—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जगदीश चन्द (जे० सी०-181899 एम)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार (म्यूजिशन) केहर सिंह (जे० सी०-179460 पी)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार नसीब सिंह (जे० सी०-152206 एफ)  
—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार बरयाम सिंह गुलेरिया (जे० सी०-155800 एन)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जे० सी०-183108 एच)—1 फरवरी 1992 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी०-161007 पी)  
—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार केशव दत्त (जे० सी०-164628 वाई)  
—1 फरवरी 1992 ।

नायब सूबेदार धर्म पाल (जे० सी०-162223 पी)  
—1 फरवरी 1992 ।

नायब सूबेदार ईश्वर सिंह (जे० सी०-163930 एल)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जयकरण मिह (जे० सी०-166767 एफ)—1 फरवरी, 1992 ।

जम्मू और काश्मीर लाईट इन्फैंट्री

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार निरंजन सिंह (जे० सी०-143772 ए)  
—1 मार्च, 1992 ।

4 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार मगन मोहन (जे० सी०-118143 एक्स)—  
1 अप्रैल, 1992 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बोम बहादुर गुरूंग (जे० सी०-178682 एक्स)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार विश्व देव बिष्ट (जे० सी०-180908 डब्ल्यू)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार नरजंग गुरूंग (जे० सी०-180910 एन)—1 मार्च, 1992 ।

9 जी० आर०

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) विभान बहादुर शाही (जे० सी०-188422 ए)—1 फरवरी, 1992 ।

9 जी० आर०

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार नील बहादुर छेत्री (जे० सी०-105791 एफ)  
—1 जनवरी, 1992 ।

सूबेदार गणेश बहादुर छेत्री (जे० सी०-95409 डब्ल्यू)  
—1 फरवरी, 1992 ।

सूबेदार पर्सा बहादुर छेत्री (जे० सी०-92792 एच)  
—1 मार्च, 1992 ।

3 जी० आर०

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार खेम बहादुर राणा (जे० सी०-168624 ए)—01 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार बम बहादुर गुरूंग (जे० सी०-168626 एल)  
—01 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार बुडी बहादुर गुरूंग (जे० सी०-162348 एम)—01 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार प्रकाश बहादुर गुरूंग (जे० सी०-166780 एल)—01 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार चन्द्र सिंह गुरूंग (जे० सी०-168941 एफ)—01 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार दल बहादुर गुरूंग (जे० सी०-169464 एक्स)—01 दिसम्बर 1991 ।

नायब सूबेदार खुम बहादुर गुरूंग (जे० सी०-169470 एल)—01 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार सोम बहादुर राणा (जे० सी०-178678 पी)—01 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जित बहादुर गुरूंग (जे० सी०-184491 वाई)—01 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार ज्ञान बहादुर थापा (जे० सी०-184487 डब्ल्यू)—01 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार रण बहादुर थापा (जे० सी०-173104 वाई)—01 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार उमन सिंह गुरूंग (जे० सी०-184488 वाई)—01 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार लाल बहादुर गुरूंग (जे० सी०-173105 एफ)—01 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार नरेन्द्र बहादुर खडका (जे० सी०-184492 एफ)—01 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार प्रसाद पून (जे० सी०-184493 के)--  
01 फरवरी, 1992।

नायब सूबेदार नर बहादुर थापा (जे० सी०-173106 के)  
--01 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार जित बहादुर थापा (जे० सी०-188702  
एन)--01 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह थापा (जे० सी०-175465  
डब्ल्यू)--01 मार्च, 1992।

#### लडाख स्काऊट्स

सूबेदार (लिपिक) के पद में

नायब सूबेदार (लिपिक) गुरदियाल सिंह (जे० सी०-  
149527 एम)--01 मई, 1992।

सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार (जी० डी०) छेरिंग छोसफल (जे० सी०-  
163952 के)--01 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार (जी० डी०) छेवांग चुम्बु (जे० सी०-  
163961 एल)--01 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार (जी० डी०) छेरिंग पलदन (जे० सी०-  
163962 एन)--01 मई, 1992।

नरेन्द्र सिंह

डेस्क अधिकारी

#### विद्युत और यांत्रिक इन्जिनियर कोर

हवलदार मेजर टेक्निकल में नायब सूबेदार टेक्निकल  
(रेडियो) के रैंक में

त्रिवेनी दुबे (सं० 14501402 एन अब जे० सी०-  
218751 एन)--13 दिसम्बर, 1991।

जगदीश सिंह (सं० 7119332 पी अब जे० सी०-  
218752 डब्ल्यू)--01 जनवरी, 1991।

हवलदार मेजर टेक्निकल में नायब सूबेदार टेक्निकल  
(रेडार) के रैंक में

भाले राव जगन्नाथ (सं० 14511803 एन अब जे० सी०-  
218753 वाई)--01 जनवरी, 1991।

हवलदार मेजर टेक्निकल में नायब सूबेदार टेक्निकल  
(इलेक्ट्रिशियन) के रैंक में

राम स्नेही पाल (सं० 14506460 डब्ल्यू अब जे० सी०-  
218754 एफ)--01 जनवरी, 1992।

हवलदार में नायब सूबेदार वर्क जी० डी० के रैंक में

दुर्गा प्रसाद (सं० 14501324 डब्ल्यू अब जे० सी०-  
218755 के)--15 दिसम्बर, 1991।

चन्द्रा प्रसाद (सं० 14502298 एम अब जे० सी०-  
218756 एम)--01 अप्रैल, 1991।

मोन्सा राम विक्नोई (सं० 14506566 एन अब जे० सी०-  
218757 पी)--01 सितम्बर, 1991।

सत पाल सिंह (सं० 14506303 के अब जे० सी०-  
218758 एम)--01 सितम्बर, 1991।

गोलाप चन्द्रां पेगू (सं० 14506926 एन अब जे० सी०-  
218759 ए)--01 नवम्बर, 1991।

राजन नमाथ परम्बथ (सं० 14507861 एक्स अब जे०  
सी०-218760 पी)--26 नवम्बर, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना जरेष्ठता 01 सितम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

त्रियो नाथ (सं० 14508801 पी अब जे० सी०-  
218761 एक्स)--01 अक्टूबर, 1991।

सुरेश प्रसाद (सं० 14509071 एक्स अब जे० सी०-  
218762 ए)--23 अक्टूबर, 1991।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर, 1991 से दी जायेगी)।

विजय कुमार (सं० 14510022 एन अब जे० सी०-  
218763 एन)--01 नवम्बर, 1991।\*\*\*

सोम दत्त शर्मा (सं० 12447459 पी अब जे० सी०-  
218764 एन)--01 अक्टूबर, 1991।

तेज सिंह सामन्त (सं० 6648276 डब्ल्यू अब जे० सी०-  
218765 एन)--01 अक्टूबर, 1991।

बच्चन सिंह (सं० 14510287 पी अब जे० सी०-  
218766 डब्ल्यू)--28 नवम्बर, 1991।\*\*\*

के० रथिनाम (सं० 12402654 ए अब जे० सी०-  
218767 वाई)--01 नवम्बर, 1991।

गुरदेव सिंह (सं० 14510397 के अब जे० सी०-  
218768 एफ)--01 नवम्बर, 1991।

राम अवतार सिंह (सं० 14510714 ए अब जे० सी०-  
218769 के)--01 नवम्बर, 1991।

दुर्गा बक्श सिंह (सं० 14510736 वाई, अब जे० सी०-  
218770 वाई)--01 नवम्बर, 1991।

राम प्रवेश सिंह (सं० 14510796 एन अब जे० सी०-  
218771 एफ)--01 नवम्बर, 1991।

मुख पाल सिंह (सं० 14510815 एन अब जे० सी०-  
218772 के)--01 नवम्बर, 1991।

अनन्त कुमार सरकार (सं० 14510825 एक्स अब जे०  
सी०-218773 एम)--01 नवम्बर, 1991।

महेन्द्र पाल सिंह (सं० 14511136 एन अब जे० सी०-  
218774 पी)--01 नवम्बर, 1991।

सुरेन्द्र नाथ पाण्डे (सं० 14511119 ए अक्ष जे० सी०—  
218775 एक्स)—01 नवम्बर, 1991।

शिगारा सिंह (सं० 14511061 डब्ल्यू अक्ष जे० सी०—  
218776 ए)—01 नवम्बर, 1991।

भोला राम (सं० 6648319 ए अक्ष जे० सी०—  
218777 एच)—01 नवम्बर, 1991।

चन्द्र मोहन पी० टी० (सं० 14511181 पी अक्ष जे० सी०—  
218778 एल)—01 नवम्बर, 1991।

जखर सिंह (सं० 14511069 एच अक्ष जे० सी०—  
218779 एन)—01 नवम्बर, 1991।

राम तीरथ (सं० 6648302 एम अक्ष जे० सी०—  
218780 एच)—01 नवम्बर, 1991।

श्री भगवान प्रसाद (सं० 6648304 एक्स अक्ष  
जे० सी०—218781 एल)—01 दिसम्बर, 1991।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन भीर भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1991 से वी  
जायेगी)।

शीतल शैयदा (सं० 14511191 वाई अक्ष जे० सी०—  
218782 एन)—01 नवम्बर, 1991।

मुन्तोली शिव शंकर (सं० 14511201 एक्स अक्ष जे०  
सी०—218783 डब्ल्यू)—01 नवम्बर, 1991।

लिखोक चन्द्रा बोरा (सं० 14511311 एम अक्ष जे० सी०—  
218784 वाई)—01 नवम्बर, 1991।

रामा चन्द्रन आर० (सं० 14511207 वाई अक्ष जे०  
सी०—218785 एफ)—01 नवम्बर, 1991।

अधर कुमार मंडल (सं० 14511315 एच अक्ष जे०  
सी०—218786 के)—01 नवम्बर, 1991।

कनका सुन्दरम बेज्जाम (सं० 14511266 एल अक्ष जे०  
सी०—218787 एम)—01 नवम्बर, 1991।

सैयद खलीसा (सं० 6648316 एम अक्ष जे० सी०—  
218788 पी)—01 नवम्बर, 1991।

जरनैल सिंह (सं० 14511338 के अक्ष जे० सी०—  
218789 एक्स)—01 नवम्बर, 1991।

आई० बजनूदन सिंघा (सं० 14511528 डब्ल्यू अक्ष जे०  
सी०—218790 एम)—01 नवम्बर, 1991।

एस० बेनू गोपाल (सं० 14511281 ए अक्ष जे० सी०—  
218791 पी)—01 नवम्बर, 1991।

बी० समञ्जुल किशोर दाबु (सं० 6366115 एक्स अक्ष  
जे० सी०—218792 एक्स)—01 नवम्बर, 1991।\*\*\*

राम जदीन पाण्डे (सं० 14511192 एम अक्ष जे० सी०—  
218793 ए)—01 नवम्बर, 1991।

रवीन्द्रन पिस्सै के० (सं० 14511293 पी अक्ष जे० सी०—  
218794 एच)—01 नवम्बर, 1991।

राम लक्षन सिंह (सं० 14511298 एन अक्ष जे० सी०—  
218795 एल)—01 नवम्बर, 1991।

धर्म देव सिंह (सं० 14511368 एफ अक्ष जे० सी०—  
218796 एन)—01 नवम्बर, 1991।

सुराज बली राय (सं० 14511299 डब्ल्यू अक्ष जे० सी०  
—218797 डब्ल्यू)—21 नवम्बर, 1991\*\*\*।

करमासल दाम एल० (सं० 14511301 एच अक्ष जे०  
सी०—218798 वाई)—11 नवम्बर, 1991\*\*\*।

एस० पोनुचामी (सं० 14511504 एम अक्ष जे० सी०—  
218799 एफ)—01 नवम्बर, 1991।

सैयद युसुफ सरीफ (सं० 14511433 डब्ल्यू अक्ष जे०  
सी०—218800 एल)—01 नवम्बर, 1991।

वेंकटा रमना रेड्डी गांगी (सं० 14511549 एम अक्ष  
जे० सी०—218801 एन)—01 नवम्बर, 1991।

वीर बाला माहेब सत्यबा (सं० 14511439 एक्स अक्ष जे०  
सी०—218802 डब्ल्यू)—01 नवम्बर, 1991।

बी० पुरुषोत्तमन नायर (सं० 14511568 एक्स अक्ष जे०  
सी०—218803 वाई)—01 नवम्बर, 1991।

हिम्मत सिंह (सं० 14511596 ए अक्ष जे० सी०—  
218804 एफ)—01 नवम्बर, 1991।

रघबीर सिंह (सं० 6648312 डब्ल्यू अक्ष जे० सी०—  
218805 के)—01 नवम्बर, 1991।

चीमा राम चौधरी (सं० 14511660 डब्ल्यू अक्ष जे० सी०  
—218806 एम)—01 नवम्बर, 1991।

आर० बाला कृष्णन (सं० 6366299 एफ अक्ष जे० सी०—  
218807 पी)—01 नवम्बर, 1991।

राज कुमार (सं० 14511733 एक्स अक्ष जे० सी०—  
218808 एक्स)—15 दिसम्बर, 1991।

अशोक कुमार (सं० 14512171 एक्स अक्ष जे० सी०—  
218809 ए)—01 नवम्बर, 1991।

ईश्वर दाम (सं० 14512550 एन अक्ष जे० सी०—218810  
पी)—01 नवम्बर, 1991।

लुडुक्की प्रसाद (सं० 14514067 एच अक्ष जे० सी०—  
218811 एक्स)—01 नवम्बर, 1991।

गुमाना राम द्विवार (सं० 14514045 के अक्ष जे० सी०—  
218812 ए)—01 नवम्बर, 1991।

रवीन्द्रा कुमार मिश्रा (सं० 14507482 एफ अक्ष जे०  
सी०—218813 एच)—01 नवम्बर, 1991।

तीरथ राम (सं० 14514083 ए अक्ष जे० सी०—  
218814 एम)—15 दिसम्बर, 1991\*\*\*।

मेवा सिंह (सं० 11021145 एम अक्ष जे० सी०—  
218815 एन)—23 नवम्बर, 1991\*\*\*।

मैथ्यू त्रवींश के (सं० 14514187 एफ अब जे० सी०—  
218816 डब्ल्यू)—01 नवम्बर, 1991।

जोसेफ के० (सं० 14514156 एफ अब जे० सी०—  
218817 वाई)—01 नवम्बर, 1991।

राघव प्रसाद पाठक (सं० 14514461 एन अब जे०  
सी०—218818 एफ)—01 नवम्बर, 1991।

वासुदेवन नायर आर० (सं० 14515046 वाई अब जे०  
सी०—218819 के)—01 नवम्बर, 1991।

अभिल ए० (सं० 14516048 डब्ल्यू अब जे० सी०—  
218820 वाई)—28 नवम्बर, 1991।\*\*\*

महेन्द्रा राय (सं० 14517193 ए अब जे० सी०—  
218821 एफ)—01 नवम्बर, 1991।

शिव राम सिंह कृष्णा (सं० 14517390 एच अब जे०  
सी०—218822 के)—15 दिसम्बर, 1991\*\*\*।

हरी प्रकाश सिंह अद्वीन (सं० 14517520 ए अब जे०  
सी०—218823 एम)—01 नवम्बर, 1991।

सरवन सिंह (सं० 14518075 वाई अब जे० सी०—  
218824 पी)—15 दिसम्बर, 1991।

उमेश सिंह राठीर (सं० 14519220 एक्स अब जे० सी०—  
218825 एक्स)—30 दिसम्बर, 1991\*\*\*\*।

\*\*\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 दिसम्बर, 1991  
से दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार एम० के टेक्निकल  
के रैंक में

गोविन्दा राज बालासुब्राह्मनियम (सं० 14504431  
एच अब जे० सी०—218826 ए)—24 जून, 1991%।

%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 1991 से दी जायेगी)

राम पाल (सं० 14504814 पी अब जे० सी०—  
218827 एच)—19 अक्टूबर, 1991।%%

%%(नायक सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर, 1991  
से दी जायेगी)।

मोहन लाल (सं० 14505892 वाई अब जे० सी०  
218828 एल)—23 अगस्त, 1991%%%।

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई, 1991  
से दी जायेगी)।

पीटर कुल्लु (सं० 14507336 एफ अब जे० सी०—  
218829 एन)—23 नवम्बर 1991%%%।

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अक्टूबर,  
1991 से दी जायेगी)।

सुभाष चन्द (सं० 14508891 एफ अब जे० सी०—  
218830 एच)—17 नवम्बर, 1991%%।

%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1991  
से दी जायेगी)।

भारत सिंह (सं० 14509118 एफ अब जे० सी०—  
218831 एल)—18 अक्टूबर, 1991%%।

बिराजदार विनायक भो राव (सं० 14510311 ए अब  
जे० सी०—218832 एन)—22 नवम्बर, 1991%%।

सोम नाथ मुन्डा (सं० 14511120 एक्स अब जे० सी०—  
218833 डब्ल्यू)—26 अक्टूबर, 1991%%।

वेरिया चिन्नुभाई पी० (सं० 14511821 एन अब जे०  
सी०—218834 वाई)—16 दिसम्बर, 1991×××।

×××(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1991  
से दी जायेगी)।

होशियार सिंह (सं० 14512150 एफ अब जे० सी०—  
218835 एफ)—18 अक्टूबर, 1991%%।

प्रेम चन्द्र कुमार (सं० 14512501 एल अब जे० सी०—  
218836 के)—18 अक्टूबर, 1991%%।

मोहन दास के० पी० (सं० 14514216 एल अब जे० सी०  
—218837 एम)—13 जनवरी, 1992×××।

×××(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1991  
से दी जायेगी)।

कनवर सिंह जोगी (सं० 14518444 एल अब जे० सी०  
—218838 पी)—17 जनवरी 1992%%।

जी० रामा नाथन (सं० 14520498 एल अब जे० सी०—  
218839 एक्स)—21 नवम्बर 1991×%%%।

मधुकर पाटिल (सं० 14520766 के अब जे० सी०—  
218840 एक्स)—20 नवम्बर, 1991×%%%।

×%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों  
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर  
1991 से दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार एस. के. टेकिनकल  
के रैंक में

दिवान सिंह तसोक (सं. 14520769 एकम अब  
जे. सी.-218841 पी)---1 दिसम्बर, 1991 ।

महाडू पिकाजी डोंगरडिडे (सं. 14524001 के अब  
जे. सी.-218842 एकस)---1 दिसम्बर, 1991 ।

धरम सिंह (सं. 14524678 एल अब जे. सी.-  
218843 ए)---1 दिसम्बर, 1991 ।

हवलदार से नायब सूबेदार टी. सी. एम.

(जी. सी. ई.) के रैंक में

तिलक राज (सं. 7108264 एम अब जे. सी.-  
218844 एच)---11 जुलाई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार टी. सी. एम.

(रेडियो) के रैंक में

हवा सिंह होडा (सं. 7109266 के अब जे. सी.-  
218845 एल)---23 मई, 1991 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 मई, 1991 से दी  
जायेगी) ।

हरवीप सिंह (सं. 7110949 एफ अब जे. सी.-  
218846 एन)---16 मई, 1991 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मई, 1991 से  
दी जायेगी) ।

गुरु स्वामी धेवर सुश्रैया (सं. 7111198 ए अब  
जे. सी.-218847 डब्ल्यू)---1 जून, 1991 ।

बिनय कुमार तान्ती (सं. 7111666 पी अब जे.  
सी.-218848 वाई)---1 जून, 1991

ब्रज किशोरर (सं. 7110146 एकस अब जे. सी.-  
218849 एफ)---1 जून, 1991 ।

श्री पती बेनोडे (सं. 7113964 के अब जे. सी.-  
218850 डब्ल्यू)---1 अगस्त, 1991 ।

देव चन्द शर्मा (सं. 7114872 के अब जे. सी.-  
218851 वाई)---1 सितम्बर, 1991 ।

उमेश सिंह (सं. 7114898 वाई अब जे. सी.-  
218852 एफ)---1 सितम्बर, 1991 ।

रजक हनीफ (सं. 7115848 ए अब जे. सी.-  
218853 के.)---1 दिसम्बर, 1991 ।

प्रबोध चन्द कर्माकार (सं. 7115861 एम अब जे.  
सी.-218854 एम)---1 सितम्बर, 1991 ।

कृशन चन्दर शर्मा (सं. 7115872 के अब जे. सी.-  
218855 पी)---25 नवम्बर, 1991 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अक्टूबर, 1991 से  
दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार ई. ई. मैकेनिक  
के रैंक में

गोलक चम्पा नायक (सं. 14527763 एकस अब  
जे. सी.-218856 एकस)---19 नवम्बर, 1991 \*%/%

\*%/% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 7 जुलाई, 1991 से  
दी जायेगी) ।

कोमली श्री हरी (सं. 14527833 एम अब जे. सी.-  
218857 ए)---04 फरवरी, 1992 ।\*\*\*

के. जयादेव नायडू (सं. 14527862 एफ अब जे.  
सी.-218858 एच)---19 दिसम्बर, 1991

श्रीनिवासन जी (सं. 14527859 एफ अब जे. सी.-  
218859 एल)---22 जनवरी, 1992 ।\*\*\*

बाबुल हजारीका (सं. 14527909 एफ अब जे. सी.-  
218860 ए)---21 जनवरी, 1992 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर, 1991 से  
दी जायेगी) ।

श्रीम प्रकाश वर्मा (सं. 14527966 एच अब जे.  
सी.-218861 एच)---19 दिसम्बर, 1991 ।

वशो रेड्डी एम. नारायणा (सं. 14528343 एल  
अब जे. सी.-218862 एल)---19 दिसम्बर, 1991 ।

हवलदार से नायब सूबेदार आर्मीरर के रैंक में

टी यम राजन (सं. 7118022 एकस अब जे. सी.-  
218863 एन)---20 जनवरी, 1992 ।\*\*\*

लक्ष्मी चन्द (सं. 7126599 एस अब जे. सी.-  
218864 डब्ल्यू)---1 सितम्बर, 1991 % ।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर  
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अप्रैल, 1991 से  
दी जायेगी) ।

हीरा लाल (सं. 7127281 एफ अब जे. सी.-  
218865 वाई)---1 जून, 1991 ।



सिव घारी सिंह (सं 14500213 एम अब जे सी -218866 एफ)--10 दिसम्बर, 1991 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1991 से दी जायेगी) ।

उमेश प्रसाद सिंह (सं 7126048 एफ अब जे सी -218867 के) 8 दिसम्बर, 1991 ।%%%

नारायण सिंह (सं 7126148 एम अब जे सी -218868 एम)--24 नवम्बर, 1991 ।%%%

भूप सिंह डोगरा (सं 7127926 वाई अब जे सी -218869 पी)--25 नवम्बर, 1991 ।%%%

दिवान सिंह अधिकारी (सं 14500444 एफ अब जे सी -218870 के)--27 नवम्बर, 1991 ।%%%

चन्द्रावीर सिंह तोमर (सं 14500497 एफ अब जे सी -218871 एम)--23 नवम्बर, 1991 ।%%%

रघुनाथ सिंह (सं 14500592 एफ अब जे सी -218872 पी)--23 नवम्बर, 1991 ।%%%

सिराधर नारायण सोनू (सं 14500831 एक्स अब जे सी -218873 एक्स)--23 नवम्बर, 1991 ।%%%

प्रेम चन्द (सं 14500849 एन अब जे सी -218874 ए)--23 नवम्बर, 1991 ।%%%

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 नवम्बर, 1991 से दी जायेगी) ।

भूदेव (सं 14500924 एम अब जे सी -218875 एफ)--31 दिसम्बर, 1991 ।%%%

निर्मल चन्द्रा पान्डा (सं 14501101 वाई अब जे सी -218876 एल)--28 दिसम्बर 1991 ।%%%

करुणिय मुनियान्दु (सं 7126862 एम अब जे सी -218877 एन)--3 फरवरी, 1992 ।%%%

राजेंद्र सिंह (सं 14500210 वाई अब जे सी -218878 डब्ल्यू)--31 दिसम्बर, 1991 ।%%%

शिव नारायण यादव (सं 14500694 के अब जे सी -218879 वाई)--26 दिसम्बर, 1991 ।

जदेजा मयार्गज सिन्हाजी (सं 14501035 एफ अब जे सी -218880 एन)--19 जनवरी, 1992 ।%%%

ईश्वर दयाल सिंह राठौर (सं 14501578 एन अब जे सी -218881 डब्ल्यू)--26 दिसम्बर, 1991 ।

बलवीर सिंह (सं 14501678 वाई अब जे सी -218882 वाई)--26 दिसम्बर, 1991 ।

नारायण सिंह कनवाल (सं 14501985 एल अब जे सी -218883 एफ)--30 जनवरी, 1992 ।%%%

सुभाष चन्दर (सं 14502024 एफ अब जे सी -218884 के)--16 जनवरी, 1992 ।%%%

बाबत चन्द्रा जी (सं 14502062 एक्स अब जे सी -218885 एन)--26 दिसम्बर, 1991 ।

नरेन्द्रा कुमार सिंह (सं 14502162 एन अब जे सी -218886 पी)--1 जनवरी, 1992 ।%%%

किशोरी लाल कुववाहा (सं 7126591 ए अब जे सी -218887 एक्स)--7 जनवरी, 1992 ।%%%

राम सिंह (सं 14502744 एफ अब जे सी -218888 ए)--26 दिसम्बर, 1991 ।

राम विमल यादव (सं 14502767 के अब जे सी -218889 एफ)--1 जनवरी, 1992 ।%%%

मोहन लाल (सं 14502955 एल अब जे सी -218890 एक्स)--26 दिसम्बर, 1991 ।

गगन सिंह यादव (सं 14503151 एफ अब जे सी -218891 ए)--26 दिसम्बर, 1991 ।

महात्म प्रसाद (सं 14503414 डब्ल्यू अब जे सी -218892 एफ)--26 दिसम्बर, 1991 ।

नार सिंह शिवरेल (सं 14503544 एन अब जे सी -218893 एल)--1 जनवरी, 1992 ।%%%

बी. एस. बहादुरी (सं 14503474 एल अब जे सी -218894 एन)--1 जनवरी, 1992 ।%%%

%%%(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार धामोरर के रैंक में

मुनेश कुमार शर्मा (सं 14503576 एफ अब जे सी -218895 डब्ल्यू)--26 दिसम्बर, 1991 ।\*

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई, 1990 से दी जायेगी) ।

हवलदार से नायब सूबेदार इलैक्ट (एम०वी०) के रैंक में

सुखदेव सिंह (सं 7110885 के अब जे सी -218896 वाई)--26 दिसम्बर, 1991 ।\*\*

भगवान दास (सं 7112328 के अब जे सी -218897 एफ)--26 दिसम्बर, 1991 ।\*\*

श्रीधर कुमार मुखर्जी (सं. 7112855 पी अब जे. सी.-218898 के)---28 दिसम्बर, 1991।

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

रणजीत कुमार कर्मकार (सं. 7113416 एफ अब जे. सी.-218899-एच)---26 दिसम्बर, 1991।

किरण सिंह (सं. 7114074 डब्ल्यू अब जे. सी.-218900 डब्ल्यू)---26 दिसम्बर, 1991।

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार (मेटल स्मिथ) के रैंक में ठाम बहादुर शर्मा (सं. 7114072 एफ अब जे. सी.-218901-वाई)---18 नवम्बर, 1991।

धरम नाथ शर्मा (सं. 14500086 एफ अब जे. सी.-218902 एफ)---1 नवम्बर, 1991।

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 नवम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

एम. प्रवथा (सं. 14501924 एच अब जे. सी.-218903 के)---26 दिसम्बर, 1991।

दया किरान (सं. 14512530 ए अब जे. सी.-218904 एम)---26 दिसम्बर, 1991।

हवलदार से नायब सूबेदार कार्पेंटर और जेव्हाइवर के रैंक में

धूप सिंह (सं. 7111210 एन अब जे. सी.-218905 पी)---1 जनवरी, 1992।

बलेश्वर सिंह (सं. 14504269 डब्ल्यू अब जे. सी.-218906 एक्स)---21 नवम्बर, 1991।

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (रिक्वरी)

बालमीनी सिंह (सं. 7113636 के अब जे. सी.-218907 ए)---13 जनवरी, 1992।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 जनवरी, 1992 से दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

पोसुलाम अशोकन (सं. 7113972 एफ अब जे. सी.-218908 एच)---24 दिसम्बर, 1991।

सुब्रह्मणी लाल (सं. 7115773 एफ अब जे. सी.-218909 एल)---1 जनवरी, 1992।

के. पी. मुदेवन (सं. 7117354 पी अब जे. सी.-218910 ए)---1 जनवरी, 1992।

महेन्द्रा पाल सिंह (सं. 7113671 वाई अब जे. सी.-218911 एच)---26 दिसम्बर, 1991।

किशन राम (सं. 13849877 एम अब जे. सी.-218912 एल)---29 दिसम्बर, 1991।

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डिफेंडर के रैंक में

सुखवीर सिंह (सं. 7127183 एफ अब जे. सी.-218913 एन)---7 जनवरी, 1992।

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 अक्टूबर, 1991 से दी जायेगी)।

राम प्रताप यादव (सं. 14527273 एल अब जे. सी.-218914 डब्ल्यू)---1 दिसम्बर, 1991।

सीराम सेट्टी वीरु जायडु (सं. 14527303 एक्स अब जे. सी.-218915 वाई)---1 दिसम्बर, 1991।

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

राम विलास (सं. 7117157 एम अब जे. सी.-218916 एफ)---1 दिसम्बर, 1991।

श्रीकार सिंह (सं. 7117230 ए अब जे. सी.-218917 के)---1 दिसम्बर, 1991।

भवन सिंह (सं. 7117496 एम अब जे. सी.-218918 एम)---1 दिसम्बर, 1991।

तेजू भगत (सं. 7117668 डब्ल्यू अब जे. सी.-218919 पी)---22 दिसम्बर, 1991।

गुरदेव सिंह (सं. 7117281 एन अब जे. सी.-218920 के)---29 दिसम्बर, 1991।

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

रामेश्वर प्रसाद (सं. 14504859 पी अब जे. सी.-218921 एम)---26 दिसम्बर, 1991।

निर्मले नाथ (सं. 14505767 एफ अब जे. सी.-218922 पी)---17 फरवरी, 1992।

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 दिसम्बर, 1991 से दी जायेगी)।

- सूबेदार मेजर नायब सूबेदार ई० आर० के रैंक में—  
जयपाल सिंह (सं० 13862821 वाई) अब जे० सी०—  
218923 एक्स)—01 जून, 1991।
- सूबेदार मेजर रिक्थरी मेकेनिक के रैंक में—  
सूबेदार राम नारायण (जे० सी०+169979 एम)—  
1 फरवरी, 1992।
- सूबेदार कर्क (जे० डी०) के रैंक में—  
नायब सूबेदार गुरदेव सिंह भुल्लर (जे० सी०—184181  
एन)—1 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार चमन लाल (जे० सी०—184186 एम)—  
1 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार अश्वल गफकार मदेरणी (जे० सी०—  
188833 वाई)—1 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार मेव्यू बरगीस (जे० सी०—188882  
एफ)—1 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार वीर सिंह (जे० सी०—190903 एन)—  
1 नवम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार लाल चन्द्र वेदिवं (जे० सी०—190857  
एफ)—1 दिसम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार श्याम लाल शर्मा (जे० सी०—190910  
एफ)—1 दिसम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार अजीत सिंह (जे० सी०—194754  
ए)—1 दिसम्बर, 1991।
- नायब सूबेदार थामस जार्ज (जे० सी०—195595 ए)—  
1 जनवरी, 1992।
- नायब सूबेदार बेंकटेलु वरदराजन (जे० सी०—195604  
डब्ल्यू)—1 जनवरी, 1992।
- नायब सूबेदार बाबू राम वर्मा (जे० सी०—195605  
वाई)—1 जनवरी, 1992।
- नायब सूबेदार गजराज सिंह (जे० सी०—195532  
एक्स)—1 फरवरी, 1992।
- नायब सूबेदार सवरी मुत्तू (जे० सी०—195641 के)—  
1 फरवरी, 1992।
- नायब सूबेदार अंगोडी भास्कर (जे० सी०—195612  
पी)—1 फरवरी, 1992।
- नायब सूबेदार जगन नाथ धदवाल (जे० सी०—195844  
एन)—1 फरवरी, 1992।
- नायब सूबेदार श्रीपाल सिंह तोमर (जे० सी०—197363  
ए)—1 फरवरी, 1992।
- नायब सूबेदार राम प्रवेश सिंह (जे० सी०—195849  
एम)—1 फरवरी, 1992।
- नायब सूबेदार अग्नि नाथ मिश्रा (जे० सी०—199409  
डब्ल्यू)—1 फरवरी, 1992।
- नायब सूबेदार परशुराम पंडित (जे० सी०—195538  
वाई)—1 मार्च, 1992।
- नियमित सेना  
विद्युत और यंत्रिक इन्जीनियर-कीर  
सूबेदार मेजर कर्क (जे० डी०) के रैंक में—  
सूबेदार विरुत्ताणु कुन्तत संकुन्नी अडिगल (जे० सी०—  
114862 वाई)—1 अप्रैल 1992।
- सूबेदार मेजर टेक्निकल (ई० सी०) के रैंक में—  
सूबेदार अत्तर सिंह यादव (जे० सी०—121678 डब्ल्यू)  
—1 अप्रैल, 1992।
- सूबेदार अमरापती चट्टोपाध्याय (जे० सी०—116891  
एम)—1 अप्रैल, 1992।
- सूबेदार समुन्दर सिंह (जे० सी०—121680 एन)—  
1 अप्रैल 1992।
- सूबेदार मुरेन्द्र सिंह रावत (जे० सी०—131242 वाई)—  
1 अप्रैल, 1992।
- सूबेदार राम रतन (जे० सी०—117079 वाई)—  
1 अप्रैल, 1992।
- सूबेदार कडकरयाण्डी राम स्वामी (जे० सी०—117081  
डब्ल्यू)—1 अप्रैल, 1992।
- सूबेदार शादी लाल गुजराल (जे० सी०—117083  
एफ)—1 अप्रैल 1992।
- सूबेदार ए पद्मनाभन (जे० सी०—117084 के)—  
1 अप्रैल 1992।
- सूबेदार मेहर चन्द्र मलवन्दा (जे० सी०—117097  
एफ)—1 मई, 1992।
- सूबेदार बाबू राम जगदेवा (जे० सी०—117099 एम)—  
1 मई 1992।
- सूबेदार लाभ सिंह (जे० सी०—120011 एन)—  
1 मई, 1992।
- सूबेदार मेजर आरमौर के रैंक में—  
सूबेदार चिन्मयन राजरततिनम (जे० सी०—185896  
पी)—1 फरवरी 1992।
- सूबेदार भोक्खिन्दर सिंह (जे० सी०—186488 एक्स)—  
1 अप्रैल, 1992।

नायब सूबेदार साधु सिंह दिल्ली (जे० सी -195539 एफ)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार श्रोम प्रकाश बोहरा (जे० सी -195540 डब्ल्यू)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जे० सी -195851 के)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह (जे० सी -195852 एम)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार तरसेम मसीह (जे० सी -195541 बाई)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार सोहनवीर सिंह (जे० सी -195542 एफ)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार कीरतन चन्द्र कलिता (जे० सी०-195853 पी)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार जयराम वर्मा (जे० सी०-195854 एक्स)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार शोम्बकपरमबिल तोम्मन चाको (जे० सी० 195543 के)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार शीतल सिंह (जे० सी -195544 एम)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार निर्मल चन्द्र जैना (जे० सी -195855 ए)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार चौधरी दिवान (जे० सी०-197366 एन)—1 अप्रैल 1992 ।

नायब सूबेदार दामोदर प्रसाद शर्मा (जे० सी -197367 डब्ल्यू)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार कृष्णन् सुकुमारन कुरुप (जे० सी०-197368 बाई)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार श्याम बहादुर (जे० सी -197370 डब्ल्यू)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार रामानन्द (जे० सी०-197371 बाई)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-197372 एफ)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार कन्हो राम यादव (जे० सी०-197373 के)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार नरेन्द्र नाथ पट्टर (जे० सी०-199413 बाई)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार पी० चावदा (जे० सी०-198603 बाई)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार पी० रामचन्द्रन पिल्लै (जे० सी०-199411 एफ)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार साम्भान्नी राव विश्नु (जे० सी०-199414 एफ)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार भक्ती भूशन मण्डल (जे० सी०-199416 एम)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार साम पूरन सिंह बाजवा (जे० सी०-199417 पी)—1 मई, 1992 ।

सूबेदार आरटीजन आर टेकनिकल (ई० सी०)

नायब सूबेदार भरत सिंह (जे० सी०-168263 एम) 1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार शण्मुघम राजेन्द्रन (जे० सी०-170852 एन)—1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार भैरव दत्त नागरकोठी (जे० सी०-176029 एल)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार खेम सिंह (जे० सी०-170815 एन)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार श्रोम प्रकाश शर्मा (जे० सी०-181499 ए)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार काशी नाथ घोष (जे० सी -181512 बाई)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार बुधा राम (जे० सी०-176186 एक्स) 1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार क्रिशन लाल (जे० सी०-181462 बाई)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार बेबी एम० ए० (जे० सी -181464 के)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार आर० कतिरेसन (जे० सी -176134 एफ)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार पूरन सिंह मेहता (जे० सी०-176135 के)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार कैलासम मुण्गोसन (जे० सी०-176137 पी)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार पूरन सिंह (जे० सी०-181102 एच)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राम खिलारी शर्मा (जे० सी०-176167 एम)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जयदेव चक्रवर्ती (जे० सी०-181440 ए)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राम अवध तिवारी (जे० सी०-181472 एच)—1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार चन्द्र सेखर साहू (जे० सी०-181520 एक्स)—01 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार नरराज लिम्बू (जे० सी०-181522 एफ)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार हरपाल सिंह (जे० सी०-176055 एम) —01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार भोवाध सिंह (जे० सी०-181523 एल)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार देवेन्द्र सिंह बत्यान (जे० सी०-181450 के)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार सरदारी लाल (जे० सी०-181451 एम)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार समय सिंह तोयल (जे० सी०-177557 एफ)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार मंगल रंगध्या (जे० सी०-176112 एफ)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार मुखबीर सिंह (जे० सी०-181453 के) —01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार जस्य प्रकाश (जे० सी०-176114 एन)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार गिरिश कुमार क्रिश्नन् (जे० सी०-176116 बाई)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार सूर्य नारायण पांडे (जे० सी०-177560 एफ)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार बिनोद कुमार (जे० सी०-176117 एफ)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार गोरखनाथ चौबे (जे० सी०-176118 के)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार राम सिंह (जे० सी०-181427 डब्ल्यू)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार जसवंत सिंह नेगी (जे० सी०-176187 ए)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जे० सी०-176188 एच)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार राम नरेश शर्मा (जे० सी०-181428 बाई)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार गुरुनामी, गुरुसामी (जे० सी०-176190 ए)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार चित्रपतन वैकटेशन (जे० सी०-177544 के)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार रेखाधर पांडे (जे० सी०-176191 एच)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार हरी मोहन (जे० सी०-181429 एफ)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार सीता राम द्विवेदी (जे० सी०-181430 डब्ल्यू)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जे० सी०-176192 एल)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार सुरेश कुमार सिंह (जे० सी०-177545 एम)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार कनकवर्मंगल सिधा (जे० सी०-181431 बाई)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार दलेली रामकार (जे० सी०-182389 एक्स)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार मुखबीर सिंह (जे० सी०-182526 बाई) —01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार कश्मीर सिंह (जे० सी०-182391 एल) —01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार करतार सिंह काब (जे० सी०-181109 एल)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार दर्शन सिंह (जे० सी०-181527 एफ) —01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार घर्मपाल (जे० सी०-181530 एफ)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार चगत सिंह राठोर (जे० सी०-181531 के)—01 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार प्रेम चन्द रेगर (जे० सी०-181532 एम)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार कुलदीप सिंह (जे० सी०-181534 एक्स)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार राजमनी पी० (जे० सी०-176108 ए)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार मंगल सिंह (जे० सी०-181625 एफ) —01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार बिनोद सिंह (जे० सी०-181626 के) —01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार गुरमेल सिंह (जे० सी०-176110 एक्स)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार तुलसी राम मिश्रा (जे० सी०-176111 ए)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार अजमेर सिंह (जे० सी०-176058 ए) —01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार वेद सिंह (जे० सी०-177533 एक्स) —01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार विधाते सरजे राव (जे० सी०-187792 एम)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार हजारा सिंह (जे० सी०-181535 ए)  
—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार राम दिवान प्रसाद सिंह (जे० सी०  
181536 एक्स)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार युसुफ पी० बी० (जे० सी०-181537  
एल)—01 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार प्यारा सिंह (जे० सी०-176062 एच)—  
—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार फिलिपोस के० पी० (जे० सी०-176062  
एच)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार शिवकांत शुक्ला (जे० सी०-176063  
एल)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार प्रसन्निय्या मुद्रमणियन (जे० सी०-  
181538 एम)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार किरणानन्द शर्मा (जे० सी०-176064  
एन)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार सी० एक्स० फिलिक्स (जे० सी०-  
176065 डब्ल्यू)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार मोहन सिंह (जे० सी०-181548 एल)  
—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार के० रवीन्द्र कुशुप (जे० सी०-181541  
एन)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार गोपालन नमदियार (जे० सी०-176066  
वाई)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार जगदीश सिंह (जे० सी०-181543  
वाई)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार सुदर्शन प्रसाद (जे० सी०-182292  
एन)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार सुमन्तायन बी० ए० (जे० सी०-181544  
एफ)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार किशन राम (जे० सी०-184151  
डब्ल्यू)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार जगपाल सिंह यादव (जे० सी०-184162  
वाई)—1 मई, 1992 ।

सूबेदार एम० के० टेक रैक में

नायब सूबेदार तिष्या सुब्बाराव गोवेकर (जे० सी०-  
189143 एफ)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार मनोहर लाल (जे० सी०-189316  
एन)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार जगहसम सिवहरे (जे० सी०-189232  
ए)—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार श्यामलाल नायडू के० के० (जे० सी०-  
189151 ए)—1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार सन्तम सिंह (जे० सी०-189152  
एच)—1 मई, 1992 ।

सूबेदार आरमौरर के रैंक में

नायब सूबेदार राम चन्दर (जे० सी०-189163 पी)  
—1 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार कान सिंह (जे० सी०-188931 बाई)  
—1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार मर्गे राम (190959 एक्स)—1  
दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार हरलाल सीना (जे० सी०-190892  
के)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार रामदयाल फुलवार (जे० सी०-190963  
ए)—1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार बनेश्वर सिंह (जे० सी०-191133  
डब्ल्यू)—1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार सन्त राम (जे० सी०-191134 बाई)  
—1 मई, 1992 ।

सूबेदार ड्राईवर (एम० टी०) के रैंक में

नायब सूबेदार शिव नागयन (जे० सी०-179139 एल)  
—1 नवम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार रवीर सिंह (जे० सी०-182377 एच)  
—1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार भस्करन बलीकाट बलपिल (जे० सी०-  
189356 पी)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार दरिया सिंह (जे० सी०-187885 पी)  
—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार तुलसी राम (जे० सी०-187886 एच)  
—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद यादव (जे० सी०-  
187888 डब्ल्यू)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार नथु राम (जे० सी०-187889 डब्ल्यू)  
—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार नित्यानन्द महती (जे० सी०-186857  
एच)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार मन भवन (जे० सी०-188859 एन)  
—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार शियो राम (जे० सी०-188860 एच)  
—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राम किशोर मिश्रा (जे० सी०-  
18886 एल)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह यादव (जे० सी०-  
189479 एफ)—1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राम चन्द्र (जे० सी०-188963 डब्ल्यू) —1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार अर्जुन सिंह (जे० सी०-188866 के) —1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जतीन्द्र पास (जे० सी०-189175 के) —1 जनवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (जे० सी०-188868 पी) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार सुरज भात (जे० सी०-189481 वाई) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार भवानी सिंह (जे० सी०-189482 एफ) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार दशायन प्रसाद सिन्हा (जे० सी०-188869 एक्स) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार राम चन्द्र पांडे (जे० सी०-189483 के) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार लक्ष्मी नारायण (जे० सी०-190893 एल) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार मनी सिंह भदौरिया (जे० सी०-188870 एम) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार फूल सिंह थापा (जे० सी०-188954 ए) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार शिखी भगवान (जे० सी०-189484 एम) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार ठाकुर तुलसी राम (जे० सी०-188874 पी) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार देबी सिंह राठौर (जे० सी०-188955 एच) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार कमलजीत सिंह गहौड़ (जे० सी०-189487 ए) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार हरी सिंह (जे० सी०-188956 एल) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जलविन्दर सिंह (जे० सी०-188897 एन) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार जोगा राम (जे० सी०-189488 एच) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार गोवर्धन बेबी कुट्टी (जे० सी०-189489 एल) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार लालजी सिंह (जे० सी०-191090 एम) —1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार श्री नारायण तिवारी (जे० सी०-191091 पी) —1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार रवी नन्दि (जे० सी०-191088 पी) —1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार केशजीत सिंह (जे० सी०-191092 एक्स) —1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार राम फुल (जे० सी०-191093 एच) —1 मार्च, 1992 ।

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जे० सी०-190996 एल) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार मदन मोहन सिंह (जे० सी०-190896 ए) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार ध्यानेश्वर रेवास्कर (जे० सी०-190897 एच) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार दुर्गा प्रसाद लाला (जे० सी०-190898 एल) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार राजबीर सिंह (जे० सी०-190899 एन) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार सत्य नारायण फुकरा (जे० सी०-195652 डब्ल्यू) —1 मई, 1992 ।

सूबेदार रिकवरी मैकके रैंक में

नायब सूबेदार सुदामा प्रसाद (जे० सी०-191037 एफ) —1 दिसम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार रतन चन्द (जे० सी०-190946 ए) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार भान सिंह (जे० सी०-190880 पी) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार मोहित्तर सिंह (जे० सी०-191039 एम) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार किशन राम (जे० सी०-191040 एफ) —1 अप्रैल, 1992 ।

नायब सूबेदार लहरी राम (जे० सी०-191041 के) —1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार चन्द्र मनी (जे० सी०-191042 एम) —1 मई, 1992 ।

नायब सूबेदार हरेन्द्र सिंह (जे० सी०-191043 पी) —1 मई, 1992 ।

सूबेदार आरटीजन (एन० ई०) के रैंक में

नायब सूबेदार अवध बिहारी भटनागर (जे० सी०-188921 पी) —1 जून, 1991 ।

नायब सूबेदार कारमेधम राजेश्वरन (जे० सी०-191083 डब्ल्यू) —1 दिसम्बर, 1992 ।

नायब सूबेदार महेश चन्द्र प्रधान (जे० सी०-191081 एक्स) —1 फरवरी, 1992 ।

नायब सूबेदार शिव प्रकाश (जे० सी०-191082 एन)—1 मार्च, 1992।

नायब सूबेदार राम मूरत सिंह (जे० सी०-188918 पी)—1 मई, 1992।

नायब सूबेदार खरक सिंह (जे० सी०-191060 पी)—1 मई, 1992।

एस० के० रे०,  
अवर सचिव

### (धलसेना विभाग)

सं० 742, दिनांक 7/7/92—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

### नियमित सेना

#### इन्फैंट्री

#### मद्रास रेजिमेंट

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहनदासन (सं०-2576377 एम अब जे० सी०-219654 एच)—1 जुलाई 1991।

हवलदार विजयकुमार के के० (सं०-2576405 एन अब जे० सी०-219655 एल)—1 जुलाई 1991।

हवलदार कुमारस्वामी टि०बि० (सं०-2577510 डब्ल्यू अब जे० सी०-219656 एन)—1 अगस्त 1991।

हवलदार सत्यदास डी० (सं०-2571302 एन अब जे० सी०-219657 डब्ल्यू)—20 सितम्बर 1991।

हवलदार पऊलोस थो ए० (सं०-2577412 डब्ल्यू अब जे० सी०-219658 वाई)—20 सितम्बर 1991।

हवलदार सेल्वम रंगराज (सं०-2573807 ए अब जे० सी०-219659 एफ)—20 सितम्बर 1991।

हवलदार तेक्कलपट्टि दामोदरन नाइडू (सं०-2575189 वाई अब जे० सी०-219660 डब्ल्यू)—20 सितम्बर 1991।

हवलदार बेवरा त्रिनाथम (सं०-2575766 ए अब जे० सी०-219661 वाई)—20 सितम्बर 1991।

हवलदार पवित्रेन्द्रन जी० (सं०-2574397 एफ अब जे० सी०-219662 एफ)—20 सितम्बर 1991।

हवलदार मोहनन के०एन० (सं०-2574615 पी अब जे० सी०-219663 के)—20 सितम्बर 1991।

#### नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) देवराज मनोहरन के०एम० (सं०-2573819 पी अब जे० सी०-219664 एम)—1 नवम्बर 1991।

हवलदार (क्लर्क) नारायणन सी एन (सं०-14520869 एच अब जे० सी०-219665 पी)—1 नवम्बर 1991।

#### ग्रिनेडियर्स

#### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलवीर सिंह (सं०-2664250 एम अब जे० सी०-219666 एक्स)—05 दिसम्बर 90।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 90)

हवलदार अत्तर सिंह (सं०-2662234 डब्ल्यू अब जे० सी०-219667 ए)—26 मार्च 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 फरवरी 91)

हवलदार नारायण सिंह (सं०-2664036 के अब जे० सी०-219668 एच)—01 अप्रैल 91।

हवलदार प्रेम लाल गूजर (सं०-2666847 एन अब जे० सी०-219669 एल)—29 जून 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 91)।

हवलदार अमर सिंह मीना (सं०-2665716 एच अब जे० सी०-219670 ए)—01 जुलाई 91।

हवलदार राज नारायण सिंह (सं०-2666668 एन अब जे० सी०-219671 एच)—11 जुलाई 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 91)।

हवलदार गोविन्द सिंह (सं०-2663450 डब्ल्यू अब जे० सी०-219672 एल)—18 जुलाई 91।

हवलदार कन्हैया लाल (सं०-2662317 एफ अब जे० सी०-219673 एन)—30 जुलाई 91।

हवलदार जनक सिंह (सं०-8022803 के अब जे० सी०-219674 डब्ल्यू)—07 अगस्त 91।

हवलदार इन्दल सिंह तोमर (सं०-2666162 पी अब जे० सी०-219675 वाई)—01 सितम्बर 91।

हवलदार छोटू राम (सं०-2661426 एफ अब जे० सी०-219676 एफ)—18 अक्टूबर 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 91)।

हवलदार हमीद खां कयाम खानी (सं०-2665879 के अब जे० सी०-219677 के)—22 अक्टूबर 91।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 90)



## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक प्रह्लाद सिंह (सं०-2663924 एम अब जे० सी०-219678 एम)—01 सितम्बर 91।

हवलदार लिपिक गोपाला राम वर्मा (सं०-2663976 एच अब जे० सी०-219679 पी)—01 सितम्बर 91।

हवलदार (लिपिक) केवल सिंह (सं०-2664355 डब्ल्यू अब जे० सी०-219680 के)—01 अक्टूबर 91।

हवलदार (लिपिक) जगदीश चन्द्र (सं०-2664409 एम अब जे० सी०-219681 एम)—01 अक्टूबर 91।

हवलदार (लिपिक) लमदे खान (सं०-2867480 पी अब जे० सी०-219682 पी)—01 अक्टूबर 91।

## राजपूताना राइफल

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धरमबीर सिंह (सं०-2869682 पी अब जे० सी०-219683 एक्स)—1 फरवरी, 1991।

हवलदार तखत सिंह राठौर (सं०-2867633 एन अब जे० सी०-219684 ए)—1 मई 1991।

हवलदार मणजन सिंह (सं०-2870089 एच अब जे० सी०-219685 एच)—12 मई, 1991।

हवलदार बदरी सिंह शेखावत (सं०-2871489 एफ अब जे० सी०-219686 एल)—1 जुलाई 1991।

हवलदार गुरुदयाल जाठ (सं०-2867669 एम अब जे० सी०-219687 एन)—9 जुलाई, 1991।

हवलदार राम कंवर बहनेवाल (सं०-2867684 एफ अब जे० सी०-219688 डब्ल्यू)—1 अगस्त, 1991।

हवलदार ब्रिज राज सिंह (सं०-2871753 के अब जे० सी०-219689 वाई)—9 अगस्त 1991।

हवलदार भंवर सिंह (सं०-2868160 एम अब जे० सी०-219690 एन)—1 सितम्बर 1991।

हवलदार नरमिगा राम जाट (सं०-2864942 एल अब जे० सी०-219691 डब्ल्यू)—1 सितम्बर, 1991।

हवलदार मुख राम (सं०-2864152 डब्ल्यू अब जे० सी०-219692 वाई)—22 सितम्बर 1991।

## राजपूत रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजपाल शर्मा (सं०-2971853 के अब जे० सी०-219693 एफ)—01 दिसम्बर 1990।

हवलदार जगपाल सिंह (सं०-2971979 के अब जे० सी०-219694 के)—29 जुलाई 1991।\*

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 21 अप्रैल 1991 से दी जायेगी।

हवलदार प्रियाम सिंह (सं०-2971027 के अब जे० सी०-219695 एम)—11 मई 1991।

हवलदार गोपी महाय (सं०-2966382 एक्स अब जे० सी०-219661 पी)—28 जून 1991।\*

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 1991 से दी जायेगी।

हवलदार प्रियामवीर सिंह (सं०-2971913 एन अब जे० सी०-219697 एक्स)—01 जून 9991।

हवलदार बलवीर सिंह (सं०-2975991 एच अब जे० सी०-219698 ए)—01 जुलाई 1991।

हवलदार राम सिंह (सं०-2971413 डब्ल्यू अब जे० सी०-219699 एच)—26 अक्टूबर 1991।\*

\*ज्येष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जुलाई 1991 से दी जायेगी।

हवलदार मुभाष चन्द्र (सं०-2970729 डब्ल्यू अब जे० सी०-219700 एम)—01 अगस्त 1991।

## जाट रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जय सिंह (सं०-3164627 वाई अब जे० सी०-219701 पी)—21 जून 1991।

हवलदार खेता राम चौधरी (सं०-3164127 एफ अब जे० सी०-219702 एक्स)—1 अगस्त 1991।

हवलदार शोभ प्रकाश (सं०-3159059 पी अब जे० सी०-219703 ए)—1 अक्टूबर 1991।

हवलदार बलजीत पुनिया (सं०-3165598 एफ अब जे० सी०-219704 एच)—1 नवम्बर 1991।

हवलदार धर्म देव आर्या (सं०-3166651 एन अब जे० सी०-219705 एल)—1 नवम्बर 1991।

हवलदार अर्जुन राम भडाला (सं०-3166667 वाई अब जे० सी०-219706 एन)—1 नवम्बर 1991।

## मिख रेजिमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (3369866 एफ अब जे० सी०-219707 डब्ल्यू)—07 सितम्बर 91।\*

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 1991 से दी जाती है।

सी०एच०एम० सतगुर सिंह (3372864 एफ अब जे० सी०-219708 वाई)—03 जुलाई 1991।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क अवतार सिंह (3371671 पी अब जे० सी०-219709 एफ)---01 नवम्बर 1991।

हवलदार क्लर्क बी०सी० सिंह (14520269 ए अब जे० सी०-219710 डब्ल्यू)---01 नवम्बर 1991।

मिख रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी० पी०एम० जीत सिंह (3369228 एच अब जे० सी०-219711 वाई)---27 सितम्बर 91।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक

हवलदार क्लर्क कशमीर सिंह (44520705 एम अब जे० सी०-219712 एफ)---01 नवम्बर 91।

मिख लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम रिभपाल सिंह (4451055 वाई अब जे० सी०-219713 के)---01 फरवरी, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) हरभजन सिंह (4453237 एल अब जे० सी०-219714 एम)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार चरन सिंह (4455195 एच अब जे० सी०-219715 पी)---28 जुलाई, 91।

हवलदार करनल सिंह (4454363 के अब जे० सी०-219716 वाई)---28 जुलाई, 91।

हवलदार मोती राम सिंह (4454739 ए अब जे० सी०-219717 ए)---28 जुलाई, 91।

हवलदार अवतार सिंह (4457472 एफ अब जे० सी०-219718 एच)---28 जुलाई, 91।

हवलदार प्रीतम सिंह (4456315 एच अब जे० सी०-219719 एल)---28 जुलाई, 91।

हवलदार सुखदेव सिंह (4458104 वाई अब जे० सी०-219720 ए)---28 जुलाई, 91।

हवलदार जसवीर सिंह (4455952 एम अब जे० सी०-219721 एच)---01 अगस्त, 91।

डोगरा रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सदानन्द शन्तले (3970176 एफ अब जे० सी०-219722 एल)---20 सितम्बर, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार सदर्शन कुमार (3970582 एफ अब जे० सी०-219723 एन)---07 सितम्बर, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 19 मई, 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार पुरदोत्तम राम (3968826 एल अब जे० सी०-219724 डब्ल्यू)---18 अगस्त, 1991।

हवलदार मदन लाल (3969010 एल अब जे० सी०-219725 वाई)---01 अक्टूबर, 1991।

हवलदार हंस राज (3968657 पी अब जे० सी०-219726 एफ)---01 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क धरम नाथ शर्मा (3970861 एम अब जे० सी०-219727 के)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार क्लर्क वेद प्रकाश शर्मा (3970873 एफ अब जे० सी०-219728 एम)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार बासु देव (3968629 एच अब जे० सी०-219729 पी)---02 मई, 1991।

हवलदार सोहन लाल (3965970 पी अब जे० सी०-219730 के)---02 मई, 1991।

हवलदार मलकीत सिंह (3968253 एम अब जे० सी०-219731 एम)---02 मई, 1991।

हवलदार रत्न सिंह (3968593 पी अब जे० सी०-219732 पी)---04 जून, 1991।

हवलदार करतार सिंह (3965480 एफ अब जे० सी०-219733 एम)---27 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क लालदेव सिंह (3970905 वाई अब जे० सी०-219734 ए)---01 नवम्बर, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरी ओम काँशल (3968956 एल अब जे० सी०-219735 एच)---13 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक ओम प्रकाश (3970916 एल अब जे० सी०-219736 एल)---01 नवम्बर, 1991।

द्वि कमांड रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जय पाल सिंह रायव (नं० 13607057 वाई अब जे० सी०-219737 एल)---07 सितम्बर, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर, 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार अयोध्या प्रसाद (नं० 4164083 एल अब जे० सी०-219738 डब्ल्यू)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार राम सरत (नं० 4161905 एम अब जे० सी०-219739 वाई)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार ब्रह्मा नन्द यादव (नं. 4166931-एक्स अब जे. सी.-219740-एन), 01 जुलाई 1991.

हवलदार हेम सिंह (नं. 4163030-ए अब जे.सी.-219741-डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 1991.\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जुलाई 1991 से बी जायेगी)  
सी. एच. एम. मोहन लाल (नं. 4165040-एच अब जे. सी.-219742-वाई), 01 अगस्त 1991.

हवलदार प्यार लाल सिंह (नं. 4169851-एल अब जे. सी.-219743-एफ), 21 सितम्बर 1991.\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1991 से दी जायेगी)  
हवलदार राम प्रताप (नं. 4163666-एफ अब जे. सी.-219744-के.), 19 अगस्त 1991.

हवलदार जोधव चन्द (नं. 4165841-के. अब जे.सी.-219745-एम.), 03 नवम्बर 1991.\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अगस्त 1991 से बी जायेगी) ।  
हवलदार रमेश सिंह (नं. 4164217-वाई अब जे. सी.-219746-पी), 28 अगस्त 1991.

हवलदार सत्य नारायण सिंह (नं. 13857857-एन अब जे.सी.-219747-एक्स), 07 अक्टूबर 1991.\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1991 से बी जायेगी)  
हवलदार राम चन्द यादव (नं. 4164355-ए अब जे. सी.-219748-ए), 25 सितम्बर 1991.

हवलदार सुखबीर सिंह (नं. 4166988-एम अब जे. सी.-219749-एच), 25 सितम्बर 1991.

हवलदार निहाल सिंह (नं. 4167068-एफ अब जे. सी.-219750-एक्स), 25 सितम्बर 1991.

हवलदार राजेन्द्र सिंह यादव (नं. 4168988-एल अब जे. सी.-219751-ए), 01 अक्टूबर 1991.

हवलदार रोहताश कुमार (नं. 4166927-पी अब जे. सी.-219752-एच), 01 अक्टूबर 1991.

हवलदार पूरन सिंह (नं. 4162384-डब्ल्यू अब जे.सी.-219753-एल), 01 दिसम्बर 1991.

आसाम रोजमेंट  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बिरेंद्रा कुमार सिन्हा (4347782 के अब जे.सी. 219754 एन) 31 दिसम्बर 1990 ।

हवलदार जी शीव नारायण (2574077 एम अब जे.सी. 219755 डब्ल्यू) 1 जनवरी 91.

हवलदार बिरने चन्ना राय (4348974 एन अब जे. सी.-219756 वाई), 12 फरवरी 91.\*

हवलदार हारीपाषा साकार (4347313 एफ अब जे. सी.-219757 एफ), 1 फरवरी 91.

हवलदार नाबाधान बेहुरा (4349507-एच अब जे. सी.-219758-के), 1 मई 91.

हवलदार तांगूदु रामेशोर पातरा (नं. 4349502-के अब जे. सी. 219759-एम), 1 मई 91.

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में  
हवलदार लिपिक राजात कान्ती दास (नं. 4348569-डब्ल्यू अब जे. सी. 219760-एफ) 1 अक्टूबर 91.

\*नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जनवरी 1991 से बी जाएगी) ।

नियमित सेना

इन्फैंट्री

बिहार रोजमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी.एच.एम. शम्भू कुमार सिंह (नं. 4252409-वाई अब जे. सी. 219761-के) 21 सितम्बर 1991.\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में भत्ता और वेतन पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता विनांक 29 जनवरी से बी जाएगी) ।

सी.एच.एम. इन्द्रेश लकड़ा (सं. 4250607 एल अब जे. सी. 219762 एम) 1 फरवरी 1991.

सी.एच.एम. सुखदेव चौधरी (सं.-4249574 वाई अब जे.सी.-219763 पी) 26 मार्च 1991.

हवलदार इवारिका सिंह (सं. 4249490 एल अब जे. सी. 219764 एक्स) 5 अप्रैल 91.

हवलदार परमेश्वर मिश्र (सं.-4249159-एक्स अब जे. सी. -219765 ए.) 5 अप्रैल 1991.

हवलदार राम नाथ सिंह (सं.-4251340 एन अब जे. सी. 219766 एच.) 1 सितम्बर 1991 ।

हवलदार सुशील तिरू (सं.-4253382 वाई अब जे. सी. 219767 एल.) 13 सितम्बर 91.

सी.एच.एम. सुवामा राय (सं.-4251294 के अब जे. सी. 219768 एन.) 15 अक्टूबर 1991.

नायब सूबेदार (क्लक) के रैंक में

हवलदार क्लक मनि कुमार प्रधान (सं.-4252066 एन अब जे. सी.-219769 डब्ल्यू) 1 अक्टूबर 1991.

हवलदार क्लक भगवान चन्द्र बिस्वास (सं.-4252080 ए अब जे.सी.-219770 एल.) 1 अक्टूबर 1991.

महार रोजमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जाधव तास्यभा चन्दु (नं.-4544580 एफ अब जे.सी. 219771 एन.) 7 मई 1991.

सी.एच.एम. दलीप सिंह (नं.-4546134 वाई अब जे.सी. 219772 डब्ल्यू) 5 जून 1991.

हवलदार साठे जानदेव शुकाराग (नं.-4542155 एक्स अब जे.सी. 219773 वाई.) 01 जुलाई 1991.

सी.एच.एम. नक्षत्र मालवे (नं.-4541404 वाई अब जे.सी. 219774 एफ.) 1 सितम्बर 1991.

हवलदार टीका सिंह (नं.-4544356 पी अब जे.सी. 219775 के.) 25 सितम्बर 1991.

हवलदार बलराज सिंह तलमान (नं. 4544366 वाई अब जे.सी. 219776 एम.) 25 सितम्बर 1991.

हवलदार ओम प्रकाश (नं.-4544185 एन अब जे.सी. 219777 पी.) 25 सितम्बर 1991.

हवलदार जनक राज (नं. 4544594 एफ अब जे. सी. 219778 एक्स) 16 अक्टूबर 91.

सी. एच. एम. दलबीर सिंह (नं. 9213575 एल अब जे. सी. 219779 ए) 01 नवम्बर 91.

हवलदार बाबू लाल राव (नं. 2865749 एल अब जे. सी. 219780 पी) 01 नवम्बर 91.

हवलदार श्याम लाल (नं. 2865859 ए अब जे. सी. 219781 एक्स) 01 नवम्बर 91.

जम्मू और काश्मीर राईफल्स  
नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार अवतार सिंह लिपिक (13733001 पी अब जे. सी.-219782 ए)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार कृपाल सिंह मनहास लिपिक (13734638 एल अब जे. सी.-219783 एच)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार श्याम लाल शर्मा लिपिक (13735309 एफ अब जे. सी.-219784 एल)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार राज कुमार सिंह लिपिक (6648268 एक्स अब जे. सी.-219785 एन)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवालदार संसार चन्द शर्मा लिपिक (8022435 ए अब जे. सी.-219786 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार (जी. डी.) के रैंक में

हवलदार मुन्शी राम (13734268 डब्ल्यू अब जे. सी.-219787 वाई)—01 जून, 1991 ।

हवलदार मान चन्द चौहान (13733496 एम अब जे. सी.-219788 एफ)—25 जून, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार दया राम (13732454 एन अब जे. सी.-219789 के)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार करनल सिंह (13734852 एन अब जे. सी.-219790 वाई)—05 जुलाई, 1991 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जुलाई, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार ओम प्रकाश (13733460 एन अब जे. सी.-219791 एफ)—17 जुलाई, 1991 ।%

% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जुलाई, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार सवर्ण सिंह (13732749 के अब जे. सी.-219792 के)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार शंकर सिंह (13732795 वाई अब जे. सी.-219793 एम)—01 अगस्त, 1991

हवलदार दुर्गा दास (13733831 एन अब जे. सी.-219794 पी)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार हरबन्स सिंह (13736358 डब्ल्यू अब जे. सी.-219795 एक्स)—05 अगस्त, 1991 ।%%

%% (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 मार्च, 1991 से दी जाएगी) ।

जम्मू और काश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री  
नायब सूबेदार ( ) के रैंक में

हवलदार कृष्ण चन्द (9082002 एन अब जे. सी.-219796 ए)—07 नवम्बर, 91 ।\*

\*(15 अक्टूबर, 90 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

हवलदार रतन सिंह (9081539 पी अब जे. सी.-219797 एच)—07 नवम्बर, 91 ।\*\*

हवलदार नसीब सिंह (9081763 एफ अब जे. सी.-219798 एल)—23 सितम्बर, 91 ।@

@ (24 फरवरी, 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

\*\* (02 नवम्बर, 90 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए हवलदार शाम लाल (9081782 एम अब जे. सी.-219799 एन)—23 सितम्बर, 91 ।%

% (14 मार्च, 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

हवलदार योग राज (9081930 एम अब जे. सी.-219800 एक्स)—03 नवम्बर, 91 ।+

+ (16 मार्च, 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

जम्मू और काश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार ( ) के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (2461879 के अब जे. सी.-219801 ए)—01 सितम्बर, 91 ।

हवलदार बलदेव राज शर्मा (9079077 पी अब जे. सी.-219802 एच)—13 अक्टूबर, 91 ।\*\*\*

\*\*\* (02 सितम्बर, 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

हवलदार कुलदीप सिंह (9079084 एल अब जे. सी.-219803 एन)—02 अक्टूबर, 91 ।%%

%% (02 सितम्बर, 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

## 11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार शिव कुमार राई (9411860 पी अब जे. सी.-219804 एन) 01 जून, 91 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार तुल बहादुर राई (9411184 एन अब जे. सी.-219805 डब्ल्यू)—01 मई, 91 ।

हवलदार छत्रा बहादुर राई (9411477 डब्ल्यू अब जे. सी.-219806 वाई)—28 मई, 91 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार वमन बहादुर राई (9412024 एक्स अब जे. सी.-219807 एफ)—15 मई, 91 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 मई, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार उदय कुमार राई (9413604 वाई अब जे. सी.-219808 के)—01 अप्रैल, 91 ।

हवलदार पवन बहादुर गुरूंग (9413090 एम अब जे. सी.-219809 एम)—12 अगस्त, 91 ।

हवलदार जय कुमार राई (9412912 एम अब जे. सी.-219810 एफ)—01 सितम्बर, 91 ।

## 1 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रणजीत पुन (सं. 5040372 एच अब जे. सी.-219811 के)—01 अक्टूबर, 1991 ।

## 1 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कर्ण वीर गुरूंग (सं. 5040028 एक्स अब जे. सी.-219812 एम)—01 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार सुरवन कुमार थापा (सं. 5039261 वाई अब जे. सी.-219813 पी)—01 नवम्बर, 1991 ।

हवलदार राँहिस कुमार थापा (सं. 5039282 पी अब जे. सी.-219814 एक्स)—01 नवम्बर, 1991 ।

## 8 जी. आर.

हवलदार राज बहादुर गुरूंग (सं. 5745775 वाई अब जे. सी.-219815 ए)—13 मई, 1991 ।

हवलदार प्रसाद लामा (सं. 5745700 एफ अब जे. सी.-219816 एच)—1 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार दिल बहादुर गुरूंग (सं. 5745651 के अब जे. सी.-219817 एल)—1 अक्टूबर, 1991 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार बन्दी सिंह थापा (सं. 5745887 वाई अब जे. सी.-219818 एन)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार नरेश चन्द्र जोशी (सं. 5745896 ए अब जे. सी.-219819 डब्ल्यू)—1 अक्टूबर, 1991 ।

नद्वाख स्काउट्स

नायब सूबेदार लिपिक (जी. डी.) के पद में

हवलदार लिपिक गंगा राम (सं. 9079911 एच अब जे. सी.-219820 एल)—01 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार लिपिक सुरेन्द्र सिंह (सं. 9080867 डब्ल्यू अब जे. सी.-219821 एन)—01 नवम्बर, 1991 ।

पंजाब रॉजमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रीतम सिंह (नं. 2464380 एन अब जे. सी.-216452 डब्ल्यू)—29 जून, 91 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 90 से दी जाएगी) ।

हवलदार हनुजीत सिंह (नं. 2467350 वाई अब जे. सी.-216453 वाई)—14 अगस्त, 91 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार सुरजीत सिंह (नं. 2465330 एम अब जे. सी.-216454 एफ)—01 मार्च, 91 ।

हवलदार रूप लाल (नं. 2462324 एन अब जे. सी.-216555 के)—03 अप्रैल, 91 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार प्रवीण अन्ध राणा (नं. 2459923 एच अब जे. सी.-216456 एम)—15 मई, 91 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार हरबन्स सिंह (नं. 2464473 ए अब जे. सी.-216457 पी)—01 मई, 91 ।

हवलदार सुख राज सिंह (नं. 2465624 ए अब जे. सी.-216458 एक्स) 02 मई, 91 ।

हवलदार गोविन्दर सिंह (नं. 2466344 वाई अब जे. सी.-216459 ए)—02 मई, 91 ।

हवलदार हरिवर चन्द (नं. 2464584 एक्स अब जे. सी.-216460 पी)—15 जून, 91 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार चूरा राम शर्मा (नं. 2464765 वाई अब जे. सी.-216461 एक्स)—14 जून, 91 ।

हवलदार प्रकाश सिंह (नं. 2466281 एफ अब जे. सी.-216462 ए)—03 सितम्बर, 91 ।

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार गुरबखे सिंह (नं. 2465153 एक्स अब जे. सी.-216463 एच) 15 जून, 91 ।

हवलदार भूपिन्दर सिंह (नं. 2466028 ए अब जे. सी.-216464 एल)—27 जून, 91 ।

हवलदार बिहम राम (नं. 2463267 के अब जे. सी.-216465 एन)—22 अगस्त, 91 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जुलाई, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार मोहिन्दर सिंह सिद्धू (नं. 2466080 एच अब जे. सी.-216466 डब्ल्यू)—01 अगस्त, 91 ।

हवलदार जशवन्त सिंह (नं. 2467670 एन अब जे. सी.-216467 वाई)—01 अगस्त, 91 ।

हवलदार जागीर सिंह (नं. 2466342 एन अब जे. सी.-216468 एफ)—01 अगस्त, 91

हवलदार हरबयाल सिंह (नं. 2466708 ए अब जे. सी.-216469 के)—30 अगस्त, 91 ।

हवलदार सभाजीत सिंह (नं. 2465811 वाई अब जे. सी.-216470 वाई)—01 सितम्बर, 91 ।

हवलदार इन्द्रजीत सिंह (नं. 2463861 एल अब जे. सी.-216471 पी)—01 सितम्बर, 91 ।

हवलदार प्रकाश सिंह (नं. 2466433 एक्स अब जे. सी.-216472 के)—01 सितम्बर, 91 ।

हवलदार चने सिंह (नं. 2461285 एन अब जे. सी.-216473 एम)—01 सितम्बर, 91 ।

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक जागी सिंह (नं. 2460905 एम अब जे. सी.-216474 पी)—06 मई, 91 ।\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार लिपिक त्रिलोक सिंह (नं. 2460932 डब्ल्यू अब जे. सी.-216475 एक्स)—01 अप्रैल, 91 ।

हवलदार लिपिक अमीन चन्व चौहान (नं. 2461036 पी अब जे. सी.-216476 ए)—01 मई, 91 ।

हवलदार लिपिक मोहन सिंह (नं. 2461095 एफ अब जे. सी.-216477 एच)—01 मई, 91 ।

हवलदार लिपिक वर्णन सिंह (नं. 2461170 ए अब जे. सी.-216478 एल)—12 अगस्त, 91 ।\*

\*(नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जुलाई, 91 से दी जाएगी) ।

हवलदार लिपिक संतोख सिंह (नं. 2461215 पी अब जे. सी.-216479 एन)—26 जुलाई, 91 ।

मद्रास रॉजमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पाटन अब्दुल्लाह (सं. 2573128 एच अब जे. सी.-216480 एच)—1 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार एस परूमाल सामि (सं. 2572256 एन अब जे. सी.-216481 एल)—1 जनवरी, 1991 ।

हवलदार अकूल अयोध रावू (सं. 2572519 एफ अब जे. सी.-216482 एन)—11 जनवरी, 1991 ।

हवलदार मनोजि रावू आर (सं. 2576015 एल अब जे. सी.-216483 डब्ल्यू)—1 जून, 1991 ।

हवलदार नागराजू के (सं. 2574654 एन अब जे. सी.-216484 वाई)—11 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार थोमस वी. जे. (सं. 2574996 एफ अब जे. सी.-216485 एफ)—1 जून, 1991 ।

हवलदार हल्लियाल शिवप्पा कन्तप्पा (सं. 2575796 एक्स अब जे. सी. 216486 के)—8 जुलाई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जून, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार पानम वेंचदानम (सं. 2575332 ए अब जे. सी.-216487 एम)—13 मई, 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) रैंक में

हवलदार (क्लर्क) पराबुदीन टि. (सं. 2573726 ए अब जे. सी.-216488 पी)—1 सितम्बर, 1991 ।

मराठा लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कुमार महाबबे सुकाराम पाटील (सं. 2770262 एम अब जे. सी. 216489 एक्स), 01 अक्टूबर 1990 ।

हवलदार पाटील मुरलीधर वरराम (सं. 2770283 एम अब जे. सी.-216490 एम), 01 नवम्बर 1990 ।

हवलदार सूदाम गीताराम काटे (सं. 2771004 वाई अब जे. सी.-216491 पी), 06 जनवरी 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 से दी जाती है) ।

हवलदार डोरकर सुरेश एकनाथ (सं. 2771374 वाय अब जे. सी.-216492 एक्स), 01 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव बिना ज्येष्ठता 16 दिसम्बर, 1990 से दी जाती है) ।

हवलदार मनोहर श्रीराम खंटले (सं. 2772900 वाय अब जे. सी.-216493 ए), 01 जनवरी 1991 ।

हवलदार सपाटे भानुदास मारुती (सं. 2770098 पी अब जे. सी.-216494 एच), 03 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार पनालकर पांडुरंग भीमराव (सं. 2770961 एक्स अब जे. सी.-216495 एन), 01 अप्रैल 1991 ।

हवलदार परीते आनन्दराव सच्चू (सं. 2770513 एन अब जे. सी.-216496 एन), 27 मई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार कृष्णदेव सुदाम चौहान (सं. 2771738 ए अब जे. सी.-216497 डब्ल्यू), 21 मई 1991 ।

हवलदार शैलके रघुनाथ विष्णू (सं. 2770104 एक्स अब जे. सी.-216498 वाय), 21 मई 1991 ।

पी ए हवलदार रीयामन खान (सं. 13857582 एन अब जे. सी.-216499 एफ), 21 मई 1991 ।

पी ए हवलदार निकम जनार्दन (सं. 2771860 डब्ल्यू अब जे. सी.-216500 एन), 21 मई 1991 ।

हवलदार अर्जुन राणबा पाटील (सं. 2765402 के अब जे. सी.-216501 एन), 13 जून 1991 ।

हवलदार महीपत विठोबा शिंदे (सं. 2765085 एन अब जे. सी.-216502 डब्ल्यू), 13 जून 1991 ।

हवलदार सारो साहेबो विष्णू (सं. 2771778 एफ अब जे. सी.-216503 वाई), 10 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार रघुणो विठल सुंदर (सं. 2772177 एच अब जे. सी.-216504 एफ), 10 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार आभले मगन (सं. 8024556 ए अब जे. सी.-216505 के), 19 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जून, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार माधव गयानोबा (सं. 2770633 के अब जे. सी.-216506 एच), 13 जून 1991 ।

हवलदार दोगडकर आलू सहाब (सं. 2769225 एम अब जे. सी.-216507 पी), 08 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार जाधव नामदेव भोंडीराम (सं. 2767288 डब्ल्यू अब जे. सी.-216508 एक्स), 01 अगस्त 1991 ।

हवलदार डाँबले मारुती अठ्ठा (सं. 2768389 डब्ल्यू अब जे. सी.-216509 ए), 01 अगस्त 1991 ।

हवलदार वंजीनाथ नोवाडे (सं. 7262663 एम अब जे. सी.-216510 पी), 01 अगस्त 1991 ।

### प्रिनैडियर्स

#### नायब सूबेदार के रक में

हवलदार रामेश्वर लाल (सं. 2662242 पी अब जे. सी.-216511 एक्स), 01 जनवरी 1991 ।

हवलदार गोकूब खान (सं. 2668211 एन अब जे. सी.-216512 ए), 23 मार्च 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार मोहम्मद अनसफ (सं. 2664662 एन अब जे. सी.-216513 एच), 01 अप्रैल 1991 ।

हवलदार हवा सिंह (सं. 2663729 पी अब जे. सी.-216514 एन), 10 जून 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 फरवरी, 1991 से) ।

हवलदार बने सिंह (सं. 2660992 पी अब जे. सी.-216515 एन), 28 दिसम्बर 1990 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अक्टूबर, 1990 से) ।

हवलदार सबीर शाह (सं. 2667803 एच अब जे. सी.-216516 डब्ल्यू), 01 फरवरी 1991 ।

हवलदार मोहम्मद अयूब (सं. 2669231 एन अब जे. सी.-216517 वाय), 01 मार्च 1991 ।

हवलदार बेबा राम (सं. 2662447 के अब जे. सी.-216518 एफ), 01 अप्रैल 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1991 से) ।

हवलदार अर्जुन राम (सं. 2664541 एम अब जे. सी.-216519 के), 04 जुलाई 1991 ।

हवलदार सीता राम (सं. 2661677 एन अब जे. सी.-216520 वाय), 12 जून 1991 ।

हवलदार ओम पाल सिंह (सं. 2664392 के अब जे. सी.-216521 एफ), 13 जून 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर, 1990 से) ।

हवलदार मुरज मल (सं. 2659584 एक्स अब जे. सी.-216522 के), 28 अगस्त 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रक में बतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से) ।

#### नायब सूबेदार (लिपिक) के रक में

हवलदार (लिपिक) केवल कृष्ण वर्मा (सं. 2662851 वाई अब जे. सी.-216523 एम), 01 जुलाई 1991 ।

हवलदार (लिपिक) महल सिंह शोखावत (सं. 2662661 एम अब जे. सी.-216524 पी), 17 जुलाई 1991 ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 01 जुलाई 1991) ।

राजपूत रोज़मेंट  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मान सिंह (सं. 13609982 डब्ल्यू अब जे. सी.-216525 एक्स), 01 मार्च 1991 ।

हवलदार जगत सिंह (सं. 2971919 पी अब जे. सी.-216526 ए), 15 मई 1991 ।\*

\*ज्योष्ठता नायब सूबेदार के रैंक में बतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना चिनांक 01 मई 1991 से दी जाएगी ।

हवलदार हरबंस नाल (सं. 2970400 एम अब जे. सी.-216527 एक्स), 01 मार्च 1991 ।

हवलदार चिरंजी नाल (सं. 2970755 एक्स अब जे. सी.-216528 एल), 01 जून 1991 ।

हवलदार चन्दग्री राम (सं. 2970933 पी अब जे. सी.-216530 एक्स), 01 जुलाई 1991 ।

हवलदार बाबू लाल (सं. 13808954 एफ अब जे. सी.-216539 एक्स), 01 जुलाई 1991 ।

हवलदार प्रताप सिंह गूजर (सं. 2971075 के अब जे. सी.-216531 एल), 01 जुलाई 1991 ।

जाट रोज़मेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार समंदर सिंह (सं. 3164138 एन अब जे. सी.-216532 एन)—13 जुलाई 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 10 जून 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार मान सिंह (सं. 3164787 वाई अब जे. सी.-216533 डब्ल्यू)—22 जून, 1991 ।

हवलदार माम चन्द (सं. 3165707 एच अब जे. सी.-216534 वाई)—20 जुलाई, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क कौलाश सिंह (सं. 14519717 पी अब जे. सी.-216535 एफ)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार क्लर्क रनधीर सिंह महावत (सं. 14520164 डब्ल्यू अब जे. सी.-216536 के)—1 अगस्त 1991 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बनवारी लाल (सं. 3165070 के अब जे. सी.-216537 एम)—2 जुलाई, 1991 ।

हवलदार सूबे सिंह (सं. 3166669 ए अब जे. सी.-216538 पी)—9 जुलाई, 1991 ।

हवलदार विद्या वत्त (सं. 4051587 एल अब जे. सी.-216539 एक्स)—20 जुलाई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 10 जुलाई 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार सतबीर सिंह फोगाट (सं. 3165587 पी अब जे. सी.-216540 एम),—2 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क सुखराम चौधरी (सं. 3164370 वाई अब जे. सी. 216541 पी)—1 जुलाई 1991 ।

सिख रोज़मेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जसचिन्दर सिंह (3367769 एल अब जे. सी.-216542 एक्स)—01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार कशमीर सिंह (3371744 पी अब जे. सी.-216543 ए)—01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार हरीदयाल सिंह (3372678 एल अब जे. सी.-216544 एच)—01 जनवरी, 1991 ।

सी एच एम बलकार सिंह (3368351 पी अब जे. सी.-216545 एल)—21 मार्च 1991 ।/

/(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 30 जनवरी 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार अमरीक सिंह (3367874 एफ अब जे. सी.-216546 एल)—16 फरवरी, 1991 ।

हवलदार अराजन सिंह (3370863 ए अब जे. सी.-216547 डब्ल्यू)—16 फरवरी, 1991 ।

हवलदार अजैद सिंह (3371950 ए अब जे. सी.-216548 वाई)—01 मार्च, 1991 ।

हवलदार परगट सिंह (3372046 ए अब जे. सी.-216549 एफ)—01 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार जगजीत सिंह (3372127 ए अब जे. सी.-216550 डब्ल्यू)—27 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार परचिन्दर सिंह (3372047 एच अब जे. सी.-216551 वाई)—02 जून, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 20 मई 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार हरभजन सिंह (3372605 एन अब जे. सी.-216552 एफ)—01 जून, 1991 ।

हवलदार बचन सिंह (3372359 वाय अब जे. सी.-216553 के)—18 जून, 1991 ।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 01 जून 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार हर्पाल सिंह (3372373 एल अब जे. सी.-216554 एम)—01 जून, 1991 ।



हवलदार लाभ सिंह (3371604 के अब जे. सी.-  
216555 पी)—12 जून, 1991 ।

हवलदार गुरभीत सिंह (3372557 के अब जे. सी.-  
216556 एक्स)—03 जुलाई, 1991 ।

हवलदार अमोलक सिंह (3371755 एच अब जे. सी.-  
216557 ए)—04 जुलाई, 1991 ।

हवलदार ग्राहुर सिंह (3372177 एच अब जे. सी.-  
216558 एच)—04 जुलाई, 1991 ।

हवलदार इन्दरजीत सिंह (3372186 एम अब जे. सी.-  
216559 एल)—04 जुलाई, 1991 ।

हवलदार जसमीर सिंह (3372948 पी अब जे. सी.-  
2165560 ए)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार निर्मल सिंह (3372336 एक्स अब जे. सी.-  
216561 एच)—01 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क भगवन्त सिंह (3371454 वाय अब जे.  
सी.-216562 एल)—01 अगस्त, 1991 ।

मिस्त्र रोजमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलविन्दर सिंह (3373579 पी अब जे. सी.-  
216563 एन), 01 अक्टूबर, 1990 ।

हवलदार जान सिंह (3375064 एन अब जे. सी.-  
216564 डब्ल्यू)—10 जुलाई, 91 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतैन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 12 जून 1991 में दी जाती है) ।

नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में

हवलदार क्लर्क सुरजीत सिंह (14518841 के अब जे.  
सी.-216565 वाई)—01 सितम्बर, 91 ।

हवलदार क्लर्क जीत सिंह (3371629 डब्ल्यू अब जे. सी.-  
216566 एफ)—01 सितम्बर, 91 ।

मिस्त्र लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार तीर्थ सिंह (4458300 वाई अब जे. सी.-  
216567 के)—28 अक्तूबर, 90 ।

नायब सूबेदार सरदारा सिंह (4454676 एच अब जे. सी.-  
216568 एम)—01 जनवरी 91 ।

नायब सूबेदार प्रीतम सिंह (4454315 के अब जे. सी.-  
216569 पी)—01 जनवरी, 91 ।

नायब सूबेदार प्रकाश सिंह (4453924 एफ अब जे. सी.-  
216570 के)—01 जनवरी, 91 ।

नायब सूबेदार भगवान सिंह (4455114 एल अब जे. सी.-  
216571 एम), 01 जनवरी, 91 ।

नायब सूबेदार सरजीत सिंह (4454719 एम अब जे. सी.-  
216572 पी)—05 फरवरी, 91 ।

नायब सूबेदार बकसीस सिंह भट्टी (4455586 एन अब जे.  
सी.-216573 एक्स)—17 जून, 91 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतैन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 28 अक्टूबर 1990 में दी जाएगी) ।

हवलदार बारा सिंह (4454472 डब्ल्यू अब जे. सी.-  
216574 ए)—27 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार मंगल सिंह (4456502 एफ अब जे. सी.  
216575 एच)—27 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार प्रकाश सिंह (4454473 वाई अब जे. सी.-  
216576 एल)—27 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार सुखविन्दर सिंह (4457339 वाई अब जे. सी.-  
216577 एन)—27 अप्रैल 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) योहनन जीहान (4453098 एम अब जे.  
सी.-216578 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) राजेश मेहता (4453142 एल अब जे.  
सी.-216579 वाई)—14 सितम्बर, 1991 ।=

= (नायब सूबेदार के रैंक में बतैन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर से दी जाएगी) ।

डोगेरा रोजमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मस्त राम (4162852 एल अब जे. सी.-  
216580 एन)—03 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार जगबन्त राज सिंह जीहान (3971552 डब्ल्यू अब  
जे. सी.-216581 डब्ल्यू)—26 जनवरी 1991 ।

हवलदार जगदीश चन्द (3965994 एक्स अब जे. सी.  
216582 वाई)—15 मार्च, 1991 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतैन और भत्तों पर प्रभाव  
डाले बिना ज्येष्ठता 24 फरवरी 1991 में दी जाएगी) ।

हवलदार रणजीत सिंह (3971707 एच अब जे. सी.-  
216583 एफ)—05 मार्च 1991 ।

हवलदार प्रताप चन्द राणा (3968027 पी अब जे. सी.-  
216584 के)—01 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार कश्मीर चन्द (3967624 एक्स अब जे. सी.-  
216585 एम)—29 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार जोगिन्द्र सिंह (3969496 के अब जे. सी.-  
216586 पी)—05 मई, 1991 ।

हवलदार प्रताप सिंह (3969039 डब्ल्यू अब जे. सी.-  
216587 एक्स)—12 मई, 1991 ।

हवलदार हंस राज (3967857 ए अब जे. सी.-216588 ए)—09 जुलाई, 1991।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार सुखाल सिंह (3969498 पी अब जे. सी.-216589 एफ)—11 जून 1991।

हवलदार स्वर्ण दास (3967870 एच अब जे. सी.-216590 एक्स)—01 जुलाई, 1991।

हवलदार धनश्याम सिंह (3971982 ए अब जे. सी.-216591 ए)—03 जुलाई, 1991।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार भगवान दास (3968518 एल अब जे. सी.-216592 एच)—01 जुलाई, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बसन्त राम (3969126 के अब जे. सी.-216593 एल)—01 अगस्त, 1991।

हवलदार क्लर्क प्रताप सिंह (3969205 वाई अब जे. सी.-216594 एन)—01 अगस्त, 1991।

गठवाल राष्ट्रफ्ल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोहन सिंह (सं. 4050701 एल अब जे. सी.-216595 डब्ल्यू)—15 अप्रैल, 1991।

हवलदार महावीर प्रसाद जोगाल (सं. 4052922 डब्ल्यू अब जे. सी.-216596 वाई)—16 अप्रैल, 1991।

हवलदार रंगा वत्त सेमवाल (सं. 4050463 के अब जे. सी.-216597 एफ)—13 मई, 1991।

हवलदार महिनाप सिंह (सं. 4053808 एल अब जे. सी.-216598 के)—1 जून, 1991।

हवलदार विरेंद्र सिंह (सं. 4051192 के अब जे. सी.-216599 एम)—1 अगस्त, 1991।

हवलदार मान सिंह (सं. 4054042 वाई अब जे. सी.-216600 डब्ल्यू)—1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) मेधा सिंह (सं. 6648363 के अब जे. सी.-216601 वाई)—1 जुलाई, 1991।

हवलदार (लिपिक) जोध सिंह (सं. 4053903 एक्स अब जे. सी.-216602 एफ)—1 जुलाई, 1991।

हवलदार (लिपिक) राम शंकर सिंह कनीजिया (सं. 6648373 एन अब जे. सी.-216603 के)—28 जुलाई, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार (लिपिक) गोबिन्द सिंह बिस्ट (सं. 4053980 एम अब जे. सी. 216604 एम)—1 अगस्त, 1991।

हवलदार (लिपिक) वन्जाबाका मलीकरजुना रेड्डी (सं. 6648461 के अब जे. सी.-216605 पी)—1 अगस्त, 1991।

हवलदार (लिपिक) शैलेन्द्र प्रसाद कोटनाला (सं. 4052089 एल अब जे. सी.-216606 एक्स)—1 अगस्त 1991।

वि कमांड रोजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार आन सिंह (न. 4168647 ए अब जे. सी.-216607 ए)—03 अगस्त, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार पूरन सिंह (न. 4166387 एफ अब जे. सी.-216608 एच)—07 मई 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार कृष्ण कुमार (न. 4167287 एच अब जे. सी.-216609 एल)—02 अप्रैल, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार संग्राम सिंह (न. 13608694 एक्स अब जे. सी.-216610 ए)—28 अगस्त 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 जुलाई 1991 से दी जायेगी)।

सी.एच.एम. सृजाल सिंह (नं. 4163163 डब्ल्यू अब जे. सी.-216611 एच)—01 अगस्त, 1991।

हवलदार राम अवतार (न. 4163281 के अब जे. सी.-216612 एल)—18 अगस्त, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार रूप राम यादवा (नं. 4161014 के अब जे. सी.-216613 एन)—01 अगस्त, 1991।

हवलदार धरम पाल यादव (न. 4166846 पी अब जे. सी.-216614 डब्ल्यू)—01 अगस्त, 1991।

हवलदार सुन्दर सिंह (न. 4168206 के अब जे. सी.-216615 वाई)—23 मार्च, 1991।

हवलदार श्री भगवान (न. 4163855 एल अब जे. सी.-216616 एफ)—07 अगस्त, 1991।

सी.एच.एम. शेर सिंह (न. 4165143 एफ अब जे. सी.-216617 के)—01 सितम्बर 1991।

## आसाम रॉजमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार इश्वर बाहादुर प्रधान (10243581 एक्स अब जे. सी.-216618 एम)—01 अगस्त 90 ।

हवलदार कीरान चन्द्रा पातोय (4348688 एम अब जे. सी.-216619 पी)—1 अगस्त, 90 ।

हवलदार कामाल चन्द्रा बोरा (4346525 ए अब जे. सी.-216620 के)—31 जुलाई, 91 ।\*

हवलदार एस. टी. बोहरांग अनाल (4348699 वाई अब सी.-216621 एम)—1 सितम्बर 90 ।

हवलदार गान्धि राम राजबोंगशि (4347665 वाई अब जे. सी.-216622 पी)—7 दिसम्बर, 90 ।%

हवलदार नीला कान्ता दास (4348884 एम अब जे. सी.-216623 एक्स)—23 दिसम्बर, 90 ।

हवलदार प्रावीप कुमार थापा (5443183 एक्स अब जे. सी.-216624 ए)—30 मई, 91 ।

हवलदार प्राकाश चन्द्रा मुचाहारी (4349199 एन अब जे. सी.-216625 एच)—01 जून, 91 ।

हवलदार लिपिक अनील चन्द्रा सीनहा (4348274 ए अब जे. सी.-216626 एल)—01 जून, 91 ।

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 90 से दी जायेगी) ।

% (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 90 से दी जायेगी) ।

## बिहार रॉजमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4052187 एल अब जे.सी.-216627 एन)—01 सितम्बर, 1990 ।

सी.एच.एम. अलबर्ट कुजूर (सं. 4257647 पी अब जे. सी.-216628 डब्ल्यू)—01 नवम्बर, 1990 ।

हवलदार श्रीकान्त पाण्डेय (सं. 4249492 डब्ल्यू अब जे. सी.-216629 वाई)—01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार परमिन्दर सिंह पूनधिर (सं. 4051027 वाई अब जे. सी.-216630 एन)—29 अप्रैल 1991 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 18 मार्च 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार इम्मानुयल मुरम् (सं. 4256717 डब्ल्यू अब जे. सी.-216631 डब्ल्यू)—01 मई, 1991 ।

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 4250552 एम अब जे. सी.-216632 वाई)—07 मई, 1991 ।

सी.एच.एम. टिन्टुस मिंज (सं. 4256896 एफ अब जे. सी.-216633 एफ)—07 मई, 1991 ।

सी.एच.एम. निपन प्रधान (सं. 4250745 एम अब जे. सी.-216634 के)—01 जून, 1991 ।

हवलदार राज किशोर सिंह (सं. 4250731 एम अब जे. सी.-216635 एम)—01 जून, 1991 ।

हवलदार इसीबोर करकेटा (सं. 4251513 ए अब जे. सी.-216636 पी)—01 जुलाई, 1991 ।

सी.एच.एम. मलकियत सिंह (सं. 4452188 एफ अब जे. सी.-216637 एक्स)—01 जुलाई 1991 ।

पी.एन.एम. प्रेम चन्द कुमार सिंह (सं. 4255052 वाई अब जे. सी.-216638 ए)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार विष्णु सिंह यादव (सं. 4255599 एफ अब जे. सी.-216639 एच)—01 जुलाई, 1991 ।

सी.एच.एम. जुगेश्वर प्रसाव यादवा (सं. 4250362 ए अब जे. सी.-216640 एक्स)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार चुरिया मान्डी (सं. 4252780 एन अब जे. सी.-216641 ए)—04 जुलाई, 1991 ।

हवलदार सुदर्शन हम्बूम (सं. 4254907 के अब जे.सी.-216642 एच)—12 जुलाई, 1991 ।

हवलदार श्री भगवान सिंह (सं. 4251850 पी अब जे. सी.-216643 एल)—23 अगस्त, 1991 ।

हवलदार विष्णु ब्याल सिंह (सं. 4252248 एफ अब जे. सी.-216644 एन)—23 अगस्त 1991 ।

## महार रॉजमेंट

## नायब सूबेदार कर्क के रैंक में

हवलदार कर्क (जीडी) सोम राज (सं. 9212764 एच अब जे. सी.-216645 डब्ल्यू)—01 सितम्बर 91 ।

हवलदार कर्क (जीडी) लल्लन सिंह (सं. 9212788 एन अब जे. सी.-216646 वाई)—01 सितम्बर 91 ।

## जम्मू और कश्मीर राईफल

## नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक विजय सुमन पठानिया (13733951 के अब जे. सी.-216647 एफ)—01 जुलाई 1991 ।

हवलदार लिपिक जोहली राम शर्मा (13733955 ए अब जे. सी.-216648 के)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार लिपिक जगजीत सिंह (13732707 एक्स अब जे. सी.-216649 एम)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार लिपिक सतपाल सिंह जमवाल (13733979 के अब जे. सी.-216650 एफ)—01 अगस्त 1991 ।

हवलदार लिपिक दलबीर सिंह (13734006 ए अब जे. सी.-216651 के)—01 अगस्त, 1991 ।

## नायब सूबेदार (जी.डी.) के रैंक में

हवलदार चरण दास (13736185 के अब जे. सी.-216652 एम)—31 मार्च, 1991 ।

हवलदार गोपाल सिंह (13736497 ए अब जे.सी.-216653 पी)—01 जून, 1991 ।

हवलदार गिरधारी लाल चौधरी (13733750 एल अब जे. सी.-216654 एक्स)—22 जून, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार प्रहलाध सिंह बलपतिया (13735389 के अब जे. सी.-216655 ए)—24 जून, 1991 । :

:(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राजकुमार सिंह (13732501 ए अब जे. सी.-216656 एष)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार मदन लाल (13734536 पी अब जे. सी.-216657 एल)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार मान चन्द (13732256 एब अब जे. सी.-216658 एन)—05 जुलाई, 1991 । =

=(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार पवन कुमार वर्मा (13732569 एफ अब जे. सी.-216659 डब्ल्यू)—09 जुलाई, 1991 ।

हवलदार नेत्र सिंह (13733763 एष अब जे. सी.-216660 एल)—28 जुलाई, 1991 । =

=(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 फरवरी 1991 से दी जायेगी) ।

हवालदार नरयाम चन्द (13731329 एक्स अब जे. सी.-216661 एन)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार जसमेर सिंह (13734800 एक्स अब जे. सी.-216662 डब्ल्यू)—08 अगस्त 1991 । "

"(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार राम चन्द (13734894 ए अब जे. सी.-216663 वाई)—01 अगस्त, 1991 ।

जम्मू और काश्मीर लाइट इन्फेन्ट्री

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार लिपिक अब्दुल खालक मीर (9079662 पी अब जे. सी.-216664 एफ)—02 जुलाई 91 ।\*

\*(18 दिसम्बर 90 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

हवलदार लिपिक मदन लाल (9079690 एफ अब जे. सी.-216665 के)—29 जून 91 ।\*\*

\*\* (11 मई 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

हवलदार लिपिक बाबू राम (9079691 के अब जे. सी.-216666 एम)—22 जुलाई, 91 ।\*\*\*

\*\*\* (13 मई 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

हवलदार हर भजन सिंह (3370120 वाई अब जे. सी.-216667 पी)—14 जून 91 ।\*\*

\*\* (06 जून 91 को वरिष्ठता केवल पदोन्नति के लिए) ।

हवलदार कृष्ण लाल (9080635 एक्स अब जे. सी.-216668 एक्स)—01 अगस्त, 91 ।

हवलदार मोहम्मद हफीज (9081215 एक्स अब जे. सी.-216669 ए)—01 अगस्त 91 ।

4 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बल बहादुर घालं (न. 5341835 एक्स अब जे. सी.-216670 पी)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार इन्द्रा बहादुर राना (न. 5340470 एफ अब जे. सी.-216671 एक्स)—17 अगस्त, 1991 ।

3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार गोपाल बहादुर थापा (सं. 5239674 एम अब जे. सी.-216672ए)—07 अगस्त 1991\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 91 से दी जायेगी) ।

हवलदार नर बहादुर गुरूग (सं. 5240126 एफ अब जे. सी. 216673 एच)—31 जुलाई 1991 ।

हवलदार हर्क मन राई (सं. 4160707 पी अब जे. सी.-216674-एल.) 01 सितम्बर, 1991 ।

9 जी. आर.

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) राजेन्द्र सिंह नेगि (सं. 5841022 के. अब जे. सी.-216675 एन.) 01 अगस्त, 1991 ।

9 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार टके बहादुर क्षत्री (सं. 5841394 पी. अब जे. सी.-216676 डब्ल्यू)—01 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार गजेन्द्र बहादुर क्षत्री (सं. 5841396 ए. अब जे. सी.-216677 वाई)—01 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार उधम चान्द (सं. 5841034 वाई अब जे. सी.-216678 एफ.)—01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार टके बहादुर छेत्री (सं. 5841295 एम अब जे. सी.-216679 के.)—09 मार्च, 1991 ।

8 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मोती बहादुर गुरूग (सं. 5745528 एल. अब जे. सी.-216680 वाई.)—01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार अनिल थापा (सं. 5745330 एम. अब जे. सी.-216681 एफ.)—28 जून, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार टके बहादुर बुराशोकी (सं. 5745404 डब्ल्यू अब जे. सी.-216682 के.)—01 मार्च, 1991 ।

हवलदार खडका बहादुर पून (सं. 5745500 एल अब जे. सी.-216683 एम.)—03 मार्च, 1991 ।

हवलदार टीका बहादुर धलं (सं. 5746266 एम अब जे. सी.-216684 पी.)—29 मई, 1991 ।%

% (नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 मार्च, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार गिरी प्रसाद पून (सं. 5746426 एफ. अब जे. सी.-216685 एक्स.)—08 मई, 1991 ।

हवलदार दिनेश गुरूग (सं. 5745331 पी. अब जे. सी.-216686 ए.)—20 जुलाई, 1991 ।

5 जी. आर. (एफ.एफ.)

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सूर्य बहादुर गुरूग (सं. 5445967 एक्स अब जे. सी.-216687 एच.)—11 जून, 1991 ।

हवलदार विलीप कुमार गुरूग (सं. 5446106 एल अब जे. सी.-216688 एल.)—11 जून, 1991 ।

हवलदार प्रेम कुमार गुरूग (सं. 5443539 ए. अब जे. सी.-216689 एन.)—1 अगस्त, 1991 ।

मायाख स्काउट्स

नायब सूबेदार (जी.डी.) के पद में

हवलदार तथी रिन्चन (सं. 9921475 एफ. अब जे. सी.-216690 एच.)—01 अगस्त, 1991 ।

कवचित्त कोर

नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार रतन सिंह (सं. 1048544 एच अब जे. सी.-219030 डब्ल्यू.)—25 दिसम्बर, 1990 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रैंक में वतन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1990 से दी जाएगी) ।

दफादार खडक सिंह रतिला (सं. 1045231 वाई अब जे. सी.-219031 वाई.)—01 दिसंबर, 1990 ।

दफादार गोपाल सिंह (सं. 1050623 डब्ल्यू अब जे. सी.-219032 एफ.)—10 जनवरी, 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वतन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जाएगी) ।

दफादार बन्धु हरी गौरव (सं. 14318219 एम अब जे. सी.-219033 के.)—01 दिसम्बर, 1990 ।

दफादार धिवाकर सिंह (सं. 1042977 के अब जे. सी.-219034 एम.)—01 जनवरी, 1991 ।

दफादार गोविन्द सिंह (सं. 1047913 एच अब जे. सी.-219035 पी.)—01 जनवरी, 1991 ।

दफादार बृज नारायण सिंह (सं. 1047359 एच अब जे. सी.-219036 एक्स.)—01 जनवरी, 1991 ।

दफादार छोटे सिंह (सं. 13837086 एक्स अब जे. सी.-219037 ए.)—01 जनवरी, 1991 ।

एस क्यू एम डी महेंद्र सिंह (सं. 1048796 पी अब जे. सी.-219038 एच.)—15 जनवरी, 1991 ।

एस डी एम रामवीर सिंह (सं. 13809597 डब्ल्यू अब जे. सी.-219039 एल.)—15 जनवरी, 1991 ।

आर डी एम अस्तर सिंह (सं. 1044307 एफ अब जे. सी.-219040 ए.)—01 फरवरी, 1991 ।

एस डी एम अमरपाल सिंह मलिक (सं. 1050369 एक्स अब जे. सी.-219041 एच.)—01 मार्च, 1991 ।

दफादार जयपाल संगवाल (सं. 1053793 के अब जे. सी.-219042 एल), 27 मार्च, 1991 ।

आर डी एम मोहानन चैरु पलकन्डी (सं. 1045941 डब्ल्यू अब जे. सी.-219043 एन.)—01 अप्रैल, 1991 ।

दफादार कमल सिंह (सं. 1050523 एल अब जे. सी.-219044 डब्ल्यू.)—01 मई, 1991 ।

एस डी एम सुब्बा राव बूसी (सं. 14291759 वाई अब जे. सी.-219045 वाई.)—18 जून, 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रैंक में वतन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 1991 से दी जाएगी) ।

एस क्यू एम डी नन्दबिला वेलायुधन गोपीनाथन नायर (सं. 1049725 ए अब जे. सी.-219046 एफ.)—01 मई, 1991 ।

दफादार प्रकाश चन्द (सं. 1047126 एफ अब जे. सी.-219047 के.)—01 मई, 1991 ।

दफादार महेंद्रा सिंह (सं. 1045244 डब्ल्यू अब जे. सी.-219048 एम.)—01 जुलाई, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रैंक में वतन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 1991 से दी जाएगी) ।

दफादार राम रतन सिंह (सं. 1043499 वाई अब जे. सी.-219049 पी), 01 मई, 1991 ।

आर डी एम रणजीत कुमार तूंग (सं. 1260239 एम अब जे. सी.-219050 के)—01 मई 1991 ।

एस डी एम पोल्नीया क्रिष्णन (सं. 1046890 ए अब जे. सी.-219051 एम)—01 मई, 1991 ।

दफादार छेल्लो राम (सं. 1051034 एम अब जे. सी.-219052 पी)—01 मई, 1991 ।

दफादार हंस राज (सं. 1048630 एन अब जे. सी.-219053 एक्स)—03 मई, 1991 ।

दफादार सुभाष चन्ध (सं. 1048717 पी अब जे. सी.-219054 ए)—07 मई, 1991 ।

एस क्यू एम डी धरम पाल (सं. 1045491 के अब जे. सी.-219055 एच)—17 मई, 1991 ।

एस क्यू एम डी नरसानायक नरसानायकर (सं. 1060603 डब्ल्यू अब जे. सी.-219056 एल)—10 जून, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रैंक में वृत्तन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 17 मई 1991 से बी जाएगी) ।

एस डी एम सुखीजन्दर सिंह (सं. 1055445 एच अब जे. सी.-219057 एन)—29 मई, 1991 ।

एस डी एम रामेश्वर वल्ल (सं. 1051053 एक्स अब जे. सी.-219058 डब्ल्यू)—01 जून, 1991 ।

दफादार सेर सिंह यादव (सं. 14318981 एम अब जे. सी.-219059 वाई)—01 जून, 1991 ।

दफादार भंवर सिंह रावैर (सं. 1052242 एन अब जे. सी.-219060 एन)—01 जून, 1991 ।

दफादार राजिन्दर सिंह (सं. 1043895 एन अब जे. सी.-219061 डब्ल्यू)—04 जून, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रैंक में वृत्तन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 02 जून 1991 से बी जाएगी) ।

एस डी एम अरजुनगम योवान (सं. 1049038 के अब जे. सी.-219062 वाई)—05 जून, 1991 ।

एस डी एम सुभा सिंह (सं. 1048342 एफ अब जे. सी.-219063 एफ)—19 जून, 1991 ।

एस डी एम मनोहर सिंह (सं. 1049077 एच अब जे. सी.-219064 के)—26 जून, 1991 ।

एस क्यू एम डी बच्चू सिंह (सं. 1047684 एच अब जे. सी.-219065 एम)—30 जून, 1991 ।

एस क्यू एम डी गुरनाम सिंह (सं. 1045959 एम अब जे. सी.-219066 पी)—01 जुलाई, 1991 ।

दफादार बाबा सिंह (सं. 1048212 वाई अब जे. सी.-219067 एक्स)—01 जुलाई, 1991 ।

एस डी एम सत्य नारायण प्रसाद (सं. 1043913 ए अब जे. सी.-219068 ए)—22 जुलाई, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रैंक में वृत्तन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 01 जुलाई 1991 से बी जाएगी) ।

दफादार रकम सिंह (सं. 1051195 पी अब जे. सी.-219069 एच)—01 अगस्त, 1991 ।

एस डी एम राम निवास (सं. 1052082 वाई अब जे. सी.-219070 एक्स)—01 अगस्त, 1991 ।

दफादार सुरिन्दर सिंह (सं. 1049230 एम अब जे. सी.-219071 ए)—01 अगस्त, 1991 ।

दफादार बलवन्त सिंह (सं. 1047436 एम अब जे. सी.-219072 एच)—10 अगस्त, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रैंक में वृत्तन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 01 अगस्त 1991 से बी जाएगी) ।

दफादार रामेश्वर सिंह (सं. 1051980 एल अब जे. सी.-219073 एल)—01 अगस्त, 1991 ।

एस क्यू एम डी सुरत सिंह राव (सं. 1047955 वाई अब जे. सी.-219074 एन)—01 अगस्त, 1991 ।

दफादार राम किशन (सं. 1045168 पी अब जे. सी.-219075 डब्ल्यू)—02 अगस्त, 1991 ।

दफादार नैन सिंह (सं. 1047380 एल अब जे. सी.-219076 वाई)—01 सितम्बर, 1991 ।

एस क्यू एम डी धरमपाल सिंह (सं. 1046752 वाई अब जे. सी.-219077 एफ)—01 सितम्बर, 1991 ।

एस डी एम बलवान सिंह (सं. 1045876 एफ अब जे. सी.-219078 के)—25 सितम्बर, 1991 ।

नायब रिसालदार के रैंक में क्लर्क जी डी/एस के टी

दफादार क्लर्क श्री कंठ (सं. 1051187 डब्ल्यू अब जे. सी.-219079 एम)—18 फरवरी, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रैंक में वृत्तन और भर्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्योष्ठता 01 फरवरी 91 से बी जाएगी) ।

दफादार क्लर्क कोचू केशवन कूट्टन (सं. 1051043 एन अब जे. सी.-219080 एफ)—01 जुलाई 91 ।

दफादार क्लर्क बृम्ह वल्ल शर्मा (सं. 2462841 एल अब जे. सी. 219081 के)—01 जुलाई, 91 ।

दफादार क्लर्क अरुन सोनु केवारे (सं. 1049672 एम अब जे. सी.-219082 एम)—01 अगस्त, 91 ।

दफादार क्लर्क जोगीन्दर सिंह (सं. 1051851 एल अब जे. सी.-219083 पी)—01 अगस्त, 91 ।

दफादार क्लर्क बृम्हा नन्द (सं. 1050673 एफ अब जे. सी.-219084 एक्स)—01 अगस्त, 91 ।

दफादार क्लर्क दिगम्बर सिंह चौधरी (सं. 1052270 ए अब जे. सी.-219085 ए)—01 अगस्त, 91 ।

दफादार क्लर्क भिलाप चन्द (सं. 1052598 ए अब जे. सी.-219086 एच)—01 सितम्बर, 91 ।

दफादार जैनुस अबदीन (सं. 1052604 के अब जे. सी.-219087 एल)—01 सितम्बर, 91 ।

दफादार क्लर्क हरबंश सिंह (सं. 1050990 ए अब जे. सी.-219088 एन)—01 सितम्बर, 91 ।

दफादार क्लर्क जान के एम (सं. 1052906 डब्ल्यू अब जे. सी.-219089 डब्ल्यू)—21 अक्टूबर, 91 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 91 से दी जाएगी) ।

दफादार क्लर्क गुरमेल सिंह (सं. 1052908 ए अब जे. सी.-219090 एल)—01 सितम्बर, 91 ।

दफादार क्लर्क कंगजम कोन्डूम्बा सिंह (सं. 1052916 ए अब जे. सी.-219091 एन)—01 सितम्बर, 91 ।

दफादार क्लर्क राम शंकर शूक्ला (सं. 1052946 एक्स अब जे. सी.-219092 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 91 ।

दफादार क्लर्क सियाराम सिंह यादव (सं. 1052963 एक्स अब जे. सी.-219093 वाई)—01 सितम्बर, 91 ।

दफादार एस के टी जरनील सिंह (सं. 1045449 एल अब जे. सी.-219094 एफ)—01 जनवरी 91 ।

दफादार एस के टी मन्मोन लाल दत्त (सं. 1047339 के अब जे. सी.-219095 के)—01 फरवरी, 91 ।

दफादार एस के टी के परेणमल (सं. 1047452 के अब जे. सी.-219096 एम)—01 जुलाई, 91 ।

नायब रिसालदार के रक में

दफादार छाटू राम जाट (सं. 1048703 पी अब जे. सी.-219097 पी)—24 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1990 से दी जाएगी) ।

दफादार गनानादाश चिन्नाप्पा थिनागाराज टी (सं. 1053489 ए अब जे. सी.-219098 एक्स)—28 सितम्बर 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जाएगी) ।

दफादार बलबोध सिंह (सं. 1048651 के अब जे. सी.-219099 ए)—11 अगस्त 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1990 से दी जाएगी) ।

दफादार गोपालाप्पा पी (सं. 1053363 ए अब जे. सी.-219100 के)—09 मई, 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 फरवरी 1991 से दी जाएगी) ।

एस डी एम पन्थानन्द पाण्डेय (सं. 1046656 के अब जे. सी.-219101 एम)—14 अप्रैल, 1991 ।

दफादार जशवीर सिंह (सं. 1048379 ए अब जे. सी.-219102 पी)—14 सितम्बर, 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 1991 से दी जाएगी) ।

दफादार क्रिशन सिंह कौरा (सं. 1046719 ए अब जे. सी.-219103 एक्स)—14 जुलाई, 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 1991 से दी जाएगी) ।

एस डी एम क्रिशननउन्नी पी (सं. 1053520 ए अब जे. सी.-219104 ए)—22 मई, 1991 ।

दफादार मूत्थूसामी तिरुमालाई रंगन (सं. 13844711 ए अब जे. सी.-219105 एच)—07 अक्टूबर, 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 1991 से दी जाएगी) ।

दफादार रविन्दन अमरुतराव चौधरी (सं. 14317900 ए अब जे. सी.-219106 एल)—13 जुलाई, 1991 ।

एस क्या एम डी रामानन्द प्रसाद (सं. 1047441 एक्स अब जे. सी.-219107 एन)—31 जुलाई, 1991 ।

आर डी एम संगल सिंह (सं. 1042427 ए अब जे. सी.-219108 डब्ल्यू)—31 जुलाई, 1991 ।

दफादार हरमिन्दर सिंह (सं. 1048424 के अब जे. सी.-219109 वाई)—05 अगस्त, 1991 ।

दफादार नैफे सिंह (सं. 1054392 ए अब जे. सी.-219110 एन)—12 अगस्त, 1991 ।

एस डी एम इकबाल सिंह (सं. 1048902 ए अब जे. सी.-219111 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 1991 ।

एस डी एम रवीन्द्रा सिंह (सं. 1260199 डब्ल्यू अब जे. सी.-219112 वाई)—01 सितम्बर, 1991 ।

दफादार गोविन्द सिंह (सं. 1049554 वाई अब जे. सी.-219113 एफ)—08 अक्टूबर 1991 ।\*

\*(नायब रिसालदार के रक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1991 से दी जाएगी) ।

दफादार राम बिरंजन मिश्रा (सं. 14320135 एक्स अब जे. सी.-219114 के)—01 सितम्बर, 1991 ।

वफादार सज्जन सिंह (सं. 1045304 ए अब जे. सी.-219115 एम)—12 अक्टूबर 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रक मों वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 1991 से दी जाएगी) ।

आर डी एम रनवीर सिंह तीसर (सं. 1052379 ए अब जे. सी.-219116 पी)—01 सितम्बर, 1991 ।

वफादार धरम प्रकाश (सं. 1043673 एम अब जे. सी.-219117 एक्स)—11 सितम्बर, 1991 ।

एस डी एम अमरीक सिंह (सं. 1046031 पी अब जे. सी.-219118 ए)—01 अक्टूबर, 1991 ।

एम् डी एम बलविन्दर सिंह (सं. 1047840 डब्ल्यू अब जे. सी.-219119 एफ)—01 अक्टूबर, 1991 ।

वफादार अजीत सिंह (सं. 1049338 एल अब जे. सी.-219120 एक्स)—01 अक्टूबर, 1991 ।

एस क्यू एम डी चतर सिंह (सं. 1052298 ए अब जे. सी.-219121 ए)—03 अक्टूबर, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रक मों वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1991 से दी जाएगी) ।

एस डी एम परमा नन्ध प्री (सं. 1044379 एल अब जे. सी.-219122 एच)—01 अक्टूबर, 1991 ।

वफादार जय रतन (सं. 1044559 एन अब जे. सी.-219123 एम)—12 अक्टूबर, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रक मों वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1991 से दी जाएगी) ।

वफादार बलवन्त सिंह रावत (सं. 1044868 डब्ल्यू अब जे. सी.-219124 एन)—01 अक्टूबर, 1991 ।

वफादार बाबू राम (सं. 1051867 डब्ल्यू अब जे. सी.-219125 डब्ल्यू)—01 अक्टूबर, 1991 ।

वफादार अरुणेश सिंह (सं. 1047428 एन अब जे. सी.-219126 वाई)—01 अक्टूबर, 1991 ।

वफादार रघुनाथ राम (सं. 1045469 वाई अब जे. सी.-219127 एफ)—01 अक्टूबर, 1991 ।

आर डी एम सचीन चन्द्रा मिश्रा (सं. 1044268 एन अब जे. सी.-219128 के)—13 अक्टूबर, 1991 ।

वफादार देवी सिंह (सं. 1052220 पी अब जे. सी.-219129 एम)—15 अक्टूबर, 1991 ।

वफादार राहुसाण सिंह (सं. 1047021 एक्स अब जे. सी.-219130 एफ)—01 नवम्बर, 1991 ।

वफादार धरम पाल सिंह (सं. 1047179 ए अब जे. सी.-219131 के)—01 नवम्बर, 1991 ।

वफादार राजपाल सिंह (सं. 1042742 एक्स अब जे. सी.-219132 एम)—01 नवम्बर 1991 ।

आर डी एम सुलेमान खान (सं. 1046771 के अब जे. सी.-219133 पी)—01 नवम्बर, 1991 ।

एस डी एम जगमाल सिंह (सं. 1046529 पी अब जे. सी.-219134 एक्स)—19 सितम्बर, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रक मों वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1989 से दी जाएगी) ।

एस डी एम मुल्क राज शर्मा (सं. 1045884 ए अब जे. सी.-219135 ए)—01 जनवरी, 1991 ।

वफादार एदेन सिंह गोगाडे (सं. 1050972 ए अब जे. सी.-219136 एफ)—27 मार्च, 1991 ।

आर डी एम हरनाम सिंह (सं. 1047852 डब्ल्यू अब जे. सी.-219137 एन)—05 अप्रैल, 1991 ।

वफादार जयसिंह (सं. 1051107 एन अब जे. सी.-219138 एन)—21 अप्रैल, 1991 ।

वफादार रमजान खान (सं. 1047258 पी अब जे. सी.-219139 डब्ल्यू)—01 मई, 1991 ।

आर डी एम राम सिंह (सं. 1047178 एक्स अब जे. सी.-219140 एल)—, 01 मई 1991 ।

एस डी एम नवाब सिंह (सं. 1052057 ए अब जे. सी.-219141 एन)—08 मई, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रक मों वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 1991 से दी जाएगी) ।

वफादार सुन्दर पाल (सं. 1053633 एल अब जे. सी.-219142 डब्ल्यू)—01 मई, 1991 ।

वफादार सुनेवरा पाल सिंह (सं. 1054466 एम अब जे. सी.-219143 वाई)—01 मई 1991 ।

वफादार शिरी पाल (सं. 14321621 एफ अब जे. सी.-219144 एफ)—12 जुलाई, 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रक मों वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जन 1991 से दी जाएगी) ।

एम् डी एम मलखान सिंह (सं. 1044476 एक्स अब जे. सी.-219145 के)—01 जुलाई, 1991 ।

एस डी एम श्याम लाल धिमन (सं. 1050634 एफ अब जे. सी.-219146 एम)—25 जुलाई, 1991 ।

एस डी एम बदन सिंह (सं. 1052189 ए अब जे. सी.-219147 पी)—05 अगस्त 1991 ।\*

\* (नायब रिसालदार के रक मों वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1991 से दी जाएगी) ।

एस डी एम कूट्टी क्रिश्नन कूट्टीहल वालापोल (सं. 1048307 वाई अब जे. सी.-219148 एक्स)—01 अगस्त, 1991 ।



एस क्यू एम डी सुरेन्द्र कुमार (सं. 1048400 ए अड जे. सी.-219149 ए)---22 अगस्त, 1991 ।

दफादार देवाणा जानागर (सं. 1053721 एफ अड जे. सी.-219150 पी)---01 सितम्बर, 1991 ।

दफादार वारा सिंह (सं. 1048930 पी अड जे. सी.-219151 एक्स)---01 सितम्बर, 1991 ।

आर डी एम दलित सिंह (सं. 1045394 एम अड जे. सी.-219152 ए)---10 सितम्बर, 1991 ।

दफादार सुरेन्द्रा पाल सिंह (सं. 1047001 के अड जे. सी.-219153 एफ)---01 अक्टूबर, 1991 ।

एस क्यू एम डी पी धन्नाबालन (सं. 1359127 पी अड जे. सी.-219154 एल)---16 नवम्बर, 1991 ।\*

\* (नायब रिजालदार के रक में वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 1991 में दी जाएगी) ।

दफादार गोरगहन (सं. 1049982 एक्स अड जे. सी.-219155 एन)---01 अक्टूबर, 1991 ।

दफादार बलबीर सिंह (सं. 1047454 पी अड जे. सी.-219156 डब्ल्यू)---01 अक्टूबर, 1991 ।

आर एम डी पोरधयी सिंह (सं. 1049983 ए अड जे. सी.-219157 वाई)---01 अक्टूबर, 1991 ।

दफादार त्रिलोक सिंह नोतवाल (सं. 1045857 डब्ल्यू अड जे. सी.-219158 एफ)---01 अक्टूबर, 1991 ।

दफादार बलराम सिंह (सं. 14318907 एल अड जे. सी.-219159 के)---01 अक्टूबर, 1991 ।

दफादार प्रेम नाथ डोगरा (सं. 1051773 वाई अड जे. सी.-219160 वाई)---03 अक्टूबर, 1991 ।

एस डी एम महीपाल सिंह (सं. 1048189 डब्ल्यू अड जे. सी.-219161 एफ)---01 नवम्बर, 1991 ।

एस डी एम राम प्रताप सिंह (सं. 1046638 एल अड जे. सी.-219162 के)---01 नवम्बर, 1991 ।

दफादार राजमाली प्रसाद (सं. 1045165 एफ अड जे. सी.-219163 एम)---01 नवम्बर, 1991 ।

एस डी एम दिलबाग सिंह जून (सं. 1045278 के अड जे. सी.-219164 पी)---01 नवम्बर, 1991 ।

दफादार अम्बिका सिंह (सं. 1050436 एक्स अड जे. सी.-219165 एक्स)---01 नवम्बर, 1991 ।

दफादार धरु राम (सं. 1046132 एच अड जे. सी.-219166 ए)---01 नवम्बर, 1991 ।

एस डी एम राजें सिंह (सं. 1050693 पी अड जे. सी.-219167 एच)---01 नवम्बर, 1991 ।

दफादार सिंह राजें सिंह सिधौचिया (सं. 13838965 ए अड जे. सी.-219168 एल)---01 नवम्बर, 1991 ।

एस क्यू एम डी यशवन्त सिंह दगवानिया (सं. 1050792 एक्स अड जे. सी.-219169 एन)---01 नवम्बर, 1991 ।

एस क्यू एम डी दर्शन सिंह (सं. 1049452 एच अड जे. सी.-219170 एच)---01 दिसम्बर, 1991 ।

दफादार करन सिंह (सं. 1047020 पी अड जे. सी.-219171 एल)---01 दिसम्बर, 1991 ।

दफादार अन्तर सिंह (सं. 1047003 पी अड जे. सी.-219172 एन)---01 दिसम्बर, 1991 ।

दफादार नरिन्दर सिंह (सं. 1048238 एन अड जे. सी.-219173 डब्ल्यू)---01 दिसम्बर, 1991 ।

एस डी एम राम नाथ जाट (सं. 1051301 एच अड जे. सी.-219174 वाई)---01 दिसम्बर, 1991 ।

एस डी एम प्रीतम चन्द (सं. 1052291 डब्ल्यू अड जे. सी.-219175 एफ)---01 दिसम्बर, 1991 ।

#### गारद विंगेड

#### नायब सूबेदार के रक में

हवलदार महादिक अशोक सदाशिव (सं. 13673594 ए अड जे. सी.-216691 एल)---08 अगस्त, 1990 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रक में वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1990 में दी जाएगी) ।

हवलदार चन्दर मणी प्रसाद (सं. 13669718 एम अड जे. सी.-216692 एन)---09 अगस्त, 1990 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रक में वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1990 में दी जाएगी) ।

हवलदार शिव मंगल सिंह (सं. 13672352 एल अड जे. सी.-216693 डब्ल्यू)---01 नवम्बर, 1990 ।

हवलदार गीर सिंह यादव (सं. 13669775 एन अड जे. सी.-216694 वाई)---01 नवम्बर, 1990 ।

हवलदार जय किशन गुर्जर (सं. 13670709 एक्स अड जे. सी.-216695 एफ)---26 जनवरी, 1991 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रक में वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 नवम्बर 1990 में दी जाएगी) ।

हवलदार मोहर सिंह (सं. 13667604 एच अड जे. सी.-216696 के) 11 जून, 1991 ।\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रक में वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर, 1990 में दी जाएगी) ।

हवलदार धरम पाल (सं. 13669942 वाई अड जे. सी.-216697 एम)---01 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार रतन सिंह (सं. 13670035 एन अड जे. सी.-216698 पी)---01 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार अर्जुन तसन्ना (सं. 13669798 पी अड जे. सी.-216699 एक्स)---01 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार शान्दगे वसंत दत्तात्रय (सं. 13674460 एन अब जे. सी.-216700 एफ)---09 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार काश्मीर सिंह (सं. 13670984 एक्स अब जे. सी.-216701 को)---12 दिसम्बर, 1990 ।

हवलदार मोती लाल शर्मा (सं. 13667490 एच अब जे. सी.-216702 एम)---01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार राम प्रसाद सिंह (सं. 13666031 एक्स अब जे. सी.-216703 पी)---01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार राम सिंह (सं. 13667605 एन अब जे. सी.-216704 एक्स) 01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार चन्द्रपाल सिंह (सं. 13674662 ए अब जे. सी.-216705 ए)---01 जनवरी, 1991 ।

हवलदार हुम्बे अर्जुन दिनकर (सं. 13673595 एच अब जे. सी.-216706 एच)---10 जनवरी, 1991 ।

हवलदार निर्मल सिंह (सं. 13671063 के अब जे. सी.-216707 एल)---16 जनवरी, 1991 ।

हवलदार बाला प्रसाद त्रिपाठी (सं. 13671250 एच अब जे. सी.-216708 एन)---19 जनवरी, 1991 ।

हवलदार गिरिश चन्द्र (सं. 13667835 वाई अब जे. सी.-216709 डब्ल्यू)---01 फरवरी, 1991 ।

हवलदार उन्नी कृष्णन सी पी (सं. 13672048 एफ अब जे. सी.-216710 एल)---01 फरवरी, 1991 ।

हवलदार नंद लाल सिंह (सं. 13668566 के अब जे. सी.-216711 एन)---09 फरवरी, 1991 ।

हवलदार अजीत कुमार दे सरकार (सं. 13669884 ए अब जे. सी.-216712 डब्ल्यू)---15 फरवरी, 1991 ।

हवलदार काश्मीर सिंह (सं. 13668142 एन अब जे. सी.-216713 वाई)---01 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार सखदेव राज (सं. 13668182 पी अब जे. सी.-216714 एफ)---01 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार दामोदर गोगाई (सं. 13670346 वाई अब जे. सी.-216715 को)---01 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार करम चन्द (सं. 13808931 ए अब जे. सी.-216716 एम)---17 मई, 1991 ।\*

\* (नायब सबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अप्रैल, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार धनार राम (सं. 13668155 एन अब जे. सी.-216717 पी)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार जगमाल सिंह (सं. 13671730 एम अब जे. सी.-216718 एक्स)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार हरलाल सिंह (सं. 13674435 पी अब जे. सी.-216719 ए)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार उदल सिंह (सं. 13674663 वाई अब जे. सी.-216720 पी)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार राजपाल (सं. 13674612 ए अब जे. सी.-216721 एक्स)---15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार कमलाकर प्रसाद (सं. 13858171 वाई अब जे. सी.-216722 ए)---26 मई, 1991 ।\*\*

\*\* (नायब सबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार जसवन्त सिंह वर्मा (सं. 13808969 के अब जे. सी.-216723 एच)---01 मई, 1991 ।

हवलदार राजिन्दर सिंह (सं. 13671064 एम अब जे. सी.-216724 एल)---14 मई, 1991 ।

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 13669312 वाई अब जे. सी.-216725 एन)---15 मई, 1991 ।

हवलदार सोहन लाल (सं. 13669971 एन अब जे. सी.-216726 डब्ल्यू)---27 मई, 1991 ।\*\*\*

\*\*\* (नायब सबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 मई, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार कुलामनी सुतार (सं. 13672429 एच अब जे. सी.-216727 वाई)---01 जून, 1991 ।

हवलदार तरसेम लाल (सं. 13670043 के अब जे. सी.-216728 एफ)---02 जून, 1991 ।

हवलदार युनुस मसीह (सं. 13666749 एफ अब जे. सी.-216729 के)---07 जून, 1991 ।

हवलदार लक्ष्मी चन्द (सं. 13670797 वाई अब जे. सी.-216730 वाई)---08 जून, 1991 ।

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 13669321 ए अब जे. सी.-216731 एफ)---12 जून, 1991 ।

हवलदार सुखविन्दर सिंह (सं. 13673415 पी अब जे. सी.-216732 के)---01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार श्री भगवान तित्तारी (सं. 13670772 एम अब जे. सी.-216733 एम)---06 अगस्त, 1991 ।\*\*\*\*

\*\*\*\* (नायब सबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार सन्तोष सिंह (सं. 13669426 के अब जे. सी.-216734 पी)---09 जुलाई, 1991 ।

नायब सबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क बलदेव सिंह सिराही (सं. 13665941 वाई अब जे. सी.-216735 एक्स)---01 मई, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) सुरेन्द्र सिंह सोलंखी (सं. 13668601 एफ अब जे. सी.-216736 ए)---01 मई, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) लक्ष्मी कान्त शर्मा (सं. 13669444 एम अब जे. सी.-216737 एच)---01 मई, 1991 ।

## मद्रास रॉजमेंट

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हम्सा केरलनतोडि पोन्तियोडियल (सं. 2572719 एक्स अब जे. सी.-216738 एल)—20 दिसम्बर, 1990 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 2 नवम्बर, 1990 से दी जाएगी) ।

हवलदार पेन्तकोट गोविन्द रावू (सं. 2573280 डब्ल्यू अब जे. सी.-216739 एन)—29 नवम्बर, 1990 ।

हवलदार के कनगराज (सं. 2578644 एफ अब जे. सी.-216740 एच)—5 फरवरी, 1991 ।

हवलदार टि वोरल रोबर्ट राज (सं. 2579394 एक्स अब जे. सी.-216741 एल)—1 मार्च, 1991 ।

हवलदार मोहनन के डि (सं. 2575122 ए अब जे. सी.-216742 एन)—13 मई, 1991 ।

हवलदार एस पोन्नराज (सं. 2577815 डब्ल्यू अब जे. सी.-216743 डब्ल्यू)—1 जून, 1991 ।

हवलदार फिलिपु डि (सं. 2576555 के अब जे. सी.-216744 वाई)—1 जुलाई, 1991 ।

हवलदार के रामसुब्बु (सं. 2576837 एच अब जे. सी.-216745 एफ)—1 अगस्त, 1991 ।

## प्रिन्सिपैल्स

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भंवर लाल काठात (सं. 2669768 के अब जे. सी.-216746 के)—01 मार्च, 1991 ।

हवलदार कासम अली कयाम खानी (सं. 2669825 ए अब जे. सी.-216747 एम)—15 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार शेर सिंह (सं. 2662223 के अब जे. सी.-216748 पी)—21 मई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल, 1991) ।

हवलदार शम्भू सिंह गहलोत (सं. 2666538 एल अब जे. सी.-216749 एक्स)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार सुनील कुमार (सं. 2666694 पी अब जे. सी.-216750 एम)—01 जुलाई, 1991 ।

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) इकवाल सिंह हरचन्द्र (सं. 2662679 एच अब जे. सी.-216757 पी)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) हरी सिंह राना (सं. 2662850 डब्ल्यू अब जे. सी.-216752 एक्स)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) शीश राम रार (सं. 2663037 ए अब जे. सी.-216753 ए)—01 अगस्त, 1991 ।

## मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

## नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) प्रेमानन्द राघोबा कदम (सं. 2765587 डब्ल्यू अब जे. सी.-216754 एच)—01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) नांगरे शंकर नानासाहेब (सं. 2767538 एम अब जे. सी.-216755 एल)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) मुकुन्दन के डी (सं. 2767790 एल अब जे. सी.-216756 एन)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) पाटील रामदास उत्तम (सं. 2767973 एफ अब जे. सी.-216757 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 1991 ।

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार रघुबीर सिंग (सं. 3164293 पी अब जे. सी.-216758 वाई)—14 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 फरवरी, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार जाल सिंग (सं. 3166481 पी अब जे. सी.-216759 एफ)—12 सितम्बर, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 फरवरी, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार पाटील दिनकर रणू (सं. 2766016 के अब जे. सी.-216760 डब्ल्यू)—12 मई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार बधन शंकर घाडगे (सं. 2769062 के अब जे. सी.-216761 वाई)—24 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार चालाक शंकर भैरुनाथ (सं. 2767068 एम अब जे. सी.-216762 एफ)—01 जून, 1991 ।

हवलदार संभाजी वसंत आंबरे (सं. 2772243 ए अब जे. सी.-216763 के)—07 जुलाई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार गरड सुभाष राम भाऊ (सं. 2772190 एम अब जे. सी.-216764 एम)—13 जुलाई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार भीमा राणबा कोरवी (सं. 2764177 एन अब जे. सी.-216765 पी)—10 सितम्बर, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार आत्माराम सखाराम जाधव (सं. 2766487 एक्स अब जे. सी.-216766 एक्स)—01 सितम्बर, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार पाटील शिवाजी मणपति (सं. 2765151 एम अब जे. सी.-216767 ए)—18 सितम्बर, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतान और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार कृष्ण दास मोरं (सं. 2766085 ए अब जे. सी.-216768 एच)—13 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतान और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार आशरफ सुरेश नारायण (सं. 2766010 एच अब जे. सी.-216769 एल)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार चौधरी महादेव (सं. 2763368 एम अब जे. सी.-216770 ए)—01 अगस्त, 1991

हवलदार पद्मनाभ अदल शंकर (सं. 2767312 एफ अब जे. सी.-216771 एच)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार दशरथ पायथी (सं. 2766279 एच अब जे. सी.-216772 एल)—15 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार अशोक शिवाजी गुजर (सं. 2770153 ए अब जे. सी.-216773 एन)—15 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार सारंगत रमेश मनोहर (सं. 2774047 वाई अब जे. सी.-216774 डब्ल्यू)—15 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार मालास्थाने अनिल वासुदेवराय (सं. 2775182 वाई अब जे. सी.-216775 वाई.)—15 सितम्बर, 1991 ।

#### राजपुताना गडफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार उषह सिंह (सं. 2867163 एन अब जे. सी.-216776 एफ)—29 जनवरी, 1991 ।

हवलदार भगीरथ सिंह मोर (सं. 2869526 एल अब जे. सी.-216777 के)—1 फरवरी, 1991 ।

हवलदार हार सिंह (सं. 2868560 वाई अब जे. सी.-216778 एम)—18 मई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतान और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार रियाज अहमद (सं. 2872047 पी अब जे. सी.-216779 पी)—2 फरवरी, 1991 ।

हवलदार साधो सिंह (सं. 2869428 एल अब जे. सी.-216780 के)—31 मार्च, 1991 ।

हवलदार गोम्भद सिंह (सं. 2870040 एम अब जे. सी.-216781 एम)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार सरदार सिंह (सं. 2870141 ए अब जे. सी.-216782 पी)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार फजरु खां (सं. 2873284 एल अब जे. सी.-216783 एक्स)—30 जून, 1991 ।

हवलदार भंवर सिंह (सं. 2869194 एम अब जे. सी.-216784 ए)—1 जुलाई, 1991 ।

हवलदार सत्याश्री सिंह (सं. 2873011 एच अब जे. सी.-216785 एच)—9 जुलाई, 1991 ।

हवलदार रावल सिंह (सं. 2868450 के अब जे. सी.-216786 एल)—9 जुलाई, 1991 ।

हवलदार कृष्ण सिंह तथर (सं. 2868066 एच अब जे. सी.-216787 एन)—19 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतान और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार राज सिंह (सं. 2870648 एफ अब जे. सी.-216788 डब्ल्यू)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 2861282 एन अब जे. सी.-216789 वाई)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार नारु सिंह (सं. 2870123 एक्स अब जे. सी.-216790 एन)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार रोहान सिंह (सं. 2869614 एफ अब जे. सी.-216791 डब्ल्यू)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार भंवरु खां (सं. 2872133 ए अब जे. सी.-216792 वाई)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार ब्रह्म सिंह (सं. 2871079 एल अब जे. सी.-216793 एफ) 13 सितम्बर, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में बतान और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त, 1991 से दी जाएगी) ।

हवलदार राम चन्द्र (सं. 2870391 एफ अब जे. सी.-216794 के)—29 अगस्त, 1991 ।

हवलदार शंकर सिंह (सं. 2870232 के अब जे. सी.-216795 एम)—1 सितम्बर, 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्लक जादर सिंह राठौर (सं. 2865331 एच अब जे. सी.-216796 पी)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक राम प्रकाश (सं. 2865493 एन अब जे. सी.-216797 एक्स)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक हरी राम सिंह (सं. 2865500 वाई अब जे. सी.-216798 ए)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक दलेल सिंह राठौर (सं. 285603 एक्स अब जे. सी.-216799 एच)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक रजनीत सिंह (सं. 2865692 एफ अब जे. सी.-216800 एम)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक राम प्रकाश वर्मा (सं. 2865831 ए अब जे. सी.-216801 पी)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक सुरेन्द्र कुमार मिश्रा (सं. 2865834 एन अब जे. सी.-216802 एक्स)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक अवतार सिंह (सं. 2866580 एन अब जे. सी.-216803 ए)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कर्लक राजपूत प्रताप बहादुर सिंह (सं. 2866376 पी अब जे. सी.-216804 एच)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) महेंद्र सिंह (सं. 2866650 एफ अब जे. सी.-216805 एल)---1 अगस्त, 1991।

राजपूताना राइफल  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार प्रदीप सिंह राठौर (सं. 2870614 एन अब जे. सी.-216806 एन)---1 फरवरी, 1991।

हवलदार राम किशन (सं. 2866663 वाई अब जे. सी.-216807 डब्ल्यू)---16 अगस्त, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार सुतबीर सिंह (सं. 2871453 एच अब जे. सी.-216808 वाई)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार गोविन्द सिंह (सं. 4054141 एफ अब जे. सी.-216809 एफ)---1 सितम्बर, 1991।

राजपूत रीजिमेंट  
नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मुसा राम गुर्जर (सं. 2971847 डब्ल्यू अब जे. सी.-216810 डब्ल्यू)---30 मार्च, 1991।

हवलदार मही पाल सिंह (सं. 2971277 एल अब जे. सी.-216811 वाई) 01 मई, 1991।

हवलदार राज कुमार सिंह (सं. 2969582 वाई अब जे. सी.-216812 एफ)---01 मई, 1991।

हवलदार केहर सिंह (सं. 2967545 एम अब जे. सी.-216813 के)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 4457462 एक्स अब जे. सी.-216814 एम)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार और प्रकाश (सं. 2966796 के अब जे. सी.-216815 पी)---01 अगस्त, 1991।

हवलदार भारत सिंह (सं. 2970022 वाई अब जे. सी.-216816 एक्स)---01 सितम्बर, 1991।

हवलदार रूपराम गुर्जर (सं. 2969281 पी अब जे. सी.-216817 ए)---01 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क यदुनाथ सिंह (सं. 2971639 एफ अब जे. सी.-216818 एच)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार कर्क योगेन्द्र सिंह (सं. 2971640 डब्ल्यू अब जे. सी.-216819 एल)---01 जुलाई, 1991।

हवलदार कर्क रामजी लाल बुनकर (सं. 2971682 एच अब जे. सी.-216820 ए)---28 अगस्त, 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त, 1991 से दी

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम कुलार (सं. 2971550 पी अब जे. सी.-216821 एच)---17 जून, 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1991 से दी जाएगी)।

हवलदार किशन सिंह राजपूत (सं. 2966452 एन अब जे. सी.-216822 एल)---01 जून, 1991।

हवलदार गलजारी लाल (सं. 2973350 एक्स अब जे. सी.-216823 एन)---05 सितम्बर 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1991 से दी जायेगी)।

हवलदार जगदीश (सं. 2966840 एच अब जे. सी.-216824 डब्ल्यू)---18 सितम्बर, 1991।

हवलदार साधू सिंह (सं. 2969932 ए अब जे. सी.-216825 वाई)---01 अक्टूबर, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क सतीश कुमार चौहान (सं. 2971327 एल अब जे. सी. 216826 एफ)---10 मई 1991।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1991 से दी जायेगी)।

जाट रीजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राहुताश सिंह (सं. 3166543 के अब जे. सी.-216827 के)---7 जुलाई, 1991।

हवलदार बबू राम (सं. 3164295 ए अब जे. सी.-216828 एम)---11 जुलाई, 1991।

हवलदार बजरंग लाल (सं. 3162698 एफ अब जे. सी.-216829 पी)---1 अगस्त, 1991।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार कर्क समदर सिंह राठौर (सं. 14520281 एफ अब जे. सी. 216830 के)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार कर्क राम फल दाहिया (सं. 3166243 एच अब जे. सी.-216831 एम)---1 सितम्बर, 1991।

हवलदार कर्क सूबे सिंह यादव (सं. 3166244 एल अब जे. सी.-216832 पी)---6 सितम्बर, 1991।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलजीत सिंह दाहिया (सं. 3165424 एफ अब जे. सी.-216833 एक्स)---22 जून, 1991।

हवलदार हिम्मत सिंह राठी (सं. 3163850 डब्ल्यू अब जे. सी.-216834 ए)---1 जुलाई, 1991।

हवलदार गजेन्द्र सिंह (सं. 3166563 एक्स अब जे. सी.-  
216835 एच.)—24 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 जुलाई 1991 में दी जायेगी) ।

हवलदार रणधीर सिंह (सं. 3166724 पी अब जे. सी.-  
216836 एल.)—3 जुलाई, 1991 ।

हवलदार धर्म पाल (सं. 3164073 एल अब जे. सी.-  
216837 एन.)—4 जुलाई, 1991 ।

हवलदार प्रभू बयाल जाट (सं. 3166550 ए अब जे. सी.-  
216838 डब्ल्यू.)—9 जुलाई, 1991 ।

हवलदार भगवान सिंह (सं. 3163396 एफ अब जे. सी.-  
216839 वाई.)—15 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार भूप सिंह (सं. 3165016 डब्ल्यू अब जे. सी.-  
216840 एन.)—7 अक्टूबर 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क प्रभू राम जासड़ (सं. 14520581 एच अब  
जे. सी.-216841 डब्ल्यू.)—27 सितम्बर, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 सितम्बर 1991 से दी जायेगी) ।

सिख रोजमेट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार परमजीत सिंह (3371074 ए. अब जे. सी.-  
216842 वाई.)—26 मई, 91 ।

हवलदार वर्धन सिंह (3372356 एल. अब जे. सी.-  
216843 एफ.)—30 मई, 91 ।

हवलदार करनैल सिंह (3370538 ए. अब जे. सी.-  
216844 के.)—01 जुलाई, 91 ।

हवलदार गुरमीत सिंह (3372635 डब्ल्यू अब जे. सी.-  
216845 एम.)—03 जुलाई, 91 ।

हवलदार मविन्द्र सिंह (3372158 ए. अब जे. सी.-  
216846 पी.)—04 जुलाई, 91 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क दीविन्द्र सिंह (3371594 एल. अब जे.  
सी.-216847 एक्स.)—01 अक्टूबर, 91 ।

हवलदार क्लर्क गुरदियाल सिंह (सं. 14520122 के अब  
अब जे. सी.-216848 ए.)—1 अक्टूबर, 91 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सन्त राम (3964931 के. अब जे. सी.-  
216849 एच.)—22 अप्रैल, 1991 ।

सी एच एम आंम प्रकाश (3966533 एफ. अब जे. सी.-  
216850 एक्स.)—29 जून, 1991 ।\*\*

\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 मई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार बक्सीस सिंह (3370785 एन. अब जे. सी.-  
216851 ए.)—12 जून, 1991 ।

हवलदार सेठ राम (8023051 एक्स अब जे. सी.-  
216852 एच.)—07 जुलाई, 1991 ।\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई, 1991 से दी जाती है) ।

हवलदार गुरप्रताप सिंह (3373929 डब्ल्यू अब जे. सी.-  
21680053 एल.)—01 सितम्बर, 1991 ।

सिख लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सधरन सिंह (4455698 एन. अब जे. सी.-  
216854 एन.)—01 जून, 1991 ।

हवलदार सूखबेव सिंह (4453339 एफ. अब जे. सी.  
216855 डब्ल्यू.)—04 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 1991 से दी जायेगी) ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) पी. सिवालिंगम (4453018 के. अब  
जे. सी.-216856 वाई.)—01 जुलाई, 1991 ।

शेगरा रोजमेट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुरजीत सिंह (3968016 एच., अब जे. सी.-  
216857 एफ.)—01 जुलाई, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून, 1991 से दी जायेगी) ।

हवलदार ज्ञान चन्द (3968200 एन., अब जे. सी.-  
216858 के.)—24 जून, 1991 ।

हवलदार बर्गा वाम (3972998 एक्स. अब जे. सी.-  
216859 एम.)—01 अगस्त, 1991 ।

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार क्लर्क जानकी वाम (3969462 डब्ल्यू., अब  
जे. सी.-216860 एफ.)—12 अगस्त, 1991 ।\*

\*(नायब सूबेदार क्लर्क के रैंक में वतन भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1991 से दी जायेगी) ।

## गठवाल राष्ट्रफलम

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सतेंद्र सिंह, एसएम (सं. 4055664 एम. अब जे. सी.-216861के.)—1 अप्रैल, 1991 ।

हवलदार भीम सिंह (सं. 4057791 ए. अब जे. सी.-216862 एम.)—1 जूलाई, 1991 ।

हवलदार जमन सिंह (सं. 4049723 एक्स. अब जे. सी.-216863 पी.)—29 जूलाई, 1991 ।

हवलदार जसपाल सिंह बिष्ट (सं. 4051758 एम. अब जे. सी.-216864 एक्स.)—29 जूलाई, 1991 ।

हवलदार शिरेन्द्र सिंह रावत (सं. 4052280 एम. अब जे. सी.-216865 ए.)—29 जूलाई, 1991 ।

हवलदार बूटी सिंह रावत (सं. 4052454 एफ. अब जे. सी.-21866 एच.)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 4049759 डब्ल्यू. अब जे. सी.-216867 एल.)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार राजेंद्र मिश्र रायत (सं. 4050359 डब्ल्यू. अब जे. सी.-216868 एन.)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार राजेंद्र चन्द रमोला (सं. 4054284 एफ. अब जे. सी.-216869 डब्ल्यू.)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार कुंवर सिंह (सं. 4050954 ए. अब जे. सी.-216870 एल.)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 4051753 एन. अब जे. सी.-216871 एन.)—1 अगस्त, 1991 ।

हवलदार सुरेंद्र सिंह नेगी (सं. 4056078 डब्ल्यू. अब जे. सी.-216872 डब्ल्यू.)—17 अगस्त, 1991 ।

हवलदार धीरज मणी (सं. 4056055 पी. अब जे. सी.-216873 वाई.)—1 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार संग्राम सिंह (सं. 4052329 एक्स. अब जे. सी.-216874 एफ.)—1 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार अक्रधर जयाल (सं. 4053962 के. अब जे. सी.-216875 के.)—1 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार दर्शन सिंह रावत (सं. 4054867 के. अब जे. सी.-216876 एम.)—01 जून, 1991 ।

हवलदार विजय सिंह (सं. 4050072 वाई. अब जे. सी.-216877 पी.)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार कला नन्ध शर्मा (सं. 4054752 डब्ल्यू. अब जे. सी.-216878 एक्स.)—05 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 4050570 एल. अब जे. सी.-216879 ए.)—01 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार चन्द्र प्रकाश पैन्युली (सं. 4052632 वाई. अब जे. सी.-216880 पी.)—05 अक्टूबर, 1991 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में बोनस और भत्तों पर प्रभाव डालने बिना जेठना 01 अक्टूबर, 1991 सं. बो जाती है)

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) प्रेम सिंह चौहान (सं. 1051593 वाई. अब जे. सी. 216881 एक्स.)—01 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) सुरेंद्र सिंह राणा (सं. 4053611 पी. अब जे. सी.-216882 ए.)—01 अक्टूबर, 1991 ।

हवलदार (लिपिक) रत्नबीर सिंह रावत (सं. 14518951 वाई. अब जे. सी.-216883 एच.)—01 अक्टूबर, 1991 ।

## दि कुमाऊँ रजिमेंट

## नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) मदन लाल शर्मा (नं. 4162973 डब्ल्यू. अब जे. सी.-216884 एन.)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) दाता राम (नं. 3161446 वाई. अब जे. सी.-216885 एन.)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) राम सिंह (नं. 4162165 पी. अब जे. सी.-216886 डब्ल्यू.)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) पन्ना लाल यादव (नं. 4163009 एक्स. अब जे. सी. 216887 वाई.)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) गोपाल सिंह नगरकोटा (नं. 4163011 पी. अब जे. सी.-216888 एफ.)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) भूपाल सिंह बगैरा (नं. 4163013 ए. अब जे. सी.-216889 के.)—09 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) राम प्रताप रिलाला (नं. 4163177 डब्ल्यू. अब जे. सी.-216890 वाई.)—30 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) सुरज भान (नं. 4163190 ए. अब जे. सी.-216891 एफ.)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) दया राम यादवा (नं. 4163393 के. अब जे. सी.-216892 के.)—01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) सबे सिंह यादव (नं. 4163436 एन. अब जे. सी.-216893 एम.)—01 सितम्बर, 1991 ।

## नायब सूबेदार रैंक में

सी. एच. एम. गोवरधन सिंह (नं. 4170963 एक्स. अब जे. सी.-216894 पी.)—01 मार्च, 1991 ।

सी. एच. एम. वेद पाल सिंह (नं. 4166424 के. अब जे. सी.-216895 एक्स.)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार श्याम सिंह (नं. 4167313 वाई. अब जे. सी.-216896 ए.)—01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार जीत सिंह (नं. 4162429 एल अब जे. सी. -  
जे. सी.-216897 एल) — 28 अगस्त, 1991 ।

हवलदार मैन पाल (नं. 4163831 एल अब जे. सी. -  
216898 एल) — 01 जुलाई, 1991 ।

#### आसाम रीजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरंग थंग कीमा (4347680 एल अब जे. सी. -  
216899 एल) — 01 अप्रैल, 91 ।

हवलदार होली राम गय (4349533 के अब जे. सी. -  
216900 एक्स) — 01 अप्रैल, 91 ।

हवलदार जारमोस सिंह (13732476 एम अब जे. सी. -  
216901 ए) — 12 मई, 91 ।

हवलदार वावीदू, अरुल (2572200 एफ अब जे. सी. -  
216902 एल) — 12 मई, 91 ।

हवलदार भीम बहादुर छत्री (4348187 एम अब जे. सी. -  
216903 एल) — 01 जून, 91 ।

हवलदार थोमारा मांग कूकी (4349016 एम अब जे. सी. -  
216904 एल) — 22 जुलाई, 91 ।\*

हवलदार गोपी नाथ मिसरा (4350152 पी अब जे. सी. -  
216905 डब्ल्यू) — 01 जून, 91 ।

हवलदार लीला राम बागीक (4345722 डब्ल्यू अब जे. सी. -  
216906 वाई) — 01 जुलाई, 91 ।

हवलदार नोमाल चन्ना गोगई (4350033 वाई अब जे. सी. -  
216907 एफ) — 01 अगस्त, 91 ।

हवलदार नीरमाल हाजारीका (4350365 एल अब जे. सी. -  
216908 के) — 01 अगस्त, 91 ।

हवलदार लाबायना राम श्रीरी (4349367 एफ अब जे. सी. -  
216909 एम) — 01 सितम्बर, 91 ।

##### नायब सूबेदार लिपिक के पद में

हवलदार लिपिक मालीक मोत्रा (4348446 के अब जे. सी. -  
216910 एफ) — 01 अगस्त, 91 ।

हवलदार लिपिक जामिनि राम सिन्हा (4348481 एम अब  
जे. सी. -216911 के) — 01 सितम्बर 91 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
उाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 91 से दी जाएगी) ।

#### बिहार रीजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुनील टोपनो (सं. 4254521 के अब जे. सी. -  
216912 एम) — 01 मार्च, 1991 ।

हवलदार जगदीश साहू (सं. 4254482 डब्ल्यू अब जे. सी. -  
216913 पी) — 25 जुलाई, 1991 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
उाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 मार्च 1991 से दी  
जायेगी) ।

हवलदार रामा शंकर सिंह (सं. 4252356 एल अब जे.  
सी. -216914 एक्स) — 06 जून, 1991 ।

हवलदार पिटर बाग (सं. 4254048 के अब जे. सी. -  
216915 ए) — 01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार राज देव पाण्डेय (सं. 4249621 एल अब जे  
सी. -216916 एल) — 01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 4252385 ए अब जे. सी. -  
216917 एल) — 21 अगस्त, 1991 ।

हवलदार काशी नाथ त्रिपाठी (सं. 4251854 एल अब जे  
216918 एल) — 21 अगस्त, 1991 ।

सी. एच. एम. सुदर्शन सिंह (सं. 4253129 एक्स अब  
जे. सी. -216919 डब्ल्यू) — 21 अगस्त 1991 ।

हवलदार रोबर्ट किरों (सं. 4253306 एम अब जे. सी. -  
216920 एल) — 13 सितम्बर, 1991 ।

##### नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) हरू राम चौखे (सं. 4251950 ए अब  
जे. सी. 216921 एल) — 01 जुलाई, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) हिरा लाल गय (सं. 4251956 एल अब  
जे. सी. -216922 डब्ल्यू) — 01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) मन मसिह तिरक्की (सं. 4251976 पी  
अब जे. सी. -216923 वाई) — 01 अगस्त, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) चन्द्र भान प्रसाद सिंह (सं. 4252017 एल  
अब जे. सी. -216924 एल) — 05 अगस्त, 1991 ।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव  
उाले बिना ज्येष्ठता दिनांक 01 अगस्त 1991 से दी  
जायेगी) ।

हवलदार (क्लर्क) विद्या धर दाम (सं. 4252023 वाई अब  
जे. सी. -216925 के) — 01 सितम्बर, 1991 ।

हवलदार (क्लर्क) राम प्रवेश प्रसाद (सं. 4252057 एम अब  
जे. सी. -216926 एम) — 01 सितम्बर, 1991 ।

#### महारा रीजिमेंट

##### नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पारधे अशोक गोविन्द (नं. 4548925 पी अब  
जे. सी. -216927 पी) — 01 जुलाई, 91 ।

सी एच एम चन्द्र सिंह (नं. 9214602 डब्ल्यू अब जे. सी.  
216728 एक्स) — 01 अगस्त, 91 ।

हवलदार जीतपाल सिंह (नं. 4543657 एम अब जे. सी. -  
216929 ए) — 01 अगस्त 91 ।

हवलदार ओम प्रकाश (नं. 4544550 डब्ल्यू अब जे. सी. -  
216930 पी) — 01 अगस्त, 91 ।

हवलदार चमन लाल (नं. 4544283 एल अब जे. सी. -  
216931 एक्स) — 01 अगस्त, 91 ।

हवलदार बिधि चन्व (नं. 9215073 एल अब जे. सी.  
216932 ए) — 01 अगस्त, 91 ।



हवलदार जय सिंह (सं. 9213554 पी अब जे. सी.-216933 एफ)—12 अगस्त, 91।

सी एच एम आरता भोई (नं. 9214352 ए अब जे. सी.-216934 एल)—01 सितम्बर, 91।

हवलदार भंवर सिंह (नं. 2866446 एच अब जे. सी.-216935 एन)—01 सितम्बर, 91।

हवलदार देवे करण (नं. 4545718 वाई अब जे. सी.-216936 डब्ल्यू)—01 सितम्बर, 91।

हवलदार बलबन्त सिंह (नं. 4548132 एम अब जे. सी.-216937 वाई)—01 सितम्बर, 91।

नायब सूबेदार कर्क (जी डी) के रैंक में

हवलदार कर्क (जी डी) हेत गम (नं. 9212871 के अब जे. सी.-216938 एफ)—01 अक्टूबर, 91।

हवलदार कर्क (जी डी) वामदेवन एन (नं. 9212864 एन अब जे. सी.-216939 के)—01 अक्टूबर, 91।

हवलदार कर्क (जी डी) रतन सिंह गवन (नं. 9212892 ए अब जे. सी.-216940 वाई)—01 अक्टूबर, 91।

11 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार लिपिक मनोज कुमार चक्रवर्ती (9412334 एच अब जे. सी.-216941 एफ)—29 सितम्बर, 91।\*

\* (वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता 01 सितम्बर 91 से दी जायेगी)।

हवलदार लिपिक राम चन्द्र ठाकूर (9412339 एफ अब जे. सी.-216942 के)—01 सितम्बर, 91।

हवलदार लिपिक किशोर चन्द्र (9412375 एम अब जे. सी.-216943 एम)—01 सितम्बर, 91।

हवलदार लिपिक किशोरी लाल (9412376 पी अब जे. सी.-216944 पी)—01 अक्टूबर, 91।

हवलदार लिपिक ओम प्रकाश (9412386 वाई अब जे. सी.-216945 एक्स)—01 अक्टूबर, 91।

हवलदार लिपिक वुली चन्द्र (9412842 वाई अब जे. सी.-216946 ए)—01 अक्टूबर, 91।

हवलदार लिपिक दलबीर सिंह बिष्ट (9412942 के अब जे. सी.-216947 एच)—01 अक्टूबर, 91।

हवलदार लिपिक दुर्गा प्रसाद मुब्बा (9412863 पी अब जे. सी.-216948 एल)—01 अक्टूबर, 91।

1 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार पूर्ण बहादुर थापा (सं. 5039334-ए अब जे. सी. 216949 एन)—15 सितम्बर 1991।

11—204GI/92

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 मई 1991 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार हरी प्रसाद राणा (सं. 5039337 एन)—अब जे. सी. 215950 एच) 1 अक्टूबर 1991

3 जी. आर.

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) लछमन सिंह सुयल (सं. 5241206 एल अब जे. सी.-216951 एल)—1 अक्टूबर 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव बिना ज्येष्ठता 1 अगस्त 1991 से दी जायेगी)

हवलदार (लिपिक) लाल बिहारी वर्मा (सं. 5241846 पी अब जे. सी. 216952 एन)—1 सितम्बर 1991.

हवलदार (लिपिक) इकमल किशोर (सं. 5241910 एफ अब जे. सी. 216953 डब्ल्यू)—1 सितम्बर 1991.

3 जी आर

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भीम बहादुर गुरुग (सं. 5240954 एम अब जे. सी. 216954 वाई)—5 अगस्त 1991.

हवलदार राम बहादुर थापा (सं. 5240893 ए अब जे. सी. 216955 एफ)—1 सितम्बर 1991.

हवलदार भूम बहादुर थापा (सं. 5241145 एन अब जे. सी. 216956 के)—1 अक्टूबर 1991.

9 जी. आर.

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार राम बहादुर खन्डका (सं. 5840610 एल अब जे. सी.-216957 एम)—1 दिसम्बर 1990।

हवलदार चक्र बहादुर खत्री (सं. 5841836 एच अब जे. सी. 216958 पी)—15 अप्रैल 1991।\*

\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 1 फरवरी 1991 से दी जायेगी)

हवलदार धन बहादुर खन्डका (सं. 13848873 के अब जे. सी. 216959 एक्स)—1 जुलाई 1991.

हवलदार तेज बहादुर थापा (सं. 5840628 ए अब जे. सी. 216960 एम)—1 सितम्बर 1991.

## लब्धाक्ष स्काउट्स

नायब सूबेदार (जी. डी.) के पद में

हवलदार सोनम फुन्चोक (सं. 9921468 एल अब जे. सी. 216961 पी)—1 सितम्बर 1991:

## कमांड रेजीमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

सी.एच.एम. मोहन सिंह (सं. 4156998 एच अब जे. सी. 175090 एच)—1 जनवरी 1988.

हवलदार चन्द्र सिंह (सं. 4155873 वाई अब जे. सी. 175091 एल)—1 फरवरी 1988.

आर.पी.एच.एम. भूपाल सिंह (सं. 4158937 के अब जे. सी. 175092 एन)—1 फरवरी 1988.

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

## कैप्टीन स्टोर विभाग

सं. 743, दिनांक 15 जुलाई 1992—राष्ट्रपति स्ववाङ्मन लीडर पी. रमेश को कैप्टीन स्टोर विभाग में उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं सेवा) के पद पर 1 अप्रैल, 1992 में तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित करते हैं।

प्रकाश चन्द, अवर सचिव

## (थल सेना विभाग)

सं. 744, दिनांक 3 जुलाई 1992—जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा निम्नलिखित अफसर को सजा दी गई है।

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

आई सी—38926 कैप्टन परमजीत सिंह, इन्फेन्ट्री :—

(क) रैंक और पूर्वता ग्रहण करते हैं माना, कैप्टन के रूप में, नियुक्ति की तारीख 7 जून, 1987।

(ख) पदोन्नति के लिए तीन साल की सेवा से वंचित।

(ग) पेंशन के लिए पिछले तीन साल की सेवा से वंचित—9 दिसम्बर 1991।

1 सी—34638 मेजर एस. बी. गोशी, ए. आ. सी.-पदोन्नति के लिए एक साल की सेवा से वंचित।

—22 नवम्बर, 1991।

ए. के. मलिक, सी. एम. आ.

डी ए एम एम 8 सी

-----

## (सेना विभाग)

## वृद्धि-पद

सं. 745, दिनांक 10 जुलाई 1992—भारत के राजपत्र में मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1853, दिनांक 17 दिसम्बर, 1990 के अंतर्गत जो कि राजपत्र सं. 3 दिनांक 19 जनवरी

1991 के शीर्षक "नियमित सेना" उप, शीर्षक "इन्फेन्ट्री" के अंतर्गत "सूबेदार" के रैंक में की गई :—

के स्थान पर "नायब सूबेदार पि. एन. रामचन्द्रन पिल्ले (जे. सी.-151588 एक्स)—1 सितम्बर, 1990।

पदा पाये "नायब सूबेदार" पि. एन. रामचन्द्रन पिल्ले (जे. सी.-151188 एक्स)—1 सितम्बर, 1990।

सं. 3, दिनांक 18 जनवरी 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1740 दिनांक 9 दिसम्बर 1991 जिसका शीर्षक "नियमित सेना" उप-शीर्षक "इन्फेन्ट्री" और "पंजाब रेजीमेन्ट" के अंतर्गत :—

## नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार बलबीर सिंह (नं. 2464421 के) अब जे. सी.-208032 एफ. 1 जनवरी 91 के स्थान पर

\*हवलदार बलबीर सिंह (नं. 2464421 के) अब जे. सी.-208032 एफ)—3 अप्रैल 91 पदों।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव बिना ज्योष्ठता 2 अक्टूबर 1990 से दी जायेगी)।

सं. दिनांक 10 जुलाई 1992—28 सितम्बर 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1120 दिनांक 24 जुलाई 1991 के शीर्षक "नियमित सेना" उपशीर्षक "इन्फेन्ट्री" और बिगोड के अंतर्गत नायब सूबेदार (क्लक) के रैंक में की गई :—

हवलदार (क्लक) कुलदीप सिंह (सं. 1366701 एक्स अब जे. सी.-303949 पी.)—01 नवम्बर, 1990 के स्थान पर

हवलदार (क्लक) कुलदीप सिंह (सं. 13667017 एक्स अब जे. सी.-203949 पी.)—01 नवम्बर, 1990 पदा जाए।

भारत के राजपत्र में मंत्रालय की अधिसूचना सं. 45 दिनांक 9 नवंबर, 1991 के अंतर्गत जो कि राजपत्र सं. 1371 दिनांक 9 अक्टूबर, 1991 के शीर्षक "नियमित सेना" उप-शीर्षक "इन्फेन्ट्री" के अंतर्गत नायब सूबेदार के रैंक में की गई :—

## के स्थान पर

हवलदार ए पन्मुगम (सं. 2474701 ए. अब जे. सी.-205861 के.)—1 मार्च, 1991।

## पदा पाये

हवलदार ए पन्मुगम (सं. 2574701 ए. अब जे. सी.-205861 के.)—1 मार्च, 1991।

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव बिना ज्योष्ठता 05 फरवरी, 1991 से दी जायेगी)

व. र. शर्मा,  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd August 1992

No. 731, dated 6th July 1992.—The President is pleased to appoint Smt Seema Bahuguna, IAS (RJ : 83) as Deputy Secretary in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 1-7-1992 to 13-9-1993 or until further orders, whichever is earlier.

HARI KUMAR, Under Secy.

## DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION &amp; SUPPLIES

No. 732, dated 26th June 1992.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Maiti, Works Manager, on transfer from Ordnance Factory Medak, as Technical Staff Officer (ASV) in the Dte. of Planning & Coordination, Deptt. of Defence Production & Supplies with effect from the forenoon of 10th June, 1992, on deputation basis.

K. P. SURENDRAN, Under Secy.

## (KARYALAYA MAHA NIDESHAK SASHASTRA SENA CHIKTSA SEWA)

No. 733, dated 16th July 1992.—The President is pleased to appoint Shri C P Panchal, Senior Store Superintendent as Store Officer (Civ) at Armed Forces Medical Stores Depot Lucknow with effect from 30 May 1992 (FN) till further orders. He will be on probation for a period of two years.

The President is pleased to appoint Shri S C Renjhen, Senior Store Superintendent as Store Officer (Civ) at Directorate of Standardization with effect from 29 May 1992 (FN) till further orders. He will be on probation for a period of two years.

The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Sohanlal Baldwa as Store Officer (Civ) in Armed Forces Medical Stores Depot Bombay with effect from 14 Aug 1991 (FN) till further orders. He will be on probation for a period for two years.

The President is pleased to appoint Shri N R Rathod, Senior Store Superintendent as Store Officer (Civ) at Armed Forces Medical Stores Depot Pune with effect from 28 May 1992 (FN) till further orders. He will be on probation for a period of two years.

K C RATAWAL,  
CSO  
DADG DG 2B

## (ARMY BRANCH)

No. 734, dated 3rd July 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

SM Kumar (IC-43653) Inf, RS Kataria (IC-43654) Inf, KV Kumar (IC-43655) Sigs, YS Charan (IC-43656) EME, PD Naidu (IC-43657) Engrs, Hari Singh (IC-43658) Engrs, Sudbir Kumar (IC-43659) EME, Sanjay Babbar (IC-43660) AC, BR Pillai (IC-43661) EME, Sanjiv Munj (IC-43662) AC, N Dwivedi (IC-43663) Inf, AK Soni (IC-43664) Engrs, Suhel Singh (IC-43665) AC, Balbir Singh (IC-

43666) AC, KS Brar (IC-43667) AC, NV Sunil Kumar (IC-43668) Inf, Shiv Pal Singh (IC-43669) Inf, Amarjit Singh (IC-43670) AC, RK Chhikara (IC-43671) Inf, Sudhanshu Varma (IC-43672) AOC, Gurjap Singh Gill (IC-43673) Inf, Tejbir Singh (IC-43674) Arty, SR Dhaga (IC-43675) Sigs, Rajender Singh (IC-43676) Inf, HP Sood (IC-43678) Arty, 14 June 1991.

Lt to be Capt

GPS Sisodiya (IC-43679) Inf, Rakesh Kapoor (IC-43680) Arty, A Karmaker (IC-43681) Inf, AK Samantara (IC-43682) Inf, Niranjan Kumar (IC-43683) Arty, Sanjiv Rai (IC-43686) Inf, Vivek Sharma (IC-43687) Inf, Kalyan Singh (IC-43688) Inf, PS Bajwa (IC-43689) Inf, HS Dhodi (IC-43690) AC, VB Bose (IC-43691) ASC, Sushil Rana (IC-43692) Inf, Ravinder Singh (IC-43693) AC, Sanjit Choudhary (IC-43694) Inf, Sarab Jit Singh (IC-43696) AOC, DB Khattri (IC-43697) Inf, Shailendra Singh (IC-43698) Arty, GP Singh (IC-43699) Arty, MS Sharma (IC-43701) Arty, P Rahul (IC-43702) Arty, RK Mathur (IC-43703) Arty, SQ Ahmed (IC-43704) Arty, RK Sharma (IC-43706) Sigs, AK Majumdar (IC-43707) Arty, P Patnaik (IC-43708) Inf, 14 June 1991.

TK Ajch (IC-43710) Inf, Deepak Malhotra (IC-43711) Sigs, ABK Sibal (IC-43712) Engrs, R Malhotra (IC-43713) Inf, JM George (IC-43714) Arty, PK Singh (IC-43715) Inf, Rajwant Singh (IC-43716) Arty, Mukund Sharma (IC-43717) Engrs, DS Yadav (IC-43718) Inf, SS Dabas (IC-43719) Inf, A Tripathi (IC-43720), AC, Rohit, Jamwal (IC-43721) Arty, DK Singh (IC-43722) Inf, HK Pant (IC-43723) ASC, SK Chugh (IC-43724) Arty, MK Katiyar (IC-43725) Inf, Samarjit (IC-43726) Inf, Bahadur Singh (IC-43727) AOC, RB Biradar (IC-43728) Engrs, Rajeev Saksena (IC-43729) Inf, Vikarant Navar (IC-43730) AC, Sandeep Pande (IC-43731) Inf, AA Pol (IC-43733) Inf, Yogesh Sehgal (IC-43734) Engrs, JC Talukdar (IC-43735) Arty, 14 June 1991.

DK Nain (IC-43736) AC, Rajeev Thapar (IC-43737) Inf, S Parthasarathy (IC-43738) Sigs, R Srivastava (IC-43739) Inf, Yogesh Arya (IC-43741) EME, RS Rati (IC-43743) Inf, BD Joshi (IC-43744) Engrs, Govind Singh (IC-43745) Inf, Adosh Kumar (IC-43746) Arty, Sanjeev Dhillon (IC-43747) AC, YS Redhu (IC-43748) Inf, MS

Natu (IC-43749) ASC, GPS Virk (IC-43750) Inf, BS Aujla (IC-43751) Inf, R Rajeev (IC-43752) Sigs, SC Upreti (IC-43753) Arty, RS Yadav (IC-43754) Inf, ACB Singh (IC-43755) Engrs, Sanjeev Langeh (IC-43756) Inf, MC Thomas (IC-43758) Inf, SB Kasar (IC-43759) Inf, Gurinder Singh (IC-43760) Engrs, SS Sidhu (IC-43761) AC, Niren Bharti (IC-43762) Inf, SP Tripathi (IC-43763) Arty, 14 June 1991.

S Bose (IC-43764) Arty, Narendra Singh (IC-43765) Inf, A Kale (IC-43766) Inf., Rajiv Srivastava (IC-43767) Arty, Mukesh Kumar Rastogi (IC-43768) Inf, SK Saharan (IC-43769) Arty, Shashi Bhushan (IC-43770) Inf, S Mohan (IC-43771) Arty, Ominder Singh (IC-43772) Inf, Naresh Kumar (IC-43773) ASC, AK Rohilla (IC-43776) Inf, PP Oak (IC-43777) Arty, Ajay Kaila (IC-43778) EME, Alok Jain (IC-43779) Arty, Dipak Banerjee (IC-43780) Inf, RP Sharma (IC-43782) Inf, KS Sharawat (IC-43783) Inf, Divraj Singh (IC-43784) Inf, AK Kalia (IC-43785) Sigs, RA Khan (IC-43786) AC, PV Janardhanan (IC-43787) Engrs, S Jaitly (IC-43788) AOC, V Muthanna (IC-43789) Inf, 14 June 1991.

Sanjav Singhal (IC-43790) Arty, MU Reddy (IC-43791) Sigs, JK Chaurasia (IC-43793) Inf, A Murugesan (IC-43795) Inf, Samir Gupta (IC-43796) Arty, Sunil Kumar VS (IC-43797) Arty, BS Mavi (IC-43798) AOC, VK

Patpatia (IC-43799) Inf, Ravi Singh (IC-43800) Engrs, Sanjay Bakshi (IC-43801) EME, SS Prabhu (IC-43803) Arty, Bhuvnesh Sharma (IC-43804) ASC, Atul Kochhar (IC-43805) Inf, Rajiv Ranjan (IC-43806) Arty, Jayadev K (IC-43807) Sigs, V Arya (IC-43810) Arty, Bishan Dutt (IC-43811) Inf, P Talwar (IC-43812) Arty, KRS Bhimraj (IC-43813) Inf, V Subramani (IC-43814) Engrs, C Sharma (IC-43815) AOC, KS Kataria (IC-43816) ASC, NG Railkar (IC-43817) Sigs, AP Kumar (IC-43819) Inf, GR Reddy (IC-43820) Inf, 14 June 1991.

NS Mangat (IC-43821) Inf, NR Babu (IC-43822) Inf, Satinder Singh (IC-43823) Inf, HS Aulakh (IC-43824) ASC, SKM Sreedharan (IC-43825) Engrs, Anil Kumar R (IC-43826) Arty, SS Narayanan (IC-43827) Engrs, Ashok Kumar (IC-43828) Inf, B Sebastian (IC-43830) Inf, VN Khadilkar (IC-43831) Sigs, Sukhjit Singh (IC-43832) Inf, SK Kahali (IC-43833) Arty, I Chatterjee (IC-43835) Inf, Rajinder Kumar (IC-43837) Sigs, Rajan Passi (IC-43838) ASC, A Sharma (IC-43839) Arty, KN Gautam (IC-43841) Inf, MK Das (IC-43842) Inf, Adish Yadav (IC-43843) Inf, BS Nahal (IC-43844) Inf, Sanjive Singh (IC-43845) Inf, Arun Kumar (IC-43846) Inf, P Jadeja (IC-43847) Engrs, CS Misra (IC-43848) Inf, JK Sharma (IC-43849) Arty, R Kumar (IC-43850) AOC, 14 June, 1991.

Virender Singh (IC-43851) AC, R Vijaya Kumar (IC-43852) Inf, Gurjit Singh (IC-43853) Inf, AD Sardana (IC-43854) EME, SG Sarpotdar (IC-43855) Inf, MG Sekaran (IC-43856) Arty, NK Jangley (IC-43857) Arty, Manjit Kumar (IC-43858) Sigs, HS Gill (IC-43859) ASC, Ajay Ahooja (IC-43862) Engrs, Sanjaya Pant (IC-43863) Arty, AM Gade (IC-43867) Sigs, Biswajit Das (IC-43868) Inf, P Kaul (IC-43869) Arty, SC Sharma (IC-43870) Sigs, SK Jena (IC-43871) Inf, Pradeep Bhatia (IC-43872) Inf, MRP Kumar (IC-43873) Arty, RK Yadav (IC-43874) Inf, Vijay Mehta (IC-43875) Inf, R Dewan (IC-43877) Inf, U Sundaram (IC-43878) Inf, SP Ahlawat (IC-43879) Arty, S Chaturvedi (IC-43880) ASC, SC Gupta (IC-43881) Arty, 14 June 1991.

S Bhattacharya (IC-43882) Engrs, S Sharma (IC-43883) ASC, Sudhir Kumar (IC-43886) Arty, Anshu Teri (IC-43887) ASC, Anil Kamolji (IC-43888) Engrs, AK Saksena (IC-43889) Inf, KS Uppal (IC-43890) AOC, Pawan Mehrotra (IC-43891) Inf, NPS Bana (IC-43892) Engrs, N Diwanji (IC-43893) Inf, Veeresh Bahadur (IC-43894) Inf, VSVK Nair (IC-43895) Arty, Sandeep Sud (IC-43897) Inf, RS Hans (IC-43898) EME, HM Maheshwari (IC-43899) Inf, Satash Kumar (IC-43902) Arty, P Mukherjee (IC-43903) Inf, AP Singh (IC-43904) Inf, RK Sharma (IC-43906) Arty, KK Sharma (IC-43907) Sigs, SP Vishwanath (IC-43908) AOC, Vishvajeet Singh (IC-43909) ASC, Aseem Joshi (IC-43910) Inf, Sanjay Kapur (IC-43911) Arty, 14 June 1991.

Sharad Tandon (IC-43912) ASC, SKB Shettar (IC-43913) Engrs, RK Mahana (IC-43914) Inf, AK Patra (IC-43915) Arty, SSS Rizvi (IC-43917) Arty, Rajib Mandal (IC-43918) Inf, Bhoop Singh (IC-43919) Inf, TK Raj (IC-43921) Inf, S Islam (IC-43922) Inf, Rajiv Kapur (IC-43923) Inf, R Kothari (IC-43925) Inf, Ramesh Kumar (IC-43927) Inf, S Bhandari (IC-43928) Arty, Abhay Singh (IC-43930) ASC, Virendra Singh (IC-43931) Inf, Bhupal Kumar (IC-43932) Arty, RS Kushwaha (IC-43933) Sigs, Ajit Kapoor (IC-43934) Arty, Arun Pandey (IC-43935) Inf, VK Sugathan (IC-43937) Inf, Rakesh Wadhawan (IC-43938) Inf, D Agarwal (IC-43940) Arty, RS Locham (IC-43941) ASC, Avinash Singh (IC-43942) AC, Sanjay Khattri (IC-43943) Inf, 14 June, 1991.

VK Bahree (IC-43944) Arty, Rajiv Chauhan (IC-43945) AOC, Sumitro Das (IC-43946) EME, T Banerjee (IC-43947) Sigs, D Choudhury (IC-43948) Inf, JS Bakshi (IC-43949) AC, SB Singh (IC-43950) Sigs, Ashwani Munshi

(IC-43951) Engrs, Santanu Ghosh (IC-43952) Inf, Inderjeet Singh (IC-43953) Inf, SK Sangwan (IC-43954) Inf, Sandeep Shankla (IC-43956) Inf, AP Gupta (IC-43957) Arty, Bikram Singh (IC-43958) Inf, SV Singh (IC-43959) Inf, PM Vasant (IC-43960) Arty, Pravin Vikram (IC-43961) Inf, KNK Kochu (IC-43962) Inf, P Agnihotri (IC-43964) Engrs, KD Ahlay (IC-43967) Arty, Bhupesh Kumar (IC-43968) Inf, Rakesh Juneja (IC-43969) Sigs, Rajeev Sharma (IC-43971) Inf, A Sindhvani (IC-43972) AOC, Alok Sharma (IC-43974) EME, S Mehrotra (IC-43975) Arty, SK Sinha (IC-43976) Arty, Sharad Kapur (IC-43981) Inf, N Malhotra (IC-43984) Arty, Raman Varma (IC-43987) Inf, S Sivaraman (IC-43991) Arty, V Ravikumar (IC-43993) ASC, SV Singh (IC-44014) AFC, BS Prasad (IC-44020) AFC, 14 June, 1991.

RAGHUBIR SINGH,  
CSO  
DAMS 8C

Tomas Ouseph (IC-37160) Engrs, 16 May 1982.

Ravi Shankar (IC-35102) Engrs, 22 Dec 1981.

B K Saxena (IC-34750) Engrs, 01 Feb 1988.

AK MALIK, CSO  
DAMS 8C

#### NATIONAL CADET CORPS

No. 735, dated 15th July 1992.—The President is pleased to grant commission to the undermentioned officer cadets in the National Cadet Corps w.e.f. the dates shown against their names :—

#### JUNIOR DIVISION

To be Third officer

#### Maharashtra

Nillewar Deorao (NCCJ/178102), 18-03-90.

Sanjay Aher (NCCJ/178103), 04-11-91.

Bhalerao Vineet Madhav (NCCJ/178104), 04-11-91.

Manwel Baburao Sonwane (NCCJ/178105), 04-11-91.

Nikumbh Gulabrao Dasharath (NCCJ/178106), 18-11-91.

Anil Kumar Pundlikrao Karwande (NCCJ/178107), 11-02-91.

Deshmukh Atul Gajananrao (NCCJ/178108), 05-11-91.

Ananda Tukaram Patil (NCCJ/178109), 04-11-91.

More Sanjay Shahajj (NCCJ/178110), 03-11-91.

#### Delhi

Harivirendra Singh (NCCJ/166039), 06-12-90.

Udai Singh (NCCJ/166040), 13-05-91.

Girish Chandra Tiwari (NCCJ/166041), 03-11-91.

Sunil Kumar (NCCJ/166042), 08-11-91.

Yogesh Sood (NCCJ/166043), 03-06-91.

#### Gujarat

Shaileshkumar Ramabhai Rathod (NCCJ/172054), 05-09-91.

Susmit M Shah (NCCJ/172055), 04-11-91.

Arvindbhai Bhailalbai Patel (NCCJ/172056), 04-11-91.

Sutaria Umakant Govindlal (NCCJ/172057), 03-11-91.

Parmar Amrutlal Motilal (NCCJ/172058), 03-11-91.

## NER

Umesh Chandra Mahanta (NCCJ/186048), 19-02-91.  
G. Subbian Dhas (NCCJ/186049), 06-11-91.  
Pramod Kumar Chaubey (NCCJ/186050), 26-02-92.  
Krishna Kumar Singh (NCCJ/186051), 29-02-92.  
Surendra Singh (NCCJ/186052), 29-02-92.

## Bihar

Braj Nandan Singh (NCCJ/160053), 06-11-91.  
Nand Kishore Singh (NCCJ/160054), 17-02-92.

## West Bengal

Ranjan Biswas (NCCJ/192055), 27-02-90  
Brajendra Nath Naskar (NCCJ/192056), 06-11-90.  
Gokul Chandra Sarkar (NCCJ/192057), 05-11-90.  
Kartik Chandra De (NCCJ/192058), 13-02-91.  
Judhisthir Chhatui (NCCJ/192059), 04-11-91.  
Kalyan Patra (NCCJ/192060), 03-11-91.  
Madna Mohan Mandal (NCCJ/192061), 11-11-91.  
Arvind Kumar Rai (NCCJ/192062), 04-11-91.

IS AHLUWALIA, VSM, Brig  
Dy DG (MS)

No. 736, dated 15th July 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

From T/O to S/O

## Bihar

T/O RN Jha (NCCJ/1720) wef 16-03-91.  
T/O RS Kumar (NCCJ/2004) wef 24-07-91.  
T/O AP Sharma (NCCJ/1960) wef 16-03-91.  
T/O BK Jha (NCCJ/160002) wef 13-09-91.  
T/O RK Prasad (NCCJ/160005) wef 12-09-91.  
T/O MP Singh (NCCJ/160018) wef 13-12-91.  
T/O SN Singh (NCCJ/160017) wef 12-12-91.  
T/O AK Tiwari (NCCJ/2009) wef 25-08-91.

## Maharashtra

T/O AK Kadam (NCCJ/82261) wef 25-08-91.  
T/O NU Sarwade (NCCJ/178005) wef 11-09-91.  
T/O PN Chavan (NCCJ/178006) wef 11-09-91.  
T/O AB Umbare (NCCJ/178007) wef 11-09-91.  
T/O YU Ahirrao (NCCJ/178019) wef 11-09-91.  
T/O DL Jasud (NCCJ/178042) wef 11-12-91.  
T/O PR Sawant (NCCJ/178021) wef 11-12-91.  
T/O RR Pawar (NCCJ/178022) wef 11-12-91.  
T/O DK Deole (NCCJ/178059) wef 11-12-91.  
T/O RV Thakre (NCCJ/178080) wef 11-09-91.

T/O SD Patil (NCCJ/178001) wef 11-09-91.  
T/O SD Patil (NCCJ/178002) wef 11-09-91.  
T/O HR Mali (NCCJ/178008) wef 11-09-91.  
T/O BJ Khobare (NCCJ/178004) wef 11-09-91.  
T/O RV Pawar (NCCJ/178024) wef 11-09-91.  
T/O CS Kulkarni (NCCJ/178010) wef 12-09-91.  
T/O GK Kulkarni (NCCJ/178013) wef 11-09-91.  
T/O ML Dhere (NCCJ/178012) wef 11-09-91.  
T/O SM Birajdar (NCCJ/178011) wef 11-09-91.  
T/O BK Shelke (NCCJ/82245) wef 10-03-89.  
T/O SD Shewale (NCCJ/82339) wef 15-06-91.  
T/O MSA Ghani (NCCJ/178063) wef 11-09-91.  
T/O TB Jadhav (NCCJ/178032) wef 22-03-92.  
T/O SS Jadhav (NCCJ/178036) wef 26-02-92.  
T/O JS Pipriya (NCCJ/178082) wef 01-12-91.  
T/O BK Waghmode (NCCJ/178035) wef 27-02-92.  
T/O BK Kakad (NCCJ/178030) wef 25-02-92.  
T/O SH Teli (NCCJ/178025) wef 21-03-92.  
T/O MM Shitole (NCCJ/178046) wef 06-02-92.  
T/O DK Madane (NCCJ/178037) wef 25-02-92.  
T/O NS Mone (NCCJ/178039) wef 21-03-92.  
T/O ST Mane (NCCJ/178043) wef 01-12-91.  
T/O RL Gholap (NCCJ/178044) wef 01-12-91.  
T/O HR Darade (NCCJ/82270) wef 24-07-92.  
T/O UD Joshi (NCCJ/178038) wef 21-03-92.  
T/O KL Khaire (NCCJ/178047) wef 12-03-92.  
T/O DS Deore (NCCJ/178034) wef 21-03-92.

## NER

T/O Rashamoy Saha (NCCJ/795) wef 10-05-91.  
T/O D Banik (NCCJ/796) wef 10-05-91.  
T/O MS Singh (NCCJ/186020) wef 01-12-91.

## Gujarat

T/O KD Jalag (NCCJ/35784) wef 06-04-91.  
T/O VT Jadhav (NCCJ/1720011) wef 27-12-91.  
T/O SD Khedkar (NCCJ/172010) wef 28-12-91.  
T/O DD Mahida (NCCJ/172005) wef 11-09-91.  
T/O SJ Patel (NCCJ/172004) wef 11-09-91.  
T/O NO Gondalia (NCCJ/172007) wef 01-12-91.

## West Bengal

T/O GN Bhunia (NCCJ/15798) wef 15-03-91.  
T/O SR Mahoto (NCCJ/192003) wef 13-09-91.  
T/O SKN Amin (NCCJ/192009) wef 21-01-92.  
T/O B Sarkar (NCCJ/192010) wef 21-01-92.  
T/O DC Sharma (NCCJ/N/15638) wef 14-04-85.

## Delhi

T/O JB Sharma (NCCJ/166013) wef 01-08-91.  
T/O HR Singh (NCCJ/166017) wef 01-08-91.  
T/O SK Sharma (NCCJ/166007) wef 01-12-91.

From Second Officer to First Officer

## Maharashtra

S/O VK Gajare (NCCJ/82157) wef 27-02-92.  
S/O RM Chauhan (NCCJ/81977) wef 01-12-91.  
S/O SM Ranaware (NCCJ/82033) wef 25-08-91.  
S/O AM Wakode (NCCJ/82226) wef 27-02-92.  
S/O JB Baviskar (NCCJ/82153) wef 27-02-92.  
S/O LG Patil (NCCJ/82154) wef 27-02-92.  
S/O JV Patil (NCCJ/82167) wef 02-05-92.  
S/O BD Nalawade (NCCJ/82152) wef 27-02-92.  
S/O BR Patil (NCCJ/82151) wef 27-02-92.  
S/O VM Mahajan (NCCJ/82145) wef 01-12-91.  
S/O MP Daultani (NCCJ/N/82228) wef 14-05-92.  
S/O IA Shaikh (NCCJ/82168) wef 27-11-91.  
S/O NN Gavhane (NCCJ/82014) wef 08-10-91.  
S/O MR Narkhede (NCCJ/82013) wef 08-10-91.  
S/O HA Jadhavar (NCCJ/81967) wef 29-7-87.  
S/O BP Rajguru (NCCJ/82165) wef 06-09-91.

## NER

S/O BD Nath (NCCJ/762) wef 10-08-91.  
S/O BC Pal (NCCJ/25829) wef 26-02-90.  
S/O AC Goswami (NCCJ/687) wef 10-09-91.  
S/O UN Gayan (NCCJ/740) wef 02-12-91.  
S/O L Bashkar (NCCJ/25833) wef 09-08-91.

## Gujarat

S/O HR Goswami (NCCJ/35710) wef 01-11-91.  
S/O KJ Vala (NCCJ/35701) wef 24-07-91.

## West Bengal

S/O SK Dutta (NCCJ/15180) wef 05-12-90.  
S/O A Chakraborty (NCCJ/15695) wef 14-09-91.  
S/O AK Dhara (NCCJ/15602) wef 01-12-91.  
S/O AC Chaturvedi (NCCJ/15635) wef 24-07-91.  
S/O LM Maity (NCCJ/15685) wef 01-12-91.  
S/O SC Sarker (NCCJ/15468) wef 04-12-91.  
S/O RK Ghosh (NCCJ/A/15645) wef 08-10-91.  
S/O SC Roy (NCCJ/15553) wef 26-07-89.  
S/O PK Pal (NCCJ/15598) wef 20-05-89.  
S/O VP Singh (NCCJ/15574) wef 06-12-89.

## Bihar

S/O TK Biswas (NCCJ/1820) wef 24-07-91.  
S/O K Sharma (NCCJ/1761) wef 25-08-91.  
S/O A Kumar (NCCJ/1908) wef 24-09-91.  
S/O DC Singh (NCCJ/1810) wef 16-03-91.  
S/O RD Mishra (NCCJ/1901) wef 25-08-91.  
S/O M Mandal (NCCJ/1906) wef 22-12-91.  
S/O U Kumar (NCCJ/1913) wef 28-02-91.  
S/O GS Singh (NCCJ/1915) wef 29-02-92.  
S/O NK Lal (NCCJ/1921) wef 01-03-92.  
S/O Md Nizamuddin (NCCJ/1927) wef 28-02-92.  
S/O SN Prasad (NCCJ/1926) wef 28-02-92.  
S/O SN Singh (NCCJ/1918) wef 29-02-92.

## Delhi

S/O KK Yadav (NCCJ/166010) wef 13-09-91.

From First Officer to Chief Officer  
Maharashtra

F/O KK Mishra (NCCJ/81843) wef 01-10-91.  
F/O SA SA Mustaque (NCCJ/81815) wef 09-09-91.  
F/O VS Shlvankar (NCCJ/81853) wef 08-10-91.  
F/O VV Kavimandan (NCCJ/81851) wef 09-09-91.  
F/O NS Mote (NCCJ/81835) wef 16-07-91.

## Bihar

F/O KP Singh (NCCJ/1729) wef 24-02-92.  
F/O SD Prasad (NCCJ/1739) wef 18-03-92.  
F/O GL Das (NCCJ/1749) wef 17-01-92.  
F/O RP Mahto (NCCJ/1732) wef 01-01-92.

## Gujarat

F/O MK Ghodesara (NCCJ/35626) wef 01-10-91.  
F/O MP Trivedi (NCCJ/35588) wef 18-07-91.

## West Bengal

F/O P Karak (NCCJ/15153) wef 24-07-91.  
F/O MP Ganguly (NCCJ/15399) wef 25-08-91.  
F/O DR Mukhopadhyay (NCCJ/15491) wef 15-01-92.  
F/O GN Ghosh (NCCJ/15442) wef 01-12-91.

## NER

F/O MS Tyagi (NCCJ/482) wef 25-08-91.  
F/O J Prasad (NCCJ/684) wef 24-07-91.  
F/O NC Saimah (NCCJ/683) wef 15-11-90.  
F/O WK Singh (NCCJ/755) wef 01-01-92.

JS AHLUWALIA, VSM Brig  
Dy DG (MS)

## ARMY BRANCH

No. 737, dated 15th July 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be substantive : BRIG

- Col BN Datt (IC-12130), Arty, 02-02-90.  
 Col DA Paranjape (IC-12416), Vrc, Inf, 02-02-90.  
 Col SK Dewan (IC-12488), ASC, 02-02-90.  
 Col MV Paul (IC-12598), Inf, 02-02-90.  
 Col DD Bhalla (IC-12624), SC, Inf, 02-02-90.  
 Col SC Gupta (IC-12638), AOC, 02-02-90.  
 Col AK Mishra (IC-12932), Inf, 02-02-90.  
 Col RC Sharma (IC-12930), Inf, 02-02-90.  
 Col SC Manocha (IC-13026), AOC, 02-02-90.  
 Col RN Mahajan (IC-19799), EME, 02-02-90.  
 Col MM Batra (IC-19801), Engrs, 19-02-90 with seniority from 02-02-90 without effect on pay and pension.  
 Col MS Shergill (IC-13152), Vrc, AC, 02-02-90.  
 Col RS Kadyan (IC-13153), VSM, Inf, 02-02-90.  
 Col CL Verma (IC-13164), Engrs, 21-01-91 with seniority from 02-02-90 without effect on pay and pension.  
 Col DK Madan (IC-13168), Inf, 02-02-90.  
 Col RPRC Naidu (IC-13169), VSM, 02-02-90.  
 Col PK Sharma (IC-13172), Vrc, Arty, 02-02-90.  
 Col JP Singh (IC-13175), AC, 02-02-90.  
 Col PC Uppal (IC-13177), Inf, 02-02-90.  
 Col Virender Kumar (IC-13185), Sigs, 02-02-90.  
 Col HRS Kalkat (IC-13193), Inf, 02-02-90.  
 Col HS Sangha (IC-13194), Inf, 02-02-90.  
 Col BS Malik (IC-13198), AVSM, Inf, 02-02-90.  
 Col MS Puri (IC-13199), Inf, 02-02-90.  
 Col PS Miglani (IC-13204), Arty, 02-02-90.  
 Col JK Chadda (IC-13214), Inf, 02-02-90.  
 Col AK Sethi (IC-13228), EME, 01-03-90.  
 Col US Narula (IC-13231), Arty, 01-03-90.  
 Col MM Bhutia (IC-13233), Sigs, 01-03-90.  
 Col SJS Saighal (IC-13244), Arty, 01-03-90.  
 Col SBS Kochar (IC-13247), Inf, 01-03-90.  
 Col JS Mann (IC-13248), Arty, 01-04-90.  
 Col BS Gill (IC-13251), Arty, 01-04-90.  
 Col RS Pathania (IC-13254), Inf, 01-04-90.  
 Col AC Sharma (IC-13260), VSM, AOC, 01-04-90.  
 Col AN Sirpurkar (IC-13261), Inf, 01-04-90.  
 Col SS Grewal (IC-13264), SM, Inf, 01-04-90.  
 Col SC Magotra (IC-13265), Arty, 01-04-90.  
 Col Sultan Mahmood (IC-13270), Arty, 01-04-90.  
 Col AS Adhikari (IC-13275), VSM, Inf, 01-04-90.  
 Col SS Vasudeva (IC-13294), Engrs, 01-04-90.  
 Col SS Kaler (IC-13297), Inf, 01-04-90.  
 Col Vijay Lall (IC-13306), AOC, 01-04-90.  
 Col SK Jandial (IC-13311), Sigs, 01-04-90.  
 Col KS Dhillon (IC-13320), Arty, 01-04-90.  
 Col RN Batra (IC-13323), AOC, 10-04-90.  
 Col AS Bal (IC-13377), MVC, AC, 16-04-90.  
 Col ARK Reddy (IC-13379), Inf, 28-04-90.  
 Col AS Rao (IC-13385), Inf, 01-05-90.  
 Col B Sinha (IC-13393), ASC, 01-05-90.  
 Col Avtar Singh (IC-13395), Inf, 01-05-90.  
 Col RC Bhatia (IC-13398), Inf, 01-05-90.  
 Col HC Dua (IC-13348), Arty, 01-05-90.  
 Col AK Mohla (IC-13350), ASC, 01-05-90.  
 Col HD Panth (IC-13357), Inf, 01-05-90.  
 Col SS Bhatti (IC-13358), VSM, Arty, 01-05-90.  
 Col KK Chaturvedi (IC-13415), Arty, 01-05-90.  
 Col JK Ralli (IC-13416), YSM, Inf, 01-05-90.  
 Col RB Sharma (IC-13442), AEC, 20-10-90 with seniority from 01-05-90 without effect on pay and pension.  
 Col FF Bulsara (IC-13234), AVSM, Inf, 01-05-90.  
 Col BS Neelakantappa (IC-23664), EME, 14-07-90 with seniority from 01-05-90 without effect on pay and pension.  
 Col ZS Khosa (IC-19776), EME, 01-05-90.  
 Col RM Shukla (IC-13227), Sigs, 01-05-90.  
 Col MM Belliappa (IC-13375), VSM, Inf, 01-05-90.  
 Col C Narain (IC-13521), Engrs, 09-08-90 with seniority from 01-06-90 without effect on pay and pension.  
 Col MPS Kaundal (IC-13522), Engrs, 01-06-90.  
 Col AV Sathe (IC-13523), Engrs, 01-06-90.  
 Col SS Karki (IC-13527), Engrs, 17-07-90 with seniority from 01-06-90 without effect on pay and pension.  
 Col RS Randhawa (IC-13528), AC, 01-06-90.  
 Col RM Chadha (IC-13529), Engrs, 15-06-90.  
 Col VB Batra (IC-13531), Arty, 15-06-90.  
 Col MMA Cariappa (IC-13532), Inf, 01-07-90.  
 Col SD Sohoni (IC-13534), Engrs, 10-07-90 with seniority from 01-07-90 without effect on pay and pension.  
 Col RK Kashyap (IC-13538), VSM, EME, 01-07-90.  
 Col KM Palande (IC-13539), AVSM, Inf, 01-07-90.  
 Col SV Singh (IC-13544), Inf, 01-07-90.  
 Col SG Vombatkere (IC-13545), Engrs, 10-07-90 with seniority from 01-07-90 without effect on pay and pension.  
 Col VL Vohra (IC-13547), AOC, 01-07-90.  
 Col SK Kariappa (IC-13548), YSM, Arty, 01-07-90.  
 Col SC Kukereja (IC-13552), ASC, 01-07-90.  
 Col HS Sachdeva (IC-13553), SM, VSM, Inf, 14-07-90.  
 Col BK Kataria (IC-13558), VSM, Sigs, 28-07-90.  
 Col SD Sood (IC-13560), Inf, 01-08-90.  
 Col VK Chattarjee (IC-13562), Sigs, 01-08-90.  
 Col NL Poonia (IC-13565), SM, Inf, 01-08-90.  
 Col AK Aldakha (IC-13566), EME, 01-08-90.  
 Col Surendra Varma (IC-13567), Inf, 01-08-90.  
 Col VK Shrivastava (IC-13575), Inf, 01-08-90.  
 Col SN Varma (IC-13580), Inf, 01-08-90.  
 Col SS Pathania (IC-13581), Inf, 01-08-90.  
 Col Ranbir Sethi (IC-13583), Arty, 01-08-90.  
 Col SD Singh (IC-13587), Sigs, 04-08-90.  
 Col JP Singh (IC-13591), Sigs, 08-08-90.  
 Col VK Bajaj (IC-13592), Sigs, 08-08-90.  
 Col SK Datta (IC-13593), Sigs, 10-08-90.

- Col AK Sharma (IC-13594), EME, 23-08-90.  
 Col SC Jolly (IC-13597), Int Corps, 01-09-90.  
 Col SS Kapoor (IC-13601), Sigs, 01-09-90.  
 Col KK Khajuria (IC-13606), Inf, 01-09-90.  
 Col RR Palsokar (IC-13607), Inf, 01-09-90.  
 Col SC Kuthiala (IC-13621), Arty, 01-09-90.  
 Col GS Khimta (IC-13632), Inf, 01-09-90.  
 Col MA Gurbaxani (IC-13633), Inf, 01-09-90.  
 Col Shankar Prasad (IC-13642), VSM, Inf, 01-09-90.  
 Col PK Puri (IC-13650), Inf, 01-09-90.  
 Col VK Sareen (IC-13652), AOC, 01-09-90.  
 Col BM Narang (IC-13655), Inf, 01-09-90.  
 Col RS Sobal (IC-13659), Inf, 02-09-90.  
 Col SK Singh (IC-13665), Inf, 02-09-90.  
 Col PS Grewal (IC-13673), AOC, 02-09-90.  
 Col AS Popli (IC-13676), VSM, EME, 25-09-90.  
 Col Surendra Shah (IC-13687), Inf, 25-09-90.  
 Col MK Baratan (IC-13765), Arty, 25-09-90.  
 Col ZS Dhaliwal (IC-13772), Inf, 25-09-90.  
 Col JK Tomar (IC-13775), VrC, Inf, 25-09-90.  
 Col AS Nirodhi (IC-13789), Inf, 25-09-90.  
 Col SK Arora (IC-13795), Sigs, 25-09-90.  
 Col NC Vij (IC-13710), Inf, 25-09-90.  
 Col GS Kahlon (IC-13714), Inf, 25-09-90.  
 Col VK Sarda (IC-13715), VrC, Inf, 25-09-90.  
 Col PS Joshi (IC-13720), VSM, Inf, 25-09-90.  
 Col C Nandwani (IC-13726), VSM, ASC, 25-09-90.  
 Col RM Murgai (IC-13745), SM, ASC, 25-09-90.  
 Col SS Patil (IC-13799), UYSM, Inf, 25-09-90.  
 Col PM Bhatt (IC-13808), SM, VSM, Inf, 25-09-90.  
 Col KC Satapathy (IC-13809), Arty, 25-09-90.  
 Col BA Kariappa (IC-13810), Inf, 25-09-90.  
 Col DP Singh (IC-13817), VrC, Inf, 25-09-90.  
 Col RK Nanavatty (IC-13878), Inf, 25-09-90.  
 Col R Malhotra (IC-13881), AC, 25-09-90.  
 Col Kulwant Singh (IC-13867), Engrs, 29-12-90 with seniority from 25-09-90 without effect on pay and pension.  
 Col A Sawhny (IC-13888), Engrs, 25-09-90.  
 Col PK Bhandari (IC-13893), Inf, 25-09-90.  
 Col Mohan Singh (IC-13894), Engrs, 25-09-90.  
 Col SS Mehta (IC-13898), AVSM, VSM, AC, 25-09-90.  
 Col BS Rathee (IC-13900), EME, 25-09-90.  
 Col IS Dhillon (IC-13905), Engrs, 25-09-90.  
 Col SM Chand (IC-13908), Arty, 25-09-90.  
 Col SS Puri (IC-13911), Engrs, 25-09-90.  
 Col Gurpreet Singh (IC-13914), Int, 25-09-90.  
 Col AS Bal (IC-13916), AC, 25-09-90.  
 Col SK Gupta (IC-13917), EME, 25-09-90.  
 Col GM Lasrado (IC-13921), Arty, 25-09-90.  
 Col SC Khullar (IC-13928), Inf, 25-09-90.  
 Col Shamsheer Singh (IC-13929), Sigs, 25-09-90.  
 Col V Jayashankar (IC-13946), Inf, 25-09-90.  
 Col VK Sewal (IC-13947), AC, 25-09-90.  
 Col S Bahree (IC-13950), Arty, 25-09-90.  
 Col DS Chauhan (IC-13951), UYSM, VSM, Inf, 25-09-90.  
 Col SK Jain (IC-13954), AVSM, VSM, EME, 25-09-90.  
 Col CS Panag (IC-13960), YSM, Inf, 25-09-90.  
 Col HS Mangat (IC-13962), Inf, 25-09-90.  
 Col SC Chopra (IC-13963), VSM, Inf, 25-09-90.  
 Col HS Bagga (IC-13969), Inf, 25-09-90.  
 Col H Uniyal (IC-13971), Engrs, 25-09-90.  
 Col AK Sharma (IC-13983), Sigs, 25-09-90.  
 Col Kanwaljit Singh (IC-13992), Inf, 25-09-90.  
 Col RK Batra (IC-13997), Arty, 25-09-90.  
 Col MS Dhaka (IC-14002), Arty, 25-09-90.  
 Col R Mehta (IC-14003), VSM, AOC, 25-09-90.  
 Col VL Gunjkar (IC-14006), Inf, 25-09-90.  
 Col Dharamjit Singh (IC-14011), Inf, 25-09-90.  
 Col Krishan Pal (IC-14039), VSM\*, Inf, 25-09-90.  
 Col MS Chandoke (IC-14058), ASC, 25-09-90.  
 Col JS Kang (IC-14060), Int Corps, 25-09-90.  
 Col CPS Manoharan (IC-14205), Arty (GC), 25-09-90.  
 Col HC Gangoli (IC-14210), Inf, 25-09-90.  
 Col SG Pitre (IC-14261), Engrs, 08-10-90 with seniority from 25-09-90 without effect on pay and pension.  
 Col HC Joshi (IC-14266), Inf, 25-09-90.  
 Col KK Gangully (IC-14269), Inf, 25-09-90.  
 Col OP Rakwal (IC-14271), Inf, 25-09-90.  
 Col SC Dutta (IC-14077), EME, 05-11-90 with seniority from 25-09-90 without effect on pay and pension.  
 Col R Karthikeyan (IC-14105), Inf, 25-09-90.  
 Col GS Brar (IC-14106), Inf, 25-09-90.  
 Col SB Joshi (IC-14142), Engrs, 25-09-90.  
 Col SP Malhotra (IC-14155), Arty, 25-09-90.  
 Col NS Gill (IC-14160), Inf, 25-09-90.  
 Col CK Maitra (IC-14172), VSM, Arty, 25-09-90.  
 Col V Ramanan (IC-14228), Inf, 25-09-90.  
 Col RP Singh (IC-14287), KC, Inf, 25-09-90.  
 Col GS Srivastava (IC-14288), Arty, 25-09-90.  
 Col BS Sandhu (IC-12481), AC, 25-09-90.  
 Col SS Randhawa (IC-12965), Arty, 25-09-90.

KP THOMAS, Asstt. Military Secy. (X)  
SCSO

No. 738, dated 15th July 1992.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Substantive Subedars Clk AOC

Paid Acting Sub Clk S Cont Surendra Kumar Singh (JC-176575X), 01 Mar 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Kashi Nath Bohera (JC-180510F), 01 May 91.



Paid Acting Sub Clk S Cont Bhanwar Singh (JC-187701Y), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Clk GD Harlal Singh Verma (JC-18703X), 01 Oct 91.

Paid Acting Sub Clk GD Ram Lakhan Mishra (JC-187032L), 01 Oct 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Harish Singh Bhist (JC-187056Y), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ram Charan Dube (JC-187057X), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Har Mohinder Singh (JC-187094L), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Ghan Shyam Singh Chouhan (JC-187014N), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Mohinder Lal Uddassi (JC-186990H), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Jog Raj Singh (JC-187221Y), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Darshan Lal Sahota (JC-187224H), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Devinder Singh Cheema (JC-186923F), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Bhagat Singh Sinsinwar (JC-186991F), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Harcharan Singh (JC-186992X), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Nilkanta Barooah (JC-187074Y), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Achannagari Narsialah N (JC-187181Y), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Babu Lal (JC-187242L), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Dharampal Singh Varma (JC-187243N), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Ramayan Prasad (JC-187139A), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Lakshmi Dass (JC-187244W), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Cont Joginder Singh (JC-186944X), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk GD Shiv Chandra Prasad Singh (JC-186602K), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Suiles Das (JC-187038M), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Gopal Prasad Sinha (JC-187225L), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Krishnan Kaitheyil Velappil (JC-187039L), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Sathwara Dashrath Bhai (JC-186993A), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Ram Chandra Krishnan G (JC-187154P), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Clk S Prov Binod Chandra Kalita (JC-186968F), 01 Dec 91.

To be Substantive Subedars Store Keeper Technical

Paid Acting Sub Skt Sig (Paramhans Singh (JC-192152N), 01 Nov 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Umed Singh (JC-187763Y), 01 May 91.

Paid Acting Sub Skt Sig Hari Chand (JC-186996N), 01 Jun 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Lankhade Bhim Raj (JC-187022F), 01 Jun 1991.

Paid Acting Sub Skt Engr Harendra Nath Saikla (JC-187789V), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Khandar Singh Rathore (JC-187783M), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Gurnam Singh (JC-187251M), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt MT Vakil Yadav (JC-187065W), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt MT Shesh Nath Parbat (JC-187080L), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt Engr Ram Sarup (JC-187161L), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt Engr Ravindra Pal Singh Rawat (JC-187273L), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt MT Vagta Ram Godara (JC-192153W), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt MT Vagta Ram Godara (JC-192153W), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Wep Samuel KG (JC-187089A), 01 Sep 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Purna Chandra Mohanty (JC-187003W), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Rukam Kesh Yadav (JC-187091X), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Jawahar Singh Mannu Singh (JC-187275W), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Akshya Bat Giri (JC-187201F), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Yudhabir Singh Gusain (JC-187003W), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Shyam Prasad Bandopadhyay (JC-187276Y), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Roshan Lal (JC-187169X), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Jasbir Singh (JC-187223A), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Prabhakar Bandre (JC-187143H), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Chundurur Subha Rao (JC-187202K), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Wep Praphulla Kumar Sahoo (JC-187048W), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Biswa Nath Ariya (JC-187109H), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Kunna Kannappan (JC-187203M), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Santhiagu Pankiras (JC-187204P), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Abdus Subhan (JC-187205X), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Shri Krishna Yadav (JC-187206F), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Mutum Bakul Singha (JC-187110X), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Sarju Ram Verma (JC-187278K), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Ama Gaikad Babu (JC-187207H), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt MT Charlas Maroti Bharna (JC-187279F), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Abdulla Koori (JC-187280F), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Satvir Singh Rana (JC-187208L), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Amarjit Singh (JC-187210H), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Hem Chander Rana (JC-186934N), 01 Dec 91.

Paid Acting Sub Skt Amn Lodu Kishore Mahapatra (JC-187211L), 01 Jan 92.

Paid Acting Sub Skt GS&C Sounder Chettiar Sankarval (JC-187281K), 01 Jan 92.

Paid Acting Sub Skt GS&C Brijesh Kumar Singh (JC-186953F), 01 Jan 91.

Paid Acting Sub Skt GS&C Rajappan Asarika (JC-187212N), 01 Jan 92.

Paid Acting Sub Skt GS&C Raj Kishore Tiwari (JC-187213W), 01 Jan 92.

Paid Acting Sub Skt Amn Lallan Ram (JC-189735L), 01 Jan 92.

Paid Acting Sub Skt Sig Bhagat Singh Chandla (JC-189736N), 01 Jan 92.

Paid Acting Sub Skt GS&C Puran Chand (JC-186608L), 01 Jan 92.

S. K. RAY, Under Secy.

No. 799, dated 20th July 1992.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
INTELLIGENCE CORPS

(To be Nb Sub)

Hav Karn Singh (No. 3975934X now JC-219822W), 18 Apr 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jan 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Lal Singh (No. 3976447K now JC-219823Y), 21 Apr 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Jan 1992 without effect on pay and allowances).

Hav Khema Raj Bista (No. 5844126W now JC-219824F), 13 Apr 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Feb 1992 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Cik)

Hav(Cik) Shakti Chand Khanoria (No. 14522378L now JC-219825K), 13 Apr 92.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Feb 1992 without effect on pay and allowances).

Hav(Cik) Manohar Lal (No. 4055492H now JC-219826M), 22 Feb 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Feb 1992 without effect on pay and allowances).

Hav(Cik) A. Natesan (No. 14524713H now JC-219827P), 09 Apr 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Mar 1992 without effect on pay and allowances).

Hav(Cik) Mahabir Singh Chauhan (No. 14307784K now JC-219828X), 24 Apr 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 1 Apr 1992 without effect on pay and allowances).

Hav(Cik) Pitamber Datt Barthwal (No. 4052987K now JC-219829A), 24 Apr 1992.

(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Apr 1992 without effect on pay and allowances).

Hav(Cik) Mohanan Nair G (No. 14312293X now JC-219830P), 01 May 1992.

(To be Subedar)

Nb Sub Durga Singh Negi (JC-176806H), 01 May 1992.

Nb Sub Govind Singh (JC-176807L), 01 May 1992.

Nb Sub Teg Singh Rawat (JC-176808M), 01 May 1992.

Nb Sub Member Singh (JC-176809W), 01 May 1992.

Nb Sub Sham Chand Rajwa (JC-176810L), 01 May 1992.

Nb Sub Girish Chandra Singh Rawat (JC-176811N), 01 May 1992.

Nb Sub Mohan Singh Rana (JC-176812W), 01 May 1992.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-176813Y), 01 May 1992.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Cik) Banwari Lal Sharma (JC-176868H), 01 May 1992.

Nb Sub(Cik) Ajit Kumar Dubey (JC-176869L), 01 May 1992.

(To be Subedar Major)

Subedar Jagdish Chand (JC-115986A), 01 May 1992.

Subedar Puran Singh Kaira (JC-118947M), 01 May 1992.

PREM KUMAR HANS, Desk Officer

No. 740, dated 10th July 1992.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Tota Ram (JC-174130M), 1st Sep 1991.

Nb Sub K Gopalan (JC-158843N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Pooran Chandra (JC-179638A), 1st Jan 1992.

Nb Sub Tej Bahadur Chhetri (JC-176999N), 1st Jan 1992.

Nb Sub Hassan Kutty Rowther Sainullabdin (JC-146242W), 1st Jan 1992.

Nb Sub Phool Singh (JC-176213W), 1st Feb 1992.

Nb Sub Phool Singh (JC-176213W), 1st Feb 1992.

Nb Sub P Hari Dasg (JC-158532A), 1st Feb 1992.

Nb Sub Naresh Kumar Sharma (JC-163007N), 1st Mar 1992.	Nb Sub Raghu Nath Pal (JC-171105H), 1st June 1992.
Nb Sub Alagarsami Pandian (JC-170956H), 1st Mar 1992.	Nb Sub Ranjit Singh (JC-156281H), 1st July 1991.
Nb Sub Bansi Lal (JC-172126L), 1st Mar 1992.	Nb Sub Jagdish Prashad (JC-169769X), 1st Aug 1991.
Nb Sub Surjeet Singh (JC-173315F), 1st Mar 1992.	Nb Sub Bharpoor Singh (JC-175556A), 1st Aug 1991.
Nb Sub M Sethuraman (JC-179206L), 1st Mar 1992.	Nb Sub Sheelak Ram (JC-178827X), 1st Sep 1991.
N Sub Ckeerath Venugopalan (JC-187621F), 1st Mar 1992.	Nb Sub Shiv Nayak Singh (JC-179634K), 1st Sep 1991.
Nb Sub Ram Pyare (JC-177009K), 1st Mar 1992.	Nb Sub Khem Chand Verma (JC-182096M), 1st Sep 1991.
Nb Sub Lachhuman Gurung (JC-181036L), 1st Mar 1992.	Nb Sub S Murugesan (JC-182103X), 1st Sep 1991.
Nb Sub Surjeet Singh (JC-157980A), 1st Mar 1992.	Nb Sub S M D Galib (JC-182102P), 1st Sep 1991.
Nb Sub V Baby (JC-152703L), 1st Mar 1992.	Nb Sub Jarnail Singh (JC-181047X), 1st Sep 1991.
Nb Sub Shamsher Singh (JC-158006F), 1st Mar 1992.	Nb Sub Kaptan Singh (JC-178914L), 1st Sep 1991.
Nb Sub Sabha Chand (JC-154762W), 1st Mar 1992.	Nb Sub Dharpal Singh (JC-182039L), 1st Sep 1991.
Nb Sub Tanaji Ingale (JC-155896F), 1st Mar 1992.	Nb Sub Rai Singh (JC-182118A), 1st Sep 1991.
Nb Sub Raj Kumar Shukla (JC-164706L), 1st Mar 1992.	Nb Sub Dhanna Lal Yadav (JC-184622Y), 1st Sep 1991.
Nb Sub Kashmiri Lal (JC-169758L), 1st Mar 1992.	Nb Sub Kishan Chand (JC-184548H), 1st Sep 1991.
Nb Sub Purushottam Lal Sharma (JC-171084X), 1st Apr 1992.	Nb Sub Kailash Singh (JC-186471K), 1st Sep 1991.
Nb Sub KV Radhakrishnan (JC-171227M), 1st Apr 1992.	Nb Sub Harbans Singh (JC-190732K), 1st Sep 1991.
Nb Sub Sardul Singh (JC-174128P), 1st Apr 1992.	Nb Sub Mohar Singh (JC-186501W), 1st Sep 1991.
Nb Sub Murari Lal Sharma (JC-174206F), 1st Apr 1992.	Nb Sub Joy A V (JC-187565N), 1st Sep 1991.
Nb Sub Karnail Singh (JC-178895L), 1st Apr 1992.	Nb Sub Om Pal (JC-193100K), 1st Sep 1991.
Nb Sub Tajwar Singh (JC-181044K), 1st Apr 1992.	Nb Sub Tara Chand (JC-186430A), 1st Sep 1991.
Nb Sub Mehar Singh (JC-184545P), 1st Apr 1992.	Nb Sub Keshev Nath (JC-193108W), 1st Sep 1991.
Nb Sub Rattan Singh (JC-190751P), 1st Apr 1992.	Nb Sub Ratan Singh (JC-193594Y), 1st Sep 1991.
Nb Sub Kodolkar Maruti Masu (JC-187636K), 1st Apr 1992.	Nb Sub Unnikrishanan Nair (JC-186709Y), 1st Sep 1991.
Nb Sub Mange Ram (JC-162996P), 1st Apr 1992.	Nb Sub Dharam Pal (JC-165622K), 1st Sep 1991.
Nb Sub Chitra Bahadur Gurung (JC-160324K), 1st Apr 1992.	Nb Sub Tej Ram (JC-181029P), 1st Sep 1991.
Nb Sub Tek Bahadur Thapa (JC-168424K), 1st Apr 1992.	Nb Sub Parshotam Chand (JC-172106X), 1st Sep 1991.
Nb Sub Hawa Singh (JC-174124Y), 1st Apr 1992.	Nb Sub Gian Singh (JC-176439F), 1st Sep 1991.
Nb Sub Brij Lal (JC-175281X), 1st Apr 1992.	Nb Sub Karnail Singh (JC-145884Y), 1st Sep 1991.
Nb Sub Man Singh (JC-179209Y), 1st Apr 1992.	Nb Sub Mohan Lal (JC-138348N), 1st Sep 1991.
Nb Sub Bishnu Bahadur Thapa (JC-181037N), 1st May 1992.	Nb Sub Ram Parshad (JC-138388P), 1st Sep 1991.
Nb Sub Ramasamy Paramsilvam (JC-190746K), 1st May 1992.	Nb Sub Badri Prasad (JC-140456W), 1st Sep 1991.
Nb Sub Chinta Jagan Mohan Rao (JC-172102F), 1st May 1992.	Nb Sub Balwinder Singh (JC-146264P), 1st Sep 1991.
Nb Sub Laxman Singh (JC-163851W), 1st May 1992.	Nb Sub Plavilaputhenveedu Oommen Vaidian Koshy Vaidian (JC-146239W), 1st Sep 1991.
Nb Sub Kodai (JC-197876P), 1st May 1992.	Nb Sub Sukhdev Singh (JC-146744Y), 1st Sep 1991.
Nb Sub S Lakshman Gowda (JC-197495N), 1st May 1992.	Nb Sub Rajendra Singh (JC-144718Y), 1st Sep 1991.
Nb Sub Tarsem Lal (JC-197439P), 1st May 1992.	Nb Sub Dhani Ram (JC-151060M), 1st Sep 1991.
Nb Sub Sita Ram Yadav (JC-137712P), 1st May 1992.	Nb Sub Jarnail Singh (JC-151061P), 1st Sep 1991.
Nb Sub Ajit Kumar Das (JC-157996L), 1st June 1992.	

Nb Sub Gurbhej Singh (JC-148661M), 1st Sep 1991.	Nb Sub Balwinder Singh (JC-179627N), 1st Oct 1991.
Nb Sub Des Raj (JC-153674N), 1st Sep 1991.	Nb Sub Dalel Singh Verma (JC-184008K), 1st Oct 1991.
Nb Sub Ramesh Lal Sharma (JC-158031A), 1st Sep 1991.	(To be Nb Sub)
Nb Sub Arunachalam Sekki (JC-155883K), 1st Sep 1991.	Hav Bakhshish Singh (14318331Y now JC-219850H), 09 Feb 1991.
Nb Sub Prithvi Raj (JC-157502W), 1st Sep 1991.	Hav Jagdish Prasad (14330476W now JC-219851L), 09 Feb 1991.
Nb Sub Sat Pal (JC-158035W), 1st Sep 1991.	Hav Bishan Singh Manhas (14327323F now JC-219852-N), 06 Mar 1991.*
Nb Sub Anup Singh (JC-164888K), 1st Sep 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 25 Feb 1991 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Baldev Krishan (JC-165596N), 1st Sep 1991.	Hav Naga Ram (11144478A now JC-219853W), 05 Mar 1991.*
Nb Sub Srawan Kumar (JC-166989W), 1st Sep 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 25 Feb 1991 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Mansa Ram (JC-167661F), 1st Sep 1991.	Hav Laxmi Narain (14323634X now JC-219854Y), 04 Mar 1991.*
Nb Sub Ashok Kumar (JC-168428A), 1st Sep 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 25 Feb 1991 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Ram Nath (JC-167668L), 1st Oct 1991.	Hav Swaran Singh (14308854K now JC-219855F), 01 Mar 1991.
Nb Sub Preston Wilson (JC-169990W), 1st Oct 1991.	Hav Prem Chand (1256732H now JC-219856K), 01 Mar 1991.
Nb Sub Yad Ram (JC-166978K), 1st Oct 1991.	Hav Khose Mahadeo Rao Sahab (1266652Y now JC-219857M), 01 Oct 1991.*
Nb Sub Jagtar Singh Budhan (JC-167674Y), 1st Oct 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 03 Mar 1991 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Sucha Singh (JC-169745N), 1st Oct 1991.	Hav Ramesh Chand (14333891H now JC-219858P), 06 Mar 1991.
Nb Sub Paras Ram (JC-168441K), 1st Oct 1991.	Hav Ram Prasad (1266718K now JC-219859X), 06 Mar 1991.
Nb Sub Kallanayhalli Venkanaramaiah Varadha Krishna (JC-182122H), 1st Oct 1991.	Hav Dharam Deo (14325695N now JC-219860M), 14 Mar 1991.
Nb Sub Brijpal Singh Raghava (JC-169670F), 1st Oct 1991.	Hav Darshan Singh (1253718L now JC-219861P), 15 Mar 1991.
Nb Sub A Subramaniam (JC-169893Y), 1st Oct 1991.	Hav Rallapadi Rathna Kumar (1259886A now JC-219862-X), 09 Apr 1991.*
Nb Sub Bisakhi Ram (JC-169942W), 1st Oct 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 21 Mar 1991 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Dashrath Singh (JC-171110N), 1st Oct 1991.	BHM Mir Singh (1265859M now JC-219863A), 21 Mar 1991.
Nb Sub Gurbaksh Singh (JC-169929M), 1st Oct 1991.	Hav Dattu Patil (1267344L now JC-219864H), 21 Mar 1991.
Nb Sub Ram Nihal (JC-176238H), 1st Oct 1991.	Hav Ram Niwas (1265725N now JC-219865L), 24 Mar 1991.
Nb Sub Keshav Ram (JC-175554P), 1st Oct 1991.	Hav S Harinarayan Reddy (14453556P now JC-219866N), 07 Jun 1991.*
Nb Sub Ram Sing Bhui (JC-171447W), 1st Oct 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Mohinder Singh (JC-179624A), 1st Oct 1991.	BHM Mehal Singh (1243763K now JC-219867W), 01 Apr 1991.
Nb Sub Balkar Singh (JC-175560H), 1st Oct 1991.	BHM Rajinder Singh (1292840X now JC-219868Y), 15 Apr 1991.*
Nb Sub Paras Nath Singh (JC-173321P), 1st Oct 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 01 Apr 91 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Suresh Roy (JC-176589X), 1st Oct 1991.	Hav Khayali Ram Yadava (14323007L now JC-219869F), 04 Apr 1991.*
Nb Sub Hira Singh (JC-172148K), 1st Oct 1991.	*(Granted seniority w.e.f. 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).
Nb Sub Gurdial Singh (JC-175567M), 1st Oct 1991.	Hav Tej Singh Shekhawat (1266215Y now JC-219870W), 01 Apr 1991.
Nb Sub Dharam Chand (JC-176246F), 1st Oct 1991.	Hav Gain Chand (14313878X now JC-219871Y), 01 Apr 1991.
Nb Sub Lachhman Singh Rawat (JC-173328Y), 1st Oct 1991.	Hav Rajinder Singh (14453233X now JC-219872F), 01 Apr 1991.
Nb Sub Jaipal Singh (JC-175570M), 1st Oct 1991.	
Nb Sub Banveer Singh (JC-179625H), 1st Oct 1991.	
Nb Sub Bodh Raj (JC-176264K), 1st Oct 1991.	
Nb Sub Sahib Singh (JC-176462P), 1st Oct 1991.	
Nb Sub Sandharan B (JC-177841X), 1st Oct 1991.	

Hav Roop Singh (14335484Y now JC-219873K), 01 Apr 1991.

Hav Kartar Singh (14321597W now JC-219874M), 10 Apr 1991.\*

\*(Granted seniority w.e.f. 09 Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav V Jay Sita Ram Raul (14322637Y now JC-219875P), 10 Apr 1991.

Hav Gopalan Nelliadka (1256527F now JC-219876X), 01 May 1991.

BHM Ram Kuwar Singh (13809176M now JC-219877A), 01 May 1991.

RHM Nar Singh Tripathi (1248945F now JC-219878H), 01 May 1991.

Hav Tarsem Singh (1258758W now JC-219879L), 01 May 1991.

RHM Surjit Singh (1245124F now JC-219880A), 01 Jun 1991.

BHM Harbhajan Singh (14313786L now JC-219881H), 01 Jun 1991.

BHM Om Prakash (13856368W now JC-219882L), 09 Jun 1991.\*

\*(Granted seniority w.e.f. 01 Jun 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Onkar Singh (1294719H now JC-219883N), 01 Jun 1991.

Hav Shimbhu Dyal (1266831Y now JC-219884W), 01 Jun 1991.

BHM Abraham T A (1265782P now JC-219885Y), 01 Jun 1991.

BHM Ramachandran K (14301640L now JC-219886F), 01 Jul 1991.

BHM Murugan C (14327266L now JC-219887K), 05 Jul 1991.\*

\*(Granted seniority w.e.f. 01 Jul 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Baboo Singh (1252599N now JC-219888M), 01 Aug 1991.

BHM Nanayih CJ (1266308N now JC-219889P), 01 Sep 1991.

BHM Shamsher Singh (1248682N now JC-219890K), 05 Aug 1991.\*

\*(Granted seniority w.e.f. 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Banwari Lal (JC-120181M), 1st Mar 1992.

Sub Dev Raj (JC-122864Y), 1st May 1992.

Sub Shri Ram (JC-121336H), 1st May 1992.

Sub Ponnaiah Velmurugan (JC-107670Y), 1st May 1992.

To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Latoori Prasad Yadav (JC-87736A), 1st May 1992.

Sub Suhab Prasad Yadava (JC-89025Y), 1st May 1992.

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Hari Ram (JC-182129M), 1st Oct 1991.

Nb Sub Ramvir Singh (JC-186417W), 1st Oct 1991.

Nb Sub Kailash Prasad (JC-180469W), 1st Oct 1991.

Nb Sub Nasib Singh (JC-176508M), 1st Oct 1991.

Nb Sub Chander Pal (JC-180406N), 1st Oct 1991.

Nb Sub Kesavan P. (JC-176610P), 1st Oct 1991.

Nb Sub Harmesh Pal (JC-180596L), 1st Oct 1991.

Nb Sub Manjit Singh (JC-180481X), 1st Oct 1991.

Nb Sub Sharana Gouda (JC-182051M), 1st Oct 1991.

Nb Sub Savindra Prasad (JC-182052P), 1st Oct 1991.

Nb Sub Narinder Kumar (JC-184592M), 1st Oct 1991.

Nb Sub Bhadane Chudaman Rajaram (JC-180417A), 1st Oct 1991.

Nb Sub Major Singh (JC-184557K), 1st Oct 1991.

Nb Sub Bhup Singh Yadav (JC-180447X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Raghunandan Singh (JC-184620N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Raghur Singh Shekhawat (JC-186513L), 1st Nov 1991.

Nb Sub Soman Singh Chhetri (JC-186707N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Baban Bhosale (JC-190734P), 1st Nov 1991.

Nb Sub Hanuman Singh (JC-190625H), 1st Nov 1991.

Nb Sub Aizaz Ali (JC-186478N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-186724N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Fateh Singh Parihar (JC-193122H), 1st Nov 1991.

Nb Sub Gurmej Singh (197574H), 1st Nov 1991.

Nb Sub T K Balaji (JC-193605A), 1st Nov 1991.

Nb Sub Charanjit Singh (JC-195101L), 1st Nov 1991.

Nb Sub Mohammed Koya CT (JC-198754X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Abhay Singh (JC-200173F), 1st Nov 1991.

Nb Sub Ram Rattan Singh (JC-176592X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Bhuri Singh (JC-146296X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Sadan Singh (JC-178930H), 1st Nov 1991.

Nb Sub Om Prakash (JC-153411P), 1st Nov 1991.

Nb Sub Naranjan Singh (JC-180411Y), 1st Nov 1991.

Nb Sub Ujagar Singh (JC-148138F), 1st Nov 1991.

Nb Sub Thaur Singh (JC-174179H), 1st Nov 1991.

Nb Sub Rajb r Singh (JC-200414W), 1st Nov 1991.

Nb Sub Karan Singh (JC-200455A), 1st Nov 1991.

Nb Sub Ramachandran K (JC-203559M), 1st Nov 1991.

Nb Sub Murlidharan A P (JC-198732Y), 1st Nov 1991.

Nb Sub Baldev Singh (JC-158540Y), 1st Nov 1991.

Nb Sub Sundara Rao Guda (JC-167561W), 1st Nov 1991.

Nb Sub Maha Nand (JC-190720P), 1st Nov 1991.

Nb Sub Kanniah Kalyani Sundaram (JC-190649M), 1st Nov 1991.

Nb Sub Kewal Singh (JC-200227X), 1st Nov 1991.  
 Nb Sub Shangar Singh (JC-150382A), 1st Nov 1991.  
 Nb Sub Chanan Singh (JC-148615X), 1st Nov 1991.  
 Nb Sub Dharam Singh (JC-151032A), 1st Nov 1991.  
 Nb Sub Brahmeshwar (JC-148624Y), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Kumar Pradhan (JC-150300M), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Asha Singh (JC-151009M), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Gurdial Singh (JC-149894A), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub K P Nesian (JC-150429A), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Nikka Ram (JC-157488P), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Gurdial Singh Romana (JC-150432A), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Gurdev Singh (JC-157986F), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Chain Singh (JC-155879F), 1st Dec 1991.  
 To be Substantive Subedar (AIG)  
 Nb Sub Jaswant Singh (JC-186759K), 1st Oct 1991.  
 Nb Sub Gurbachan Singh (JC-178835W), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Kirpal Singh (JC-178917Y), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Jasmer Singh (JC-186527L), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Shish Ram Khola (JC-178836Y), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Sukhdev Singh Nag (JC-178833L), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Narayanan Nair KS (JC-200367K), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Usman M (JC-200369P), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Santokh Singh (JC-178832H), 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-178916W), 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Ratan Singh Yadav (JC-186532W), 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Ranjit Singh Bhullar (JC-184887H), 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Ranbir Singh (JC-182078K), 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Subh Ram (JC-202330F), 1st Apr 1992.  
 To be Substantive Subedar (TIFC)  
 Nb Sub Ram Bohor Ram (JC-164898N), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Harish Giri Goswami (JC-164900A), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Vennamapalli Munu Swamy Subbaiah (JC-165716 F), 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Dayalu Ram Sharma (JC-164899W), 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Bhag Singh (JC-164901H), 1st Apr 1992.  
 To be Substantive Subedar (FGA)  
 Nb Sub Akal Bahadur Newar (JC-177693X), 1st Jan 1992.  
 Nb Sub Tarsem Lal (JC-182083P), 1st Jan 1992.  
 Nb Sub Sube Singh (JC-177694A), 1st Mar 1992.  
 Nb Sub Joga Singh (JC-178852W), 1st Apr 1992.

Nb Sub Rattan Chand (JC-178833Y), 1st Apr 1992.  
 To be Substantive Subedar (OEM)  
 Nb Sub Bichitar Singh (JC-177695H), 1st Dec 1991.  
 Corps of Signals  
 To be Substantive Subedar (F of S)  
 Nb Sub Jiwan Singh (JC-133154F), 1st Jul 1991.  
 Nb Sub Hari Krishna (JC-149712F), 1st June 1992.  
 Nb Sub Ram Jee Tiwari (JC-149716X), 1st June 1992.  
 To be Substantive Subedar (Gp Ciph)  
 Nb Sub Padmanabhan Enapoil (JC-172237H), 1st Jan 1992.  
 To be Substantive Subedar (Clk GD)  
 Nb Sub Shubhan Sing Gurung (JC-182184H), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Ram Bahadur (JC-182185L), 1st Dec 1991.  
 Nb Sub Kamleshwar Tiwari (JC-182194M), 1st Jan 1992.  
 Nb Sub Ghandharb Singh (JC-186003K), 1st Jan 1991.  
 Nb Sub Ramu Madhayan (JC-188135W), 1st May 1992.  
 Nb Sub Ram Nawal Pal (JC-188137Y), 1st May 1992.  
 Nb Sub Krishan Dulare Lal (JC-188138K), 1st May 1991.  
 To be Substantive Subedar (GD)  
 Nb Sub S B Singh (JC-168216P), 1st May 1992.  
 Nb Sub Mohinder Singh (JC-168219H), 1st May 1992.  
 Nb Sub Keshar Lal (JC-172913K), 1st May 1992.  
 Nb Sub Dhoop Singh (JC-172915X), 1st May 1992.  
 Nb Sub Im Lal Sharma (JC-172916A), 1st May 1992.  
 Nb Sub N P Rama Chandran (JC-168224N), 1st May 1992.  
 Nb Sub Atabak Khan (JC-168225W), 1st May 1992.  
 Nb Sub Bashistha Rai (JC-172917H), 1st May 1992.  
 Nb Sub Rabinarayan Samal (JC-172918L), 1st May 1992.  
 Nb Sub Sant Lal (JC-168226Y), 1st May 1992.  
 Nb Sub Kanta Lal Mahto (JC-168227F), 1st May 1992.  
 Nb Sub K G R Krishna Kurup (JC-173670Y), 1st May 1992.  
 Nb Sub Asa Ram (JC-172919N), 1st May 1992.  
 Nb Sub Partap Singh Bist (JC-172920H), 1st May 1992.  
 Nb Sub P S N Ganesh Thilak (JC-172921L), 1st May 1992.  
 Nb Sub Bindeshwar Bhagat (JC-168228K), 1st May 1992.

## Infantry

## The Parachute Regiment

## To be Subedar Major

Sob Dulal Kumar Adhikary (JC-103948F), 01st Jan 1992.

## To be Subedar (GD)

Nb Sub Ajit Singh (JC-156375A), 01st Mar 91.

Nb Sub Balbir Singh (JC-164474X), 01st Jan 1992.

Nb Sub Prabhu Lal Gurjar (JC-164475A), 01st Jan 1992.

Nb Sub Fauja Ram (JC-164476H), 01st Jan 1992.

## To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Rajendra Prasad Singh (JC-193651P), 01st Jan 1992.

## THE PUNJAB REGIMENT

## To be Subedar Major

Sub Mohinder Singh (JC-100189X), 01st Apr 1992.

Sub Munshi Ram (JC-104178M), 01st Apr 1992.

## To be Subedar

Nb Sub Kartar Singh (JC-152791M), 01st Jan 1992.

Nb Sub Gurcharan Singh (JC-143548N), 01st Feb 1992.

Nb Sub Jaswant Singh Rana (JC-177918P), 01st Apr 1992.

## To be Subedar Clerk

Nb Sub Surjit Singh (JC-174940P), 01st Jan 1992.

Nb Sub Lal Singh (JC-174941X), 01st Jan 1992.

Nb Sub Kehar Singh Rana (JC-174942A), 01st Jan 1992.

Nb Sub Onkar Chand (JC-178474H), 01st Jan 1992.

Nb Sub Rattan Chand Sharma (JC-178473A), 01st Jan 1992.

Nb Sub Janam Singh (JC-177920M), 01st Feb 1992.

## THE MADRAS REGIMENT

## To be Sub Maj

Sub Chengalvarayan (JC-92421A), 1st Apr 1992.

Sub Munuswamy (JC-105246X), 1st Apr 1992.

Sub Sangava Ramamoorthi (JC-87853L), 1st Apr 1992.

Sub Chodey Narayan Rao (JC-103355L), 1st Apr 1992.

## To be Sub

Nb Sub Viswanathan Anakai (JC-144835K), 1st Jan 1991.

Nb Sub Prabhakaran Thaikkaniyil (JC-151148W), 1st Aug 1991.

Nb Sub Pakkirisamy Saravanaraj (JC-156859A), 1st Oct 1991.

Nb Sub Narayanan VK (JC-156865N), 1st Nov 1991.

Nb Sub Maruthamuthu Kathalingam (JC-149378L), 1st Dec 1991.

Nb Sub Balan Nair Edathum Parambath (JC-152088Y), 1st Jan 1992.

Nb Sub Bafakrishnan CK (JC-155020H), 1st Feb 1992.

Nb Sub Janardhan Rajan Pillai (JC-152089Y), 1st Mar 1992.

## To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) E Abdul Karim (JC-172558A), 1st Feb 1992.

## THE GRENADIERS

## To be Subedar Major

Sub Partap Singh (JC-103573K), 01 Feb 92.

Sub Tej Singh, SM (JC-117491M), 01 Feb 92.

## To be Subedar

Nb Sub Tek Ram (JC-155050A), 01 Aug 91.

Nb Sub Devinder Singh (JC-157281P), 01 Aug 91.

Nb Sub Norang Singh (JC-160878H), 01 Jan 92.

## THE GRENADIERS

## To be Subedar

Nb Sub Chahat Ram (JC-155065H), 01 Mar 91.

Nb Sub Ram Dayal (JC-152820W), 01 Jun 91.

Nb Sub Jagpal Singh (JC-174997K), 01 Jul 91.

Nb Sub Akhe Singh (JC-148360H), 01 Nov 91.

Nb Sub Desh Raj (JC-128980X), 01 Jan 92.

Nb Sub Jagdish Singh (JC-180829F), 01 Feb 92.

Nb Sub Mast Ram (JC-162106K), 01 Mar 92.

## To be Sub Maj Clk

## The Raj Rif

Sub Clk Sat Pal (JC-114353A), 1st Apr 1992.

## To be Sub Maj

Sub Bhagat Singh (JC-110906N), 1st Apr 1992.

Sub Arjun Singh (JC-99869M), 1st Apr 1992.

## To be Sub

Nb Sub Surcnder Kumar (JC-168840N), 1st Jan 1992.

Nb Sub Daya Ram (JC-155989W), 1st Mar 1992.

Nb Sub Sampat Singh (JC-155655F), 1st Mar 1992.

Nb Sub Arjun Singh (JC-158366X), 1st Mar 1992.

## The Rajput Regiment

## To be Sub Maj

Sub Ratan Singh (JC-128964A), 1st Apr 1992.

## To be Sub

Nb Sub Jhabar Singh (JC-168539X), 1st Mar 1991.

Nb Sub Ram Kishan (JC-156391X), 1st Jan 1992.

Nb Sub Raghvendra Pratap Singh (JC-178551M), 1st Feb 1992.

## The Jat Regt

## To be Sub Maj

Sub Dhup Ram (JC-117302X), 1st Jan 1992.

Sub Pohkar Mal (JC-104239P), 1st Feb 1992.

Sub Hawa Singh (JC-122180H), 1st Feb 1992.

Sub Mool Chand (JC-104230A), 1st Feb 1992.

Sub Balbir Singh (JC-108589X), 1st Mar 1992.

## To be Sub Maj (Clk)

Sub Clk Ram Kishan Singh (JC-135655A), 1st Jan 1992.

## To be Sub

Nb Sub Ranbir Singh Hooda (JC-177961W), 1st Dec 1991.

Nb Sub Vidhyadhar Ola (JC-177973L), 8th Dec 1991.

Nb Sub Billu Ram (JC-177975W), 1st Jan 1992.

Nb Sub Shri Krishan (JC-177976Y), 1st Feb 1992.

Nb Sub Bhana Ram (JC-178263A), 1st Feb 1992.

Nb Sub Keshar Ram (JC-183006M), 1st Feb 1992.

Nb Sub Om Parkash (JC-184335P), 1st Feb 1992.

Nb Sub Chandrapal Singh (JC-185178A), 21st Feb 1992.

Nb Sub Jas Ram (JC-188483X), 22nd Feb 1992.

Nb Sub Shiv Lal (JC-166060K), 29th Feb 1992.

Nb Sub Hari Singh (JC-152097A), 1st Mar 1992.

Nb Sub Satpal (JC-158383X), 1st Mar 1992.

Nb Sub Hawa Singh (JC-159201L), 1st Mar 1992.

To be Sub (Clks)

Nb Sub Clk Debi Singh Rana (JC-184328Y), 1st Jan 1992.

Nb Sub Clk Narain Singh Bhandari (JC-185004A), 1st Jan 1992.

Nb Sub Clk Shiv Pal Singh (JC-185005H), 1st Jan 1992.

Nb Sub Clk Shiv Prashad Pal (JC-188669F), 1st Jan 1992.

Nb Sub Clk Ram Singh Kadian (JC-188670W), 16th Jan 1992.

Nb Sub Clk Diwan Singh Verma (JC-192416K), 21st Feb 1992.

Nb Sub Clk Dolat Ram (JC-192946Y), 1st Mar 1992.

Nb Sub Clk Nawab Singh Chaudhary (JC-193758K), 1st Mar 1992.

Nb Sub Clk Nawab Singh (JC-193754N), 1st Mar 1992.

#### THE SIKH LI

To be Sub (GD)

Nb Sub Chanchel Singh (JC-168897H), 1st Dec 1991.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-168898L), 1st Jan 1992.

Nb Sub Sampuran Singh (JC-156063K), 1st Mar 1992.

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Chandrika Singh Yadav (JC-141858A), 8th Aug 1990.

Nb Sub Jagdish Chander (JC-141862H), 1st Oct 1990.

Nb Sub Karori Lal (JC-144896F), 1st Dec 1990.

Nb Sub Yad Ram (JC-167109F), 1st Dec 1990.

Nb Sub Hanuman Singh (JC-167265L), 14th May 1991.

Nb Sub Mahender Singh Yadav (JC-169216F), 1st July 1991.

Nb Sub Rup Chand (JC-171986M), 1st July 1991.

Nb Sub Om Parkash (JC-175998Y), 1st July 1991.

Nb Sub Dalip Singh (JC-176000H), 1st July 1991.

Nb Sub Ram Sanehi (JC-176001L), 1st July 1991.

Nb Sub Krishan (JC-176002N), 1st July 1991.

Nb Sub Rup Chand (JC-176003W), 1st July 1991.

Nb Sub Partap Singh (JC-184259N), 1st Aug 1991.

Nb Sub Sita Ram (JC-180772X), 1st Aug 1991.

Nb Sub Om Parkash (JC-180775L), 1st Sep 1991.

Nb Sub Bhom Singh (JC-180777W), 1st Sep 1991.

Nb Sub Ram Niwas Yadav (JC-183494A), 1st Sep 1991.

Nb Sub Hanuman Singh Yadav (JC-185078P), 1st Oct 1991.

Nb Sub Mohan Chandra (JC-171990P), 1st Dec 1991.

Nb Sub Pratap Singh (JC-172598F), 1st Dec 1991.

Nb Sub Ram Phal (JC-185226P), 1st Feb 1992.

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Subedar

Nb Sub Khushal Singh (JC-172782M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Bijay Kumar (JC-172783P), 1st Dec 1991.

Nb Sub Chandra Singh (JC-178624N), 1st Jan 1992.

Nb Sub Jagdish Chandra Joshi (JC-180798M), 1st-Apr 1992.

#### THE BIHAR REGT

To be Subedar Major

Sub Jambira Deogam (JC-102088H), 1st February 1992.

Sub Bangali Singh (JC-96784F), 1st March 1992.

Sub Janak Prasad (JC-103238A), 1st March 1992.

Sub Christopher Ekka (JC-103240X), 1st March 1992.

To be Subedar

Nb Sub Satya Narain Prasad (JC-160974X), 1st November 1991.

Nb Sub Baij Nath Singh (JC-166111M), 1st December 1991.

Nb Sub Ram Pavitra Pandit (JC-166112P), 1st January 1992.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Ram Chij Singh (JC-179473M), 1st January 1992.

Nb Sub (Clk) Ranjit Yadav (JC-179027L), 1st February 1992.

#### J&K LI

To be Subedar

Nb Sub Gh Rasool Lone (JC-144606Y), 01 Jul 91.

Nb Sub Mirza Shafkat Ali Jaral (JC-157935N), 01 Oct 91.

#### 1 GR

To be Sub Maj

Sub Shyam Narain Pun (JC-106048Y), 1st Apr 1992.

To be Subedar

Nb Sub Chok Bahadur Thapa (JC-172039X), 1st Feb 1992.

Nb Sub Prem Bahadur (JC-175461A), 1st Apr 1992.

Nb Sub Tara Prasad (JC-164095F), 1st Apr 1992.

#### 4 GR

To be Sub Maj

Sub Kishan Bahadur Gurung (JC-94195M), 1st Jan 1992.

Sub Gian Darshan Singh Thapa (JC-95690X), 1st Mar 1992.

To be Sub Maj (Clk)

Sub (Clk) Bal Ram Sharma (JC-142860K), 1st Jan 1992.

To be Subedar

Nb Sub Vinod Kumar Ghale (JC-161023M), 1st Jan 1992.

Nb Sub Vinod Kumar Gurung (JC-177824X), 1st Mar 1992.

Nb Sub Deo Bahadur Gurung (JC-155853M), 1st Mar 1992.

Nb Sub Padam Singh Roka (JC-161027H), 1st Apr 1992.

Nb Sub Bhim Prasad Gurung (JC-180911W), 1st Apr 1992.

Nb Sub Shanker Singh Thapa (JC-181920K), 1st Apr 1992.

Nb Sub Narendra Singh (JC-183546L), 1st Apr 1992.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Tilak Prasad Bura (JC-184498H), 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Asis Kumar Acharya (JC-185281L), 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Michael Bluntia (JC-185282N), 1st Apr 1992.

#### 9 GR

To be Sub Maj

Subedar Than Bahadur Chhetri (JC-95331K), 1st Oct 1991.

Subedar Biren Bra Singh Thapa (JC-105678M), 1st Oct 1991.



8 GR

To be Sub (GD)

Nb Sub Lok Bahadur Guring (JC-164107L), 1st Nov 1991.

Nb Sub Padam Bahadur Gurung (JC-173977K), 1st Feb 1992.

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Ck) Raghbir Singh Chauhan (JC-196702H), 1st Mar 1992.

## LADAKH SCOUTS

To be Sub (GD)

Nb Sub Lamchung Chhering (JC-159319M), 1st Mar 1992.

Nb Sub Nawang Rigzin (JC-164852L), 1st Mar 1992.

Nb Sub Tashi Phunchok (JC-161015N), 1st Mar 1992.

Nb Sub Phunchok Tashi (JC-161016W), 1st Mar 1992.

Nb Sub Chhering Dorje (JC-163951F), 1st April 1992.

Nb Sub Chhering Mutup (JC-163956A), 1st April 1992.

Nb Sub Chhewang Nurbu (JC-163960H), 1st April 1992.

To be Sub

Nb Sub Sonam Rigzin (JC-163953M), 1st Apr 1992.

Nb Sub Stanzin Dorje (JC-163954P), 1st Apr 1992.

Nb Sub Sonam Angchok (JC-163955X), 1st Apr 1992.

Nb Sub Tashi Punchok (JC-163957N), 1st Apr 1992.

Nb Sub Chhering Tashi (JC-163959M), 1st Apr 1992.

Brigade of the Guards

To be Nb Sub (Ck)

Hav (Ck) David Suwase (No. 13667195A now JC-218127 P), 01st Jan 1991.

Hav (Ck) Bihari Lal Sharma (No. 13669261W now JC-218128X), 01st June 1991.

Hav (Ck) Ishwari Prasad Tamta (No. 13669796K now JC-218129A), 22nd July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar (Clerk) wef 01st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav (Ck) Raghbir Singh Hooda (No. 6648259W now JC-218130P), 01st July 1991.

Hav (Ck) Ram Dhani Barnwal (No. 13666732N now JC-218131X), 13th July 1991\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar (Clerk) wef 12th July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav (Ck) Chandran KT (No. 6648232Y now JC-218132 A), 16th July 1991.

Hav (Ck) Jagat Ram Banga (No. 6648280Y now JC-218133H), 01st Aug 1991.

Hav (Ck) Muneshwar Singh (No. 6648296K now JC-218134L), 01st Aug 1991.

Hav (Ck) Shubb Ram (No. 6648318X now JC-218135 N), 01st Aug 1991.

Hav (Ck) Harnail Singh Dhaliwal (No. 6648330Y now JC-218136W), 01st Aug 1991.

Hav (Ck) Bhanwar Singh (No. 6648335X now JC-218137 Y), 01st Sep 1991.

Hav (Ck) Tarje Baban Dhondiba (No. 6648341L now JC-218138F), 01st Sep 1991.

Hav (Ck) Anant Prasad Shukla (No. 6648353A now JC-218139K), 01st Sep 1991.

Hav (Ck) Hatendra Singh Chauhan (No. 6648342N now JC-218140Y), 01st Oct 1991.

Hav (Ck) Kirpal Singh (No. 13664136H now JC-218141 F), 01st Oct 1991.

Hav (Ck) Sagarimal Purohit (No. 6648365N now JC-218142K), 01st Oct 1991.

Hav (Ck) Surta Ram Punia (No. 6648388W now JC-218143M), 01st Nov 1991.

Hav (Ck) Sivarama Pillai S (No. 13670480K now JC-218144P), 01st Nov 1991.

Hav (Ck) Abraham Phillip (No. 13670577P now JC-218145X), 01st Nov 1991.

Hav (Ck) Subas Prasad Singh (No. 13670630P now JC-218146A), 01st Nov 1991.

Hav (Ck) Jastar Singh Sandhu (No. 13670642K now JC-218147H), 07th Nov 1991\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar (Clerk) wef 01st Nov 1991 without effect on pay and allowances).

Hav (Ck) Y George (No. 13668025H now JC-218148L), 01st Nov 1991.

Hav (Ck) I addu Lal Chowdhary (No. 13670665L now JC-218149N), 01st Dec 1991.

Hav (Ck) Uday Kumar Mukhopadhyay (No. 13669414P now JC-218150H), 01st Dec 1991.

Hav (Ck) Gopala Krishnan (No. 13670670W now JC-218151L), 01st Dec 1991.

Hav (Ck) Balwant Singh Nagarkoti (No. 8023104L now JC-218152N), 01st Dec 1991.

Hav (Ck) Subas Chand Pandey (No. 5746219P now JC-218153W), 01st Dec 1991.

Hav (Ck) Monjarasu P (No. 10450800A now JC-218154 Y), 01st Dec 1991.

Hav (Ck) Ram Ayodhya Prasad (No. 13670690K now JC-218155F), 08th Dec 1991\*\*\*\*.

\*\*\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar (Clerk) wef 01st Dec 1991 without effect on pay and allowances).

## The Parachute Regiment

To be Nb Sub

CHM Mahendra Singh (No. 13608454A now JC-218156K), 1st June 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).

Hav Chavan Shantaram Shankar (No. 13610269L now JC-218157M), 1st Feb 1991.

Hav K Vasu (No. 13610631N now JC-218158P), 27th June 1991\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ghate Kantilal Shrinati (No. 13610073X now JC-218159X), 10th May 1991\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jai Ram (No. 13609723N now JC-218160M), 1st Jul 1991.

Hav Abhis Singh (No. 13611116N now JC-218161P), 5th Aug 1991.

Hav Raj Chand (No. 13609801A now JC-218162X), 16th Oct 1991.

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Sajjan Singh (No. 13607953H now JC-218163 A), 1st Dec 1991.

Hav (Clk) Vishwanathan Nair KK (No. 13608371P now JC-218164H), 1st Dec 1991.

## The Punjab Regiment

## To be Nb Sub

Hav Swaran Singh Jhal (No. 2464595K now JC-218165L), 26th Aug 1991.

(Granted ante date of seniority wef 01 Jan 91 without effect on pay and allowances).

Hav Gian Chand (No. 2463440W now JC-218166N), 27th Mar 1991.

Hav Raghubir Singh (No. 2462418L now JC-218167W), 01st May 1991.

(Granted ante date of seniority wef 09th Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Suresh Kumar (No. 2463911L now JC-218168Y), 18th May 1991.

Hav Shamsher Singh (No. 2459954H now JC-218169F), 01st July 1991.

Hav Baldev Singh (No. 2459829Y now JC-218170W), 01st Aug 1991.

Hav Dewan Singh (No. 2465780K now JC-218171Y), 01st Oct 1991.

Hav Ehingara Singh (No. 2465961P now JC-218172F), 01st Oct 1991.

Hav Shyam Lal (No. 2462323L now JC-218173K), 01st Nov 1991.

Hav Makhan Singh (No. 2466881K now JC-218174M), 01st Nov 1991.

Hav Lachhu Ram (No. 2462800F now JC-218175P), 01st Nov 1991.

Hav Joginder Singh (N (No. 2464514Y now JC-218176X), 01st Nov 1991.

Hav Nathu Ram (No. 2464965Y now JC-218177A), 06th Dec 1991.

(Granted ante date of seniority wef 13th Nov 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Surlinder Singh (No. 2462461M now JC-218178H), 27th Nov 1991.

(Granted ante date of seniority wef 13th Nov 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (Clerks)

Hav (Clk) Gurdev Singh (No. 2461113Y now JC-218179 L), 01st Aug 1991.

Hav (Clk) Amin Chand Chauhan (No. 2461294P now JC-218180A), 01st Sep 1991.

Hav (Clk) Parbhat Singh (No. 2461601F now JC-218181 H), 01st Sep 1991.

Hav (Clk) Amar Singh (No. 2461605X now JC-218182L), 01st Sep 1991.

Hav (Clk) Lakhmir Singh Lidder (No. 2461701M now JC-218183N), 01st Oct 1991.

Hav Clk Mangat Ram Patial (No. 2461744F now JC-218184W), 01st Nov 1991.

Hav (Clk) Kesari Dass (No. 2461769N now JC-218185Y), 01st Nov 1991.

Hav (Clk) Parkash Chand Sohal (No. 2461873F now JC-218180F), 01st Nov 1991.

Hav (Clk) Chhote Lal Dixit (No. 2461874K now JC-218187K), 01st Nov 1991.

Hav (Clk) Subhash Chand Chandel (No. 2461875M now JC-218188M), 01st Nov 1991.

## The Madras Regiment

## To be Nb Sub

Hav K Chinnaraj (No. 2575469K now JC-218189P), 1st July 1991.

Hav PC Ponnaiah (No. 2575739W now JC-218190K), 15th July 1991.

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Ramachandra Naidu K (No. 2573892N now JC-218191M), 1st Dec 1991.

Hav (Clk) Unnikrishnan MV (No. 2573962F now JC-218192P), 26th Dec 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Jacob D (No. 2573976F now JC-218193X), 1st Dec 1991.

Hav (Clk) Velu Pillai K (No. 2574150A now JC-218194 A), 1st Dec 1991.

Hav (Clk) Somasekharan Nair K (No. 2570971X now JC-218195H), 19th Dec 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 1991 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Selvaraj Pandri Naidu (No. 2571237W now JC-218196L), 1st Dec 1991.

## To be Nb Sub

Hav Neelapala Vykuntam (No. 2573668F now JC-218197 N), 9th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 8th May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bodhu Satyanarayana (No. 2574430N now JC-218198 W), 18th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 1st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav T Mahalingam (No. 2576284X now JC-218199Y), 1st July 1991.

Hav Atul Chandra Kalita (No. 4350057H now JC-218200 H), 14th Sep 1991.

Hav Ram Kishan (No. 3166597L now JC-218201L), 14th Sep 1991.

Hav Bimal Kumar Nayak (No. 4349706W now JC-218202 N), 14th Sep 1991.

Hav B Chandra Babu (No. 2579196M now JC-218203W), 14th Sep 1991.

Hav Manikandan K (No. 2580901M now JC-218204Y), 14th Sep 1991.

## The Grenadiers

## To be Nb Sub

Hav Bhom Dan (No. 2666855M now JC-218205F), 01 Oct 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 91 without effect on pay and allowances).

Hav Gowind Singh Bhadoria (No. 2665198F now JC-218206 K), 13 Oct 91.

Hav Nathu Singh Ranawat (No. 2665529X now JC-218207 M), 01 Nov 91.

Hav Omkar Singh (No. 2661859Y now JC-218208P), 01 Nov 91.

Hav Abdul Hai (No. 2666964Y now JC-218209X), 09 Nov 91.

(Granted seniority in the rank of Nb/Sub wef 16 Jun 91 without effect on pay and allowances).

Hav Satbir Singh (No. 2672186P now JC-218210M), 30 Nov 91.

Hav Sumer Singh (No. 2663621X now JC-218211P), 1st Aug 1991.

Hav Kirpa Ram (No. 2661786X now JC-218212X), 1st Aug 1991.

Hav Mohd Monir Alam (No. 2668418L now JC-218213 A), 1st Aug 1991.

Hav Mohammad Ishak (No. 2666626F now JC-218214H), 1st Oct 1991.

Hav Baldev Singh (No. 2662480F now JC-218215L), 1st Dec 1991.

Hav Mohammad Hanif Khan (No. 2665929K now JC-218216N), 6th Dec 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 91 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Gurdial Singh Jarial (No. 2664788N now JC-218217W), 1st Dec 1991.

Hav/Clk Sube Singh (No. 2664841N now JC-218218Y), 1st Dec 1991.

Hav/Clk Ran Singh (No. 2664927M now JC-218219F), 1st Dec 1991.

To be Nb Sub

Hav Biri Singh (No. 2663965W now JC-218220W), 4th Nov 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Sep 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mohinder Singh Manhas (No. 2665826L now JC-218221Y), 27th Dec 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Balbir Masute (No. 2664714Y now JC-218222F), 1st Nov 1991.

The Maratha LI

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Susanta Kumar Dalal (No. 14523927M now JC-218223K), 1st Nov 1991.

Hav Clk Dalwai Dundappa Shidappa (No. 2769111F now JC-218224M), 1st Nov 1991.

Hav Clk Kulkarni Ramkrishna Vyankatesh (No. 2769252W now JC-218225P), 1st Dec 1991.

Hav Clk Chirme Ramdas Dhanu (No. 2769370K now JC-218226X), 9th Dec 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 1st Dec 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Clk Jadhav Dhulapa Karba (No. 2769400W now JC-218227A), 1st Dec 1991.

To be Nb Sub

Hav Haridas Sakharam Mane (No. 2769245A now JC-218228H), 6th Nov 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 24th June 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Nare Ashok (No. 2764672M now JC-218229L), 1st Aug 1991.

Hav Kumar Bhosale Abaji Keshavarao (No. 2767719X now JC-218230A), 22nd Oct 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Pandurang Sadugade (No. 2771683F now JC-218231 H), 1st Oct 1991.

Hav Kalburge Laxman Limbaji (No. 2768341H now JC-218232L), 16th Nov 1991.

The Raj Rif

To be Nb Sub

Hav Azad Singh Kadian (No. 2867208H now JC-218233 N), 1st Aug 1991.

Hav Bajrang Lal (No. 2867130H now JC-218234W), 1st Aug 1991.

Hav Kanwar Singh (No. 2868770Y now JC-218235Y), 23rd Dec 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 29th Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bheekh Singh (No. 2865237Y now JC-218236F), 1st Sep 1991.

Hav Man Phool Singh (No. 2871946K now JC-218237K), 25th Sep 1991.

Hav Ram Deo Jat (No. 2865931I now JC-218238M), 1st Oct 1991.

Hav Attar Singh Rathi (No. 2867713L now JC-218239P), 13th Oct 1991.

Hav Shishpal Singh (No. 2869911P now JC-218240K), 9th Nov 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Rohitash Kumar (No. 2865608W now JC-218241M), 23rd Oct 1991.

Hav Mewa Singh Punia (No. 2868869P now JC-218242P), 1st Nov 1991.

Hav Mahabir Prasad (No. 2863671M now JC-218243X), 1st Nov 1991.

Hav Rajender Singh Shivrain (No. 2869172N now JC-218244A), 1st Nov 1991.

Hav Nathu Singh (No. 2862269W now JC-218245H), 23rd Dec 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Sumer Singh Yadava (No. 2866725N now JC-218246L), 1st Sep 1991.

Hav Clk Bikram Singh Rajawat (No. 2866940Y now JC-218247N), 1st Sep 1991.

Hav Clk Rai Singh (No. 2866908K now JC-218248W), 1st Oct 1991.

Hav Clk Sardar Singh Sunda (No. 2866925K now JC-218249Y), 1st Oct 1991.

Hav Clk Dharam Pal Singh (No. 2867138P now JC-218250 N), 1st Nov 1991.

Hav Clk Umed Singh (No. 2867204M now JC-218251W), 1st Nov 1991.

#### The Rajput Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Kirpa Ram (No. 2972987P now JC-218252Y), 1st Mar 1991.

Hav Bhaw Singh (No. 2965112W now JC-218253F), 27th Mar 1991.

Hav Mange Ram (No. 2971927N now JC-218254K), 1st July 1991\*.

\*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Gopi Ram Gujar (No. 2970105K now JC-218255M), 1st Oct 1991.

Hav Hem Raj (No. 2973183M now JC-218256P), 1st Nov 1991.

Hav Chhnanji Singh (No. 2970114L now JC-218257X), 1st Dec 1991.

##### To be Nb Sub Clk

Hav Clk Gajraj Singh Yadav (No. 2971763H now JC-218258A), 13th Dec 1991\*.

\*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Clk Kiran Pal Singh (No. 2971777H now JC-218259 H), 1st Nov 1991.

##### To be Nb Sub

Hav Haronajan Singh (No. 4456829K now JC-218260X), 1st July 1991.

Hav Kartar Singh (No. 2972148X now JC-218261A), 1st Oct 1991.

Hav Rajinder Kumar (No. 2976924G now JC-218262H), 7th Oct 1991.

Hav Narendra Singh (No. 2976845P now JC-218263L), 7th Oct 1991.

Hav Babu Lal Verma (No. 2976696M now JC-218264N), 1st Oct 1991.

Hav Amrat Lai (No. 2970296K now JC-218265W), 1st Jan 1992\*.

\*Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 1991 without effect on pay and allowances.

#### The Jat Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Shamsher Singh (No. 3165419W now JC-218266Y), 11th Oct 1991.

Hav Ranbir Singh (No. 3167865W now JC-218267F), 24th Oct 1991.

Hav Ram Kishan (No. 3166005W now JC-218268K), 24th Oct 1991.

Hav Nafe Singh (No. 3166023V now JC-218269M), 24th Oct 1991.

Hav Bhagwan Singh (No. 3164796A now JC-218270F), 24th Oct 1991.

Hav Mange Ram Lamba (No. 3165171X now JC-218271 K), 24th Oct 1991.

Hav Khyali Ram (No. 3164864H now JC-218272M), 1st Nov 1991.

##### To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Jai Narayan (No. 3166266K now JC-218273P), 1st Dec 1991.

##### To be Nb Sub

Hav Ram Kumar (No. 3164970F now JC-218274X), 2nd Dec 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Nov 1991 without effect on pay and allowances).

##### To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Kehar Singh (No. 3166348M now JC-218275 A), 1st Dec 1991.

Hav (Clk) Chet Ram Yadav (No. 3166470H now JC-218276H), 1st Dec 1991.

#### The Sikh Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Daljeet Singh (No. 3374567M now JC-218277L), 11th June 1991%.

%Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 June 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Bhagwant Singh (No. 3372607K now JC-218278N), 1st Sep 1991.

Hav Budh Singh (No. 3372053W now JC-218279W), 2nd Dec 1991@.

@Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Oct 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Trilok Singh (No. 3370165X now JC-218280L), 22nd Oct 1991.

Hav Pritam Singh (No. 3372259N now JC-218281N), 1st Nov 1991.

Hav Mohinder Singh (No. 3374548F now JC-218282W), 1st Nov 1991.

Hav Harmander Singh (No. 3371917H now JC-218283Y), 1st Dec 1991.

#### The Sikh LI

##### To be Nb Sub (GD)

Hav Avtar Singh (No. 4452586H now JC-218284F), 7th Apr 1991.

Hav Gurnam Singh (No. 13857455W now JC-218285K), 20th Apr 1991.

Hav Surinderpal Singh (No. 4457943K now JC-218286M), 27th Apr 1991.

Hav Anar Singh (No. 4455909L now JC-218287P), 22nd June 1991.

Hav Piana Singh (No. 4455314N now JC-218288X), 19th Aug 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st July 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Gucha Singh (No. 4456625N now JC-218289A), 1st Aug 1991.

##### To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Mukhtiar Singh (No. 4453526A now JC-218290 P), 17th Dec 1991%.

%Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1st Dec 1991 without effect on pay and allowances.

Hav (Clk) Ramesh Chandi (No. 4453797X now JC-218291 X), 1st Dec 1991.

Hav (Clk) Lakshman Prasad Singh (No. 4453843F now JC-218292A), 1st Dec 1991.

#### The Dogra Regiment

##### To be Naib Subedar

Hav Balraj Singh Thakur (No. 3968894Y now JC-218293 H), 29th Oct 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances.

## To be Naib Subedar (Clerk)

Hav/Clk Krishan Chand Chauhan (No. 3971063L now JC-218294L), 1st Dec 1991.

Hav/Clk Meer Singh (No. 3971097Y now JC-218295N), 1st Dec 1991.

Hav/Clk Yog Raj Sharma (No. 3971103F now JC-218296W), 1st Dec 1991.

Hav/Clk Balbir Singh (No. 3971135K now JC-218297Y), 1st Dec 1991.

Hav/Clk Kartar Singh (No. 3971273L now JC-218298F), 2nd Dec 1991\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st Dec 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Naib Subedars

Hav Vijay Kumar Sharma (No. 3971729Y now JC-218299K), 5th June 1991.

Hav Kulbir Singh (No. 3968178N now JC-218300N), 25th June 1991.

Hav Krishan Lal (No. 3970049M now JC-218301W), 29th Sep 1991.

## To be Naib Subedar Clk

Hav/Clk Bhullan Rai (No. 6648325N now JC-218302Y), 1st Dec 1991.

## The Garawal Rifles

## To be Nb Sub

Hav Rajendra Singh Gusain (No. 4053818P now JC-218303F), 1st Aug 1991.

Hav Bakhtawar Singh (No. 4050824X now JC-218304K), 1st Oct 1991.

Hav Ramesh Chander (No. 4053811L now JC-218305M), 1st Nov 1991.

Hav Jagdish Singh Gusain (No. 4050704Y now JC-218306P), 1st Dec 1991.

Hav Prem Singh (No. 4052748P now JC-218307X), 1st Dec 1991.

Hav Raghbir Singh Butola (No. 4049957F now JC-218308A), 1st Dec 1991.

Hav Raghbir Singh Bisht (No. 4054798Y now JC-218309H), 1st Dec 1991.

Hav Bachan Singh Panwar (No. 4051228X now JC-218310X), 7th Dec 1991\*.

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Bhagwan Singh Dhanwal (No. 14520813W now JC-218311A), 1st Dec 1991.

## The Kumaon Regiment

## To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Roshan Lal Kharwal (No. 4163321A now JC-218312H), 22nd Sep 1991.

Hav Clk Harpal Singh Yadav (No. 4163497L now JC-218313L), 27th Oct 1991\*.

\* (Granted ante date seniority with effect from 01 Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Ishwar Singh (No. 4163506F now JC-218314N), 1st Oct 1991.

Hav Clk Dharam Pal Singh Yadava (No. 4163879P now JC-218315W), 1st Dec 1991.

Hav Clk Hari Singh (No. 4163910Y now JC-218316Y), 12th Dec 1991.

## To be Nb Sub

Hav Laxman Singh Rora (No. 4167208H now JC-218317F), 11th Oct 1991.

Hav Gajendra Singh Mehta (No. 4166007X now JC-218318K), 22nd Dec 1991\*.

\* (Granted ante date seniority wef 01 Dec 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Nandan Singh (No. 4168659P now JC-218319M), 14th Dec 1991.

## The Naga Regiment

## To be Nb Sub

CHM ST Sweetson (No. 14700582N now JC-218320F), 1st May 1991.

Hav Deb Singh (No. 4163039P now JC-218321K), 1st Jan 1992.

## The Assam Regiment

## To be Nb Sub

Hav Maha Kanta Dekaraja (No. 4349797L now JC-218322M), 01st Jan 1991.

Hav Bashi Ram Radha (No. 4348691M now JC-218323P), 01st Jun 1991.

Hav Norendra Chandra Hazarika (No. 4347896P now JC-218324X), 18th Jun 1991.

Hav Indra Prasad Chhetri (No. 4348180H now JC-218325A), 18th Jun 1991.

Hav Biren Deka (No. 4348795N now JC-218326H), 18th Jun 1991.

Hav KH Brojadhan Singha (No. 4348930W now JC-218327L), 18th Jun 1991.

Hav Kanak Chandra Borman (No. 4349209M now JC-218328N), 18th Jun 1991.

Hav Putul Chandra Borah (No. 4350097K now JC-218329W), 01st Jul 1991.

Hav Karna Bahadur Thapa (No. 4350462A now JC-218330L), 01st Sep 1991.

Hav Surinder Kumar (No. 13733959W now JC-218331N), 02nd Sep 1991.

## To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Jagdish Prasad Rajak (No. 4348573Y now JC-218332W), 01st Nov 1991.

Hav/Clk Anil Bhowmik (No. 4348575K now JC-218333Y), 01st Dec 1991.

Hav Clk Dimbeswar Saikia (No. 4348580P now JC-218334F), 01st Dec 1991.

Hav Clk Hiralal Singha (No. 4348595X now JC-218335K), 01st Dec 1991.

## To be Nb Sub

Hav Kamal Saikia (No. 4350042A now JC-218336M), 01st Dec 1991.

## The Bihar Regt.

## To be Naib Subedar

Hav Makeswar Prasad Singh (No. 4250128K now JC-218337P), 19th August 1991\*.

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Hardayal Singh (No. 4250113F now JC-218338X), 1st February 1991.

Hav Lohar Singh Sawansi (No. 4250647M now JC-218339A), 15th November 1991\*.

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 91 without effect on pay and allowances).

Hav Shyam Nandan Kumar (No. 4249450K now JC-218340P), 11th September 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 91 without effect on pay and allowances).

CHM Dhaneshwar Yadav (No. 4250182X now JC-218341X), 25th August 1991.

Birendra Kumar Singh (No. 4253644K now JC-218342A), 29th August 1991.

Hav M Laxminarayana (No. 4255438Y now JC-218343H), 1st October 1991.

Hav Rajesh Kumar Xaxa (No. 4252853P now JC-218344L), 1st October 1991.

Hav Khirod Kumar Das (No. 4256235F now JC-218345N), 1st October 1991.

Hav Chandra Sekhar Mohanty (No. 4256644P now JC-218346W), 1st October 1991.

Hav Jai Kumar Singh (No. 4254025H now JC-218347Y), 23rd November 1991.

CHM Jamuna Prasad Singh (No. 4252146L now JC-218348F), 7th December 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 December 1991 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav (Clk) Bhrigu Nath Singh (No. 4252081H now JC-218349K), 1st November 1991.

Hav (Clk) Rajendra Prasad Singh (No. 2970244N now JC-218350Y), 1st December 1991.

Hav (Clk) Desh Raj Dhiman (No. 5341633N now JC-218351F), 1st December 1991.

Hav (Clk) Kashmiri Lal (No. 5039825W now JC-218352K), 1st December 1991.

Hav (Clk) Swapan Kumar Chakravorty (No. 4253551P now JC-218353M), 1st December 1991.

Hav (Clk) T C Mathews (No. 4253789P now JC-218354P), 1st December 1991.

Hav (Clk) Purna Chandra Mohanty (No. 4253776X now JC-218355X), 1st December 1991.

Hav (Clk) Rameshwar Singh (No. 4253865W now JC-218356A), 1st December 1991.

#### JAK RIF

To be Naib Subedar Clerk (GD)

Hav Clk Kulbir Chand Bali (No. 13735300M now JC-218357H), 5th Oct 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Sep 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Arjun Singh Sanghotra (No. 13735872N now JC-218358L), 23rd Dec 1991%.

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Dec 1991 without effect on pay and allowances).

To be Naib Subedar (GD)

Hav Om Parkash (No. 13733730X now JC-218359N), 1st Aug 1991.

Hav Suresh Kumar (No. 13734083P now JC-218360H), 1st Aug 1991.

Hav Hoshiar Singh (No. 13732946M now JC-218361I), 9th Aug 1991.

Hav Prem Chand (No. 13735946X now JC-218362N), 22nd Sep 1991.

Hav Sham Lal (No. 13736390I now JC-218363W), 5th Nov 1991@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30th Sep 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Harnam Singh (No. 13732857N now JC-218364Y), 18th Oct 1991£.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Parkash Chand (No. 13735792W now JC-218365F), 8th Nov 1991&.

&(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Sikander Singh (No. 13736037Y now JC-218366K), 1st Nov 1991.

Hav Mohinder Singh (No. 13735351A now JC-218367M), 18th Dec 1991!.

!(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Nov 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Madan Lal (No. 13732923L now JC-218368P), 1st Dec 1991.

Hav Mehar Chand Buddaga (No. 13733591Y now JC-218369X), 1st Dec 1991.

Hav Ashok Kumar (No. 13733910A now JC-218370M), 1st Dec 1991.

Hav Kundan Singh (No. 13734393A now JC-218371P), 1st Dec 1991.

Hav Jagtar Singh (No. 13737691F now JC-218372X), 1st Dec 1991.

Hav Rijha Ram (No. 13734165X now JC-218373A), 14th Dec 1991.

Hav Darshan Singh (No. 13733082A now JC-218374H), 1st Jan 1992.

Hav Romesh Kumar Sharma (No. 13736285P now JC-218375L), 1st Jan 1992.

#### JAK LI

To be Naib Subedars

Hav Kasturi Lal (No. 9078692M now JC-218376N), 29 Jun 91.

Hav Dilawar Singh (No. 9081372W now JC-218377W), 29 Jun 91.

Hav Youv Raj Singh (No. 9081531H now JC-218378Y), 18 Aug 91.

Hav Sher Baz (No. 9081259F now JC-218379F), 25 Aug 91.

Hav Santokh Singh (No. 9079565X now JC-218380W), 21 Dec 91\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Oct 91).

Hav Jagdish Chander (No. 9080844P now JC-218381Y), 21 Dec 91@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Nov 91).

CHM Shamshir Singh (No. 9079764L now JC-218382F), 22 Jul 91.

Hav Raghbir Singh (No. 9079952M now JC-218383K), 22 Jul 91.

Hav Balbir Singh Billawaria (No. 9081344K now JC-218384M), 22 Jul 91.

Hav Satish Kumar Manhas (No. 9081354N now JC-218385P), 22 Jul 91.

CHM Bhagwan Singh Choudhary (No. 9081376H now JC-218386X), 22 Jul 91.

Hav Jashpal Singh (No. 9081380P now JC-218387A), 22 Jul 91.

Hav Ghulam Mohd (No. 9081979H now JC-218388H), 22 Jul 91.

Hav Janak Raj (No. 9081538M now JC-218389L), 26 Sep 91\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 91).

Hav Rattan Lal (No. 13734106L now JC-218390A), 10 Dec 91\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 91).

Hav Bal Krishan (No. 9079265W now JC-218391H), 21 Nov 91@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Oct 91).

#### IGR

To be Nb Sub

Hav Rekhi Ram Pun (No. 5038495W now JC-218392L), 7th Nov 1991%.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 25th Oct 1991).

Hav Durga Bahadur Sirish (No. 5039246K now JC-218393N), 25th Oct 1991.

#### Ladakh Scouts

To be Naib Subedar (GD)

Hav Sonam Phunchok (9921540W now JC-218394W) 11th Nov 1991.\*

\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Nov 1991 without effect on pay and allowances).

#### Brigade of The Guards

To be Sub Maj

Sub Keshwar Prasad Yadav (JC-101866W) 01st Mar 1992.

Sub Ram Naresh Yadav (JC-108957H) 01st Mar 1992.

Sub Dungan Singh (JC-107095H) 01st Apr 1992.

Sub Rohtas Singh (JC-96965M) 01st Apr 1992.

Sub Ram Lal (JC-107082L) 01st Apr 1992.

Sub Valia Prambil Ammu Hamsa (JC-122752Y) 01st Apr 1992.

To be Sub

Nb Sub Ravindra Babu (JC-157255N) 01st Nov 1991.

Nb Sub Bhagrath (JC-166000P) 01st Nov 1991.

Nb Sub Ram Laxhan Pal (JC-163998M) 01st Jan 1992.

Nb Sub Diwani Chand (JC-166001X) 01st Jan 1992.

Nb Sub Raj Singh (JC-166002H) 01st Jan 1992.

Nb Sub Kunjeswar Sinha (JC-173114H) 01st Jan 1992.

Nb Sub Meja Singh (JC-159094P) 01st Mar 1992.

Nb Sub Budhimanta Swain (JC-162077A) 01st Mar 1992.

Nb Sub Bhimappa Padadale (JC-147356N) 01st Apr 1992.

Nb Sub Karni Singh (JC-162070W) 01st Apr 1992.

Nb Sub Bhagat Ram Kachhi (JC-159097H) 01st Apr 1992.

#### The MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Ashok Jadhav (JC-108583X) 1st Mar 1992.

Sub Shankar Bankar (JC-106120K) 1st Mar 1992.

To be Sub

Nb Sub Ashok Raut (JC-152448K) 1st Mar 1992.

Nb Sub Patil Bharna Balkrishna (JC-162130A) 1st Mar 1992.

Nb Sub Subhash Powar (JC-151227L) 1st Apr 1992.

Nb Sub Ananda Ubarhande (JC-159149N) 1st Apr 1992.

To be Sub Clk

Nb Sub Clk Tari Satyawan Gopal (JC-175347H) 1st Apr 1992.

Nb Sub Clk Luis Fernandes (JC-179312K) 1st Apr 1992.

Nb Sub Clk Dattu Chavan (JC-179298H) 1st Apr 1992.

#### THE GRENADIERS

To be Subedar

Nb Sub Umed Singh (JC-152810M) 01 Jan 1992.

Nb Sub Sadik Mohammed Bhatia (JC-155066L) 01 Jan 1992.

Nb Sub Ayub Ali Khan (JC-152811P) 01 Feb 1992.

Nb Sub Shankar Lall Meena (JC-181773M) 01 Apr 1992.

#### The Rajput Regiment

To be Sub

Nb Sub Rajinder Singh (JC-178253W) 1st Mar 1991.

Nb Sub Dharampal Singh (JC-172569M) 1st Apr 1991.

Nb Sub Surender Pal (JC-158374W) 1st July 1991.

Nb Sub Banwari Lal (JC-155308H) 1st Nov 1991.

Nb Sub Ram Pal Singh (JC-155306X) 1st Mar 1992.

Nb Sub Prahlad Ram Gujjar (JC-169155P) 1st Mar 1992.

Nb Sub Dharam Paul (JC-156006H) 1st Dec 1990.

Nb Sub Tilak Raj Singh (JC-171721H) 1st Jan 1991.

Nb Sub Roop Singh (JC-156008H) 1st Feb 1991.

Nb Sub Surjit Singh (JC-156009W) 1st Apr 1991.

Nb Sub Amin Chand (JC-156005A) 1st July 1991.

Nb Sub Phula Singh (JC-156007L) 1st July 1991.

Nb Sub Jarnail Singh (JC-156010L) 1st July 1991.

#### THE SIKH REGIMENT

TO BE SUBEDAR MAJORS

Sub Ajit Singh (JC-97846H) 01 Feb 1992.

Sub Abdul Waheed (JC-111855X) 01 Feb 1992.

Sub P Vasudevan (JC-117162W) 01 Apr 1992.

TO BE SUBEDAR CLERKS

Nb Sub Clk Surat Singh (JC-184356L) 01 Jan 1992.

Nb Sub Clk Gurdip Singh (JC-185773K) 01 Mar 1992.

Nb Sub Clk Onkar Singh (JC-192954X) 01 Apr 1992.

Nb Sub Clk Balwinder Singh (JC-192955A) 01 Apr 1992.

Nb Sub Clk Gian Singh (JC-192968X) 01 Apr 1992.

#### The Sikh LI

To be Sub (GD)

Nb Sub Major Singh (JC-144886X) 1st Oct 1991.

Nb Sub Baldev Singh (JC-152540H) 1st Nov 1991.

Nb Sub Raghbir Singh (JC-163660F) 1st Dec 1991.

Nb Sub Dhana Singh (JC-152542N) 1st Jan 1992.

Nb Sub Karnail Singh (JC-152543W) 1st Jan 1992.

Nb Sub Budh Singh (JC-156062F) 1st Jan 1992.

Nb Sub Jarnail Singh (JC-167224F) 1st Jan 1992.

Nb Sub Amarjit Singh (JC-167225K) 1st Jan 1992.

Nb Sub Amar Singh (JC-155701I) 1st Jan 1992.

Nb Sub Mohan Singh (JC-152125F) 1st Jan 1992.

Nb Sub Swaran Singh (JC-162153F) 1st Feb 1992.

Nb Sub Avtar Singh (JC-167226M) 1st Feb 1992.

To be Sub (Clks) (GD)

Nb Sub (Clk) Sucha Singh (JC-193791F) 1st Dec 1991.

Nb Sub (Clk) Gurdeep Singh (JC-193785N) 1st Dec 1991.

Nb Sub (Clk) Shingara Singh (JC-193786W) 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Ram Lal (JC-193787Y) 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Maghar Singh (JC-196517P) 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Gurbachan Singh Gill (JC-196498P) 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Samuel B Masih (JC-196499X) 1st Jan 1992.

The Dogra Regiment

To be Sub Maj

Sub Rajender Chauhan (JC-104111K) 1st Dec 1991.

Sub Baldev Singh (JC-103503L) 1st Jan 1992.

To be Sub

Nb Sub Harbans Singh (JC-178599A) 1st Oct 1991.

Nb Sub Ved Parkash (JC-155729I) 1st Dec 1991.

Nb Sub Uttam Chand (JC-152177X) 1st Dec 1991.

Nb Sub Bhagwan Singh (JC-149031Y) 1st Jan 1992.

To be Sub (Clk)

Nb Sub Clk Bhag Singh Manhas (JC-178031F) 1st Dec 1991.

Nb Sub Clk Jagdish Singh Pathania (JC-178030Y) 1st Dec 1991.

Nb Sub Clk Mohinder Singh (JC-179385W) 1st Dec 1991.

Nb Sub Clk Tarsem Lal (JC-179386Y) 1st Dec 1991.

Nb Sub Clk Punjab Singh (JC-179387F) 1st Dec 1991.

Nb Sub Clk Harnam Singh Verma (JC-179388K) 1st Dec 1991.

The Garhwal Rifles

To be Sub Maj

Sub Gamal Singh (JC-99385A) 1st Feb 1992.

To be Sub

Nb Sub Bhagat Singh, SM (JC-149076Y) 26th Jan 1992.

Nb Sub Kunwar Singh Rauthan (JC-152574W) 1st Feb 1992.

Nb Sub Trilok Singh Rawat (JC-167245K) 1st Feb 1992.

To be Sub (Clerk)

Nb Sub (Clk) Dilwar Singh (JC-176372N) 1st Feb 1992.

Nb Sub (Clk) Veer Singh Rawat (JC-176373W) 1st Feb 1992.

Nb Sub (Clk) Roxhubir Singh Rawat (JC-185225M) 1st Feb 1992.

Nb Sub (Clk) Govind Singh Rawat (JC-188531M) 1st Feb 1992.

The Garhwal Rifles

To be Sub Maj

Sub Kushla Nand Gaur (JC-118914F) 1st Jan 1992.

Sub Kunwar Singh (JC-103460F) 1st Jan 1992.

Sub Padmendra Singh Negi (JC-108934F) 1st Jan 1992.

To be Sub

Nb Sub Surendra Singh Negi (JC-163677P) 1st Nov 1991.

Nb Sub Suresh Singh (JC-163680P) 21st Nov 1991.

Nb Sub Raghunath Singh Negi (JC-159238M) 1st Dec 1991.

Nb Sub Nandan Singh (JC-159239P) 1st Dec 1991.

Nb Sub Harl Ram (JC-159240K) 1st Dec 1991.

Nb Sub Trilok Singh (JC-172778K) 1st Dec 1991.

Nb Sub Ghana Nand Khugsal (JC-151367X) 1st Dec 1991.

Nb Sub Bhagat Singh Negi (JC-151368A) 1st Dec 1991.

Nb Sub Ramesh Chander (JC-160928H) 1st Dec 1991.

Nb Sub Surendra Singh Negi (JC-164597K) 1st Dec 1991.

Nb Sub Govind Ram Mangain (JC-164821L) 1st Dec 1991.

Nb Sub Surendra Singh (JC-164984Y) 1st Dec 1991.

Nb Sub Jayamal Singh Sajwan (JC-166095A) 1st Jan 1992.

Nb Sub Vijai Singh Negi (JC-167256K) 1st Jan 1992.

Nb Sub Jot Singh Bisht (JC-173886A) 1st Jan 1992.

Nb Sub Bharat Singh Panwar (JC-159224M) 1st Jan 1992.

Nb Sub Jai Singh (JC-159228H) 1st Jan 1992.

Nb Sub Prem Singh (JC-167252N) 1st Jan 1992.

Nb Sub Yashwant Singh Bisht (JC-175389P) 1st Jan 1992.

To be Sub (Clerk)

Nb Sub (Clk) Dil Singh (JC-176365X) 1st Dec 1991.

Nb Sub (Clk) Thakur Singh (JC-176366A) 1st Dec 1991.

Nb Sub (Clk) Dhoom Singh (JC-176367H) 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Balbir Singh (JC-176368L) 1st Jan 1992.

Nb Sub (Clk) Girdhar Singh (JC-176370H), 1st Jan 1992.

To be Sub (Musician)

Nb Sub (Musician) Ram Chandar Singh (JC-158403A) 1st June 1991.

To be Sub Maj

Sub Gabar Singh (JC-103464X) 1st Apr 1992.

Sub Jagdish Singh (JC-106778K) 1st Apr 1992.

To be Maj (Clerk)

Sub (Clk) Surendra Singh Bisht (JC-130848W) 1st Apr 1992.



## To be Sub

Nb Sub Dayal Singh (JC-155409W) 1st Feb 1992.  
 Nb Sub Yashpal Singh (JC-152896W) 1st Feb 1992.  
 Nb Sub Shiv Singh (JC-152904K) 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Khim Singh (JC-152906P) 1st Apr 1992.  
 Nb Sub Raje Singh (JC-155398P) 1st Apr 1992.

## To be Sub (Clerk)

Nb Sub (Cik) Krishan Chandur Upadhyay (JC-188528M) 1st Apr 1992.

## The Naga Regiment

## To be Subedar

Nb Sub Bhim Singh (JC-173235K) 1st Feb 1992.  
 Nb Sub Rangsen Lemba Ao (JC-116520K) 13rd Mar 1992.

## The Kumaon Regiment

## To be Sub Maj

Sub Hansa Datt (JC-105391P) 1st Apr 1992.  
 Sub Shuli Mao (JC-116519P) 1st Apr 1992.  
 Sub Shimbhu Dayal (JC-101111Y) 1st May 1992.  
 Sub Bahadur Singh (JC-124619P) 1st May 1992.

## The Assam Regiment

## To be Sub Maj

Sub Surendra Chandra Hazarika (JC-105722L) 01st Apr 1992.

## To be Sub

Nb Sub Ghanashyam Das (JC-145575W) 01st Sep 1991.  
 Nb Sub T. Khanzathang Paite (JC-148504A) 01st Feb 1992.  
 Nb Sub Sher Bahadur Thapa (JC-156109P) 01st Feb 1992.  
 Nb Sub Sekendra Marak (JC-156111Y) 01st Feb 1992.  
 Nb Sub Benni Katty O (JC-159257X) 01st May 1992.

## To be Sub Maj Cik

Sub/Cik Schindra Mohan Pal (JC-112873M) 01st Apr 1992.

Sub Cik Dulal Chandra Buro (JC-164608L) 01st Dec 1991.

## To be Sub Cik

Nb Sub Cik Thomas TM (JC-164831P) 01st Dec 1991.

## The Mahar Regiment

## To be Sub Clerks (GD)

Nb Sub Cik Suba Singh (JC-172031L) 01 Nov 1991.  
 Nb Sub Cik Ramendra Singh Chauhan (JC-173271P) 01 Nov 1991.  
 Nb Sub Cik Gurmail Chand Premi (JC-173272P) 01 Nov 1991.  
 Nb Sub Cik Yeshavant Kamble (JC-175101K) 01 Nov 1991.  
 Nb Sub Cik Sukumaran G (JC-175102M) 01 Nov 1991.  
 Nb Sub Cik Ram Pal Singh (JC-175103P) 01 Nov 1991.  
 Nb Sub Cik Darshan Singh (JC-175445H) 01 Nov 1991.

Nb Sub Cik Sajjan Singh (JC-175446L) 01 Nov 1991.

Nb Sub Cik Gulzar Singh (JC-178665X) 01 Nov 1991.

Nb Sub Cik Sunder Singh Bisht (JC-179468F) 01 Nov 1991.

Nb Sub Cik M. Janardhanan (JC-179469K) 01 Nov 1991.

Nb Sub Cik Pritam Singh (JC-179470Y) 01 Dec 1991.

Nb Sub Cik Mauni Ram Chaudhari (JC-178301L) 01 Dec 1991.

## JAK RIF

## To be Subedar Major (GD)

Sub Puran Chand Joshi (JC-86083X) JAK RIF, 1st Sep 1991.

Sub Ajit Singh (JC-100601A) JAK RIF, 1st Oct 1991.

Sub Tek Chand Rana (JC-88269A) JAK RIF, 1st Oct 1991.

Sub Gokar Singh (JC-82823K) JAK RIF, 1st Nov 1991.

Sub Besar Ram Choudhary (JC-83426X) JAK RIF, 1st Dec 1991.

Sub Puran Singh (JC-86088W) JAK RIF, 1st Dec 1992.

Sub Gunjar Singh (JC-83538X) JAK RIF, 1st Jan 1992.

Sub Chhaju Singh (JC-87524P) JAK RIF, 1st Jan 1992.

## To be Subedar (GD)

Nb Sub Dewarka Nath (JC-178116X) JAK RIF, 1st Aug 1991.

Nb Sub Rangin Ram (JC-152961L) JAK RIF, 1st Sep 1991.

Nb Sub Karnal Singh (JC-155794L) JAK RIF, 1st Sep 1991.

Nb Sub Laxman Chand Sarma (JC-155788X) JAK RIF, 1st Sep 1991.

Nb Sub Mohinder Singh (JC-159296W) JAK RIF, 1st Sep 1991.

Nb Sub Thura Ram (JC-169259W) JAK RIF, 1st Sep 1991.

Nb Sub Musn. Khem Chand (JC-172603F) JAK RIF, 1st Sep 1991.

Nb Sub Kashmir Singh (JC-152975L) JAK RIF, 1st Oct 1991.

Nb Sub Ranjit Ram Shookle (JC-163929W) JAK RIF, 1st Oct 1991.

Nb Sub Krishan Ram (JC-162222M) JAK RIF, 1st Oct 1991.

Nb Sub Baboo Ram (JC-152207K) JAK RIF, 1st Nov 1991.

Nb Sub Kartar Singh (JC-185252W) JAK RIF, 1st Nov 1991.

Nb Sub Rattan Lal (JC-161001N) JAK RIF, 1st Nov 1991.

Nb Sub Achhar Singh (JC-163939A) JAK RIF, 1st Nov 1991.

Nb Sub Rajinder Singh (JC-169256H) JAK RIF, 1st Nov 1991.

Nb Sub Sardul Singh (JC-180898X) JAK RIF, 1st Nov 1991.

Nb Sub Rawal Singh (JC-159298F) JAK RIF, 21st Nov 1991.

Nb Sub Amar Singh Chauhan (JC-152204W) JAK RIF, 1st Dec 1991.

Nb Sub Bharat Singh (JC-152205Y) JAK RIF, 1st Dec 1991.

Nb Sub Inder Singh (JC-157920L) JAK RIF, 1st Dec 1991.

Nb Sub Sulakhan Singh (JC-169455W) JAK RIF, 1st Dec 1991.

Nb Sub Chain Lal (JC-161012A) JAK RIF, 1st Dec 1991.

Nb Sub Dila Ram (JC-155813L) JAK RIF, 14th Dec 1991.

Nb Sub Raghbir Singh (JC-180899A) JAK RIF, 16th Dec 1991.

Nb Sub Manmohan Singh (JC-130860X) JAK RIF, 1st Jan 1992.

Nb Sub Chinta Bahadur Thapa (JC-169252M) JAK RIF, 1st Jan 1992.

Nb Sub Dhani Ram (JC-180903X) JAK RIF, 1st Jan 1992.

Nb Sub Padam Singh (JC-180904A) JAK RIF, 1st Jan 1992.

Nb Sub Jagdish Chand (JC-181899M) JAK RIF, 1st Jan 1992.

Nb Sub Kehar Singh (Musn) (JC-179460P) JAK RIF, 1st Jan 1992.

Nb Sub Nasib Singh (JC-152206F) JAK RIF, 1st Feb 1992.

Nb Sub Waryam Singh Guleria (JC-155800N) JAK RIF, 1st Feb 1992.

Nb Sub Joginder Singh (JC-183108) JAK RIF, 1st Feb 1992.

Nb Sug Balbir Singh (JC-161007P) JAK RIF, 1st Feb 1992.

Nb Sub Keshav Datt (JC-164628Y) JAK RIF, 1st Feb 1992.

Nb Sub Dharm Pal (JC-162223P) JAK RIF, 1st Feb 1992.

Nb Sub Ishwar Singh (JC-163930L) JAK RIF, 1st Feb 1992.

Nb Sub Jaikaran Singh (JC-166767F) JAK RIF, 1st Feb 1992.

#### JAK LI

To be Subedar

Nb Sub Narinjan Singh (JC-143772A), 01 Mar 1992.

#### 4 GR

To be Sub Major

Sub Magan Mohan (JC-118143X), 1st Apr 1992.

To be Sub

Nb Sub Bom Bahadur Gurung (JC-178682X), 1st Nov 1991.

Nb Sub Vishwa Dev Bisht (JC-180908W), 1st Jan 1992.

Nb Sub Narjung Gurung (JC-180910N), 1st Mar 1992.

#### 9 GR

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Bishan Bahadur Shahi (JC-188422A), 1st Feb 1992.

To be Sub Mai

Subedar Nil Bahadur Chhetri (JC-105791F), 1st Jan 1992.

Subedar Ganesh Bahadur Chhetri (JC-95409W), 1st Feb 1992.

Subedar Parsa Bahadur Chhetri (JC-92792H), 1st Mar 1992.

#### 3 GR

To be Sub

Nb Sub Khem Bahadur Rana (JC-168624A), 1st Dec 1991.

Nb Sub Baim Bahadur Gurung (JC-168626L), 1st Dec 1991.

Nb Sub Budhi Bahadur Gurung (JC-162348M), 1st Dec 1991.

Nb Sub Prakash Bahadur Gurung (JC-166780L), 1st Dec 1991.

Nb Sub Chander Singh Gurung (JC-168941F), 1st Dec 1991.

Nb Sub Dal Bahadur Gurung (JC-169464X), 1st Dec 1991.

Nb Sub Khum Bahadur Gurung (JC-169470L), 1st Dec 1991.

Nb Sub Som Bahadur Rana (JC-178678P), 1st Jan 1992.

Nb Sub Jit Bahadur Gurung (JC-184491Y), 1st Jan 1992.

Nb Sub Gyan Bahadur Thapa (JC-184487W), 1st Feb 1992.

Nb Sub Ran Bahadur Thapa (JC-173104Y), 1st Feb 1992.

Nb Sub Uman Singh Gurung (JC-184488Y), 1st Feb 1992.

Nb Sub Lal Bahadur Gurung (JC-173105), 1st Feb 1992.

Nb Sub Narendra Bahadur Kharka (JC-184492F), 1st Feb 1992.

Nb Sub Prasad Pun (JC-184493K), 1st Feb 1992.

Nb Sub Nar Bahadur Thapa (JC-173106K), 1st Mar 1992.

Nb Sub Tsering Paldan (JC-163962N), 1st May 1992.

Nb Sub Arjun Singh Thapa (JC-175465W), 1st Mar 1992.

#### Ladakh Scouts

To be Sub (Clk)

Nb Sub (Clk) Gurdial Singh (JC-149527N), 1st May 1992.

To be Sub (GD)

Nb Sub Tsering Chhosphal (JC-163952K), 1st Apr 1992.

Nb Sub Chhewang Nurbu (JC-163961L), 1st Apr 1992.

Nb Sub Tsering Paldan (JC-163962N), 1st May 1992.

NARENDER SINGH,  
Desk Officer

#### (ARMY BRANCH)

No. 741, dated 15th July 1992.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

Corps of Electrical and Mechanical Engineers

HMT : To be Nb Sub Tech (Ro)

Tribeni Dubey (14501402H Now JC-218751N), 13 Dec 1991.

Jagdish Singh (7119332P Now JC-218752W), 01 Jan 1991.

HMT : To be Nb Sub Tech (Radar)

Bhale Rao Jagan Nath (14511803L Now JC-218743Y), 01 Jan 1991.

HMT : To be Nb Sub Tech (Elect)

Ram Sanahi Pal (14506460W Now JC-218754F), 01 Jan 1991.

## HAV : To be Nb Sub Clk (GD)

Durga Prasad (14501324W Now JC-218755K), 15 Dec 1991.

Chandra Prasad (14502298M Now JC-218756M), 01 Apr 1991.

Mobta Ram Vishnoi (14506566H Now JC-218757P), 01 Sep 1991.

Sat Pal Singh (14506303K Now JC-218758X), 01 Sep 1991.

Golap Chandra Pegu (14506926N Now JC-218759A), 01 Nov 1991.

Rajan Namath Parambath (14507861X Now JC-218760P), 26 Nov 1991\*.

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Sep 1991 without effect on pay and allowance.

Trco Nath (14508801P Now JC-218761X), 01 Oct 1991.

Suresh Prasad (14509071X Now JC-218762A), 23 Oct 1991\*\*.

\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Oct 1991 without effect on pay and allowances.

Vijay Kumar (14510022L Now JC-218763H), 01 Nov 1991\*\*\*.

Som Datt Sharma (12447459P Now JC-218764L), 01 Oct 1991.

Tej Singh Samant (6648276V Now JC-218765N), 01 Oct 1991.

Bachan Singh (14510287P Now JC-218766W), 28 Nov 1991\*\*\*\*.

K. Rathinam (12402654A Now JC-218767Y), 01 Nov 1991.

Gurdev Singh (14510397K Now JC-218768F), 01 Nov 1991.

Ram Avtar Singh (14510714A now JC-218769K), 01 Nov 91.

Durga Baksh Singh (14510736Y now JC-218770Y), 01 Nov 91.

Ram Pravesh Singh (14510796N now JC-218771F), 01 Nov 91.

Sukh Pal Singh (14510815N now JC-218772K), 01 Nov 91.

Ananta Kumar Sarkar (14510825X now JC-218773M), 01 Nov 91.

Mahendra Pal Singh (14511136H now JC-218774P), 01 Nov 91.

Surendra Nath Pandey (14511118A now JC-218775X), 01 Nov 91.

Shingara Singh (14511061W now JC-218776A), 01 Nov 91.

Bhola Ram (6648319A now JC-218777H), 01 Nov 91.

Chandra Mohan PT (14511181P now JC-218778L), 01 Nov 91.

Jabar Singh (14511069H now JC-218779N), 01 Nov 91.

Ram Tirath (6648302M now JC-218780H), 01 Nov 91.

Shree Bhagwan Prasad (6648304X now JC-218781L), 01 Dec 91\*\*\*\*.

\*\*\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub w.e.f. 01 Nov 91 without effect on pay and allowances.

Shital Bhaitha (14511191Y now JC-218782N), 01 Nov 91.

Munnolli Shiv Shankar (14511201X now JC-218783W), 01 Nov 91.

Likhok Chandra Bora (14511311M now JC-218784Y), 01 Nov 91.

Rama Chandran K (14511207Y now JC-218785F), 01 Nov 91.

Aghar Kumar Mandal (14511315H now JC-218786K), 01 Nov 91.

Kanaka Sundram Bezzam (14511266L now JC-218787M), 01 Nov 91.

Syed Khal'sa (6648316M now JC-218788P), 01 Nov 91.

Jarnail Singh (14511338K now JC-218789X), 01 Nov 91.

I Binooton Singha (14511528W now JC-218790M), 01 Nov 91.

S Venu Gopal (14511281A now JC-218791P), 01 Nov 91.

B Samuel Kishore Babu (6366115X now JC-218792X), 01 Nov 91\*\*\*\*.

Ram Judaun Pandey (14511292M now JC-218793A), 01 Nov 91.

Ravindran Pillai K (14511293P now JC-218794H), 01 Nov 91.

Ram Lakshan Singh (14511298N now JC-218795L), 01 Nov 91.

Dheram Deo Singh (14511368F now JC-218796N), 01 Nov 91.

Suraj Bali Ray (14511299W now JC-218797W), 01 Nov 91\*\*\*\*.

Karmala Das I. (14511301H now JC-218798Y), 01 Nov 91\*\*\*\*.

S Ponnuchamy (14511504M now JC-218799F), 01 Nov 91.

Sayed Yusuf Sharif (14511433W now JC-218800L), 01 Nov 91.

Venkata Ramana Reddy Gangi (14511549M now JC-218801N), 01 Nov 91.

Veer Belsaheb Tatyaba (14511439X now JC-218802W), 01 Nov 91.

V Purshothaman Nair (14511568X now JC-218803Y), 01 Nov 91.

Himmat Singh (14511586A now JC-218804F), 01 Nov 91.

Ragbir Singh (6648312W now JC-218805K), 01 Nov 91.

Chimma Ram Choudhary (14511660W now JC-218806M), 01 Nov 91.

R Balakrishnan (6366299F now JC-218807P), 01 Nov 91.

Raj Kumar (14511733X now JC-218808X), 15 Dec 91\*\*\*\*.

Ashok Kumar (14512171X now JC-218809A), 01 Nov 91.

Ishwar Dass (14512550N now JC-218810P), 01 Nov 91.

Ludukk' Prasad (14514067H now JC-218811X), 01 Nov 91.

Gumana Ram Dedar (14514045K now JC-218812A), 01 Nov 91.

Ravindra Kumar Mishra (14507482F now JC-218813H), 01 Nov 91.

Tirath Ram (14514083A now JC-218814L), 15 Dec 91\*\*\*\*.

Mewa Singh (11021145M now JC-218815N), 23 Nov 91\*\*\*\*.

Mathew Varghese K (14514187F now JC-218816W), 01 Nov 91.

Joseph K (14514156F now JC-218817Y), 01 Nov 91.

Raghav Prasad Pathak (14514461N now JC-218818F), 01 Nov 91.

Vasudevan Nair R (14515046Y now JC-218819K), 01 Nov 91.

Ancil A (14516048W now JC-218820Y), 28 Nov 91\*\*\*.  
Mahendra Ray (14517193A now JC-218821F), 01 Nov 91.

Shiv Ram Singh Krishnia (14517390H now JC-218822K), 15 Dec 91\*\*\*.

Hari Prakash Singh Jadaun (14517520A now JC-218823M), 01 Nov 91.

Sarwan Singh (14518075Y now JC-218824P), 15 Dec 91.

Ummed Singh Rathore (14519220X now JC-218825X), 30 Dec 91.\*\*\*

\*\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub SK Tech

Govinda Raj Bala Subramanian (14504431H now JC-218826A), 24 Jun 91%.

%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 91 without effect on pay and allowances.

Ram Pal (14504814P now JC-218827H), 19 Oct 91%%.

%%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Oct 91 without effect on pay and allowances.

Mohan Lal (14505892Y now JC-218828L), 23 Aug 91%% %.

%%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Jul 91 without effect on pay and allowances.

Peter Kullu (14507336F now JC-218829N), 23 Nov 91%% % %.

%%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 30 Oct 91 without effect on pay and allowances.

Subhash Chand (14508891F now JC-218830H), 17 Nov 91\*%.

\*%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 91 without effect on pay and allowances.

Bharat Singh (14509118F now JC-218831L), 18 Oct 91\*%.

Birajdar Vinayak Bhau Rao (14510311A now JC-218832N), 22 Nov 91%% %.

Som Nath Munda (14511120X now JC-218833W), 26 Oct 91%% %.

Vasire Chhinchubhai P (14511821N now JC-218834Y), 16 Dec 91\*\*\*\*.

\*\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 91 without effect on pay and allowances.

Hoshiyar Singh (14512150F now JC-218835F), 18 Oct 91%% %.

Prem Chandra Kumar (14512501L now JC-218836K), 18 Oct 91%% %.

Mohan Das KP (14514216L now JC-218837M), 13 Jan 92\*\*\*.

Kanwar Singh Jogi (14518444L now JC-218838P), 17 Jan 92\*%.

G Rama Nathan (14520498L now JC-218839X), 21 Nov 91\*% % %.

Madhukar Patil (14520766K now JC-218840M), 20 Nov 91\*% % %.

\*%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Nov 91 without effect on pay and allowances.

Diwan Singh Talak (14520769X now JC-218841P), 01 Dec 91.

Mahadu Phikaji Dongardive (14524001K now JC-218842X), 01 Dec 91.

Dharam Singh (14524673L now JC-218843A), 01 Dec 91.

Hav : To be Nb Sub FCM (GCE)

Tilak Raj (7108264M now JC-218844H), 11 Jul 91\*.

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 91 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub TCM (RO)

Hawa Singh Hooda (7109266K now JC-218845L), 23 May 91\*\*.

\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 91 without effect on pay and allowances.

Hardeep Singh (7110949F now JC-218846N), 16 May 91\*\*\*.

\*\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 May 91 without effect on pay and allowances.

Guruswamy Thever Subbaiah (7111198A now JC-218847W), 01 Jun 91.

Binay Kumar Tanti (7111666P now JC-218848Y), 01 Jun 91.

Braj Kishor (7110146X now JC-218849F), 01 Jun 91.

Shri Pati Banode (7113964K now JC-218850W), 01 Aug 91.

Devi Chand Sharma (7114872K now JC-218851Y), 01 Sep 91.

Umed Singh (7114898Y now JC-218852F), 01 Sep 91.

Rajak Haneefa (7115848A now JC-218853K), 01 Sep 91.

Prabodh Chandra Karmakar (7115861M now JC-218854M), 01 Sep 91.

Krishan Chandar Sharma (7115872K now JC-218855P), 25 Nov 91\*\*.

\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 91 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub EE Mech

Golak Chandra Nayak (14527763X now JC-218856X), 19 Nov 91\*% %.

\*%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Jul 91 without effect on pay and allowances.

Komal Shree Hari (14527833M now JC-218857A), 04 Feb 92\*% %.

K Jayadeva Naidu (14527852F now JC-218858H), 19 Dec 91.

Srinivasan G (14527859F now JC-218859L), 22 Jan 92\*% %.

Babul Hazarika (14527909F now JC-218860A), 21 Jan 92\*% %.

\*\*%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Om Prakash Verma (14527966H now JC-218861H), 19 Dec 91.

Vasi Reddi S Narayana (14528343L now JC-218862L), 19 Dec 91.

Hav : To be Nb Sub Armr

TM Rujan (7118022X now JC-218863N), 20 Jan 92.

Laxmi Chand (7126599M now JC-218864W), 01 Sep 91%.

%Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 91 without effect on pay and allowances.

Hira Lal (7127281F now JC-218865Y), 01 Jun 91.

Shivdhari Singh (14500213M now JC-218866F), 10 Dec 91\*.

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 91 without effect on pay and allowances.

Umesh Prasad Singh (7126048F now JC-218867K), 08 Dec 91\*% % %.

Narayan Singh (7126148M now JC-218868M), 24 Nov 91.\*% % %.

Bhup Singh Dogra (7127926Y now JC-218869P), 25 Nov 91\*% % %.

Diwan Singh Adhikari (14500444I now JC-218870K), 27 Nov 91\*% % %.

Chandra Veer Singh Tomar (14500497F now JC-218871M), 23 Nov 91\*% % %.

Raghu Nath Singh (14500592H now JC-218872P), 23 Nov 91\*% % %.

Shiradkar Narayan Sonu (14500831X now JC-218873X), 23 Nov 91\*% % %.

Prem Chand (14500849N now JC-218874A), 23 Nov 91\*% % %.

\*% % % Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Nov 91 without effect on pay and allowances.

Bhoo Dev (14500924M now JC-218875H), 31 Dec 91\*% % %.

Nirmal Chandra Panda (14501101Y now JC-218876L), 28 Dec 91\*% % %.

Karunish Muniyandu (7126862M now JC-218877N), 03 Feb 92\*.

Rajender Singh (14500210Y now JC-218878W), 31 Dec 91\*\*.

Shiv Narayan Yadav (14500694K now JC-218879Y), 26 Dec 91.

Jadeja Mayargaj Sinhji (14501035F now JC-218880N), 19 Jan 92\*\*.

Ishwar Daval Singh Rathore (14501578N now JC-218881W), 26 Dec 91.

Balbir Singh (14501678Y now JC-218882Y), 26 Dec 91.

Narayan Singh Kanwal (14501985L now JC-218883F), 30 Jan 92\*\*.

Hav : To be Nb Sub Armr

Subhash Chander (14502024F now JC-218884K), 16 Jan 92.\*@

Badal Chandra De (14502062X now JC-218885M), 26 Dec 91.

Narendra Kumar Singh (14502162H now JC-218886P), 01 Jan 92.\*@

Kishori Lal Kushwaha (7126591A now JC-218887X), 07 Jan 92.\*@

Ram Singh (14502744I now JC-218888A), 26 Dec 91.

Ram Bijharat Yadav (24502767K now JC-218889H), 01 Jan 92.\*@

Mohan Lal (14502955L now JC-218890X), 26 Dec 91.

Gugan Singh Yadav (14503151H now JC-218891A), 26 Dec 91.

Mahatam Prasad (14503414W now JC-218892H), 26 Dec 91.

Nar Singh Shivrain (14503544Y now JC-218893L), 01 Jan 92.\*@

B S Bahaduria (14503474L now JC-218894N), 01 Jan 92.\*@

\*@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Ramesh Kumar Sharma (14503576F now JC-218895W), 26 Dec 91.\*\*\*

\*\*\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 90 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub Elect (MV)

Sukhdev Singh (7110885K now JC-218896Y), 26 Dec 91.\*@

Bhagwan Dass (7112328K now JC-218897F), 26 Dec 91.\*@

Swadhin Kumar Mukherjee (7112655P now JC-218898K), 28 Dec 91.\*@

\*@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Ranjit Kumar Karmakar (7113416M now JC-218899M), 26 Dec 91.\*@

Kirpal Singh (7114074W now JC-218900W), 26 Dec 91.\*@@

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub Metal/Smith

Chham Bahadur Chhetry (7114072L now JC-218901Y), 18 Nov 91.@%

Dharma Nath Sharma (14500086H now JC-218902F), 21 Nov 91.@%

@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Nov 91 without effect on pay and allowances.

M Babayya (14501824N now JC-218903K), 26 Dec 91.

Daya Kishan (14512530A now JC-218904M), 26 Dec 91.

Hav : To be Nb Sub Carp & Jnr

Dhup Singh (7111210N now JC-218905P), 01 Jan 92.

Baleshwar Singh (14504269W now JC-218906X), 21 Nov 91.

Hav : To be Nb Sub Dvr (Rec)

Balmiki Singh (7113656K now JC-218907A), 13 Jan 92.\*% %

\*% % Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 12 Jan 92 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub Dvr (MT)

Ponnusam Ashokan (7113972F now JC-218908H), 24 Dec 91.\*@@

Sukhwasi Lal (7115773N now JC-218909L), 01 Jan 92.

K P Sudevan (7117354P now JC-218910A), 01 Jan 92.

Mahendra Pal Singh (7113671Y now JC-218911H), 26 Dec 91.

Kishan Ram (13849877M now JC-218912L), 29 Dec 91.\*@@@

\*@@@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub Ptr & Dectr

Sukhbir Singh (7127183F now JC-218913N), 07 Jan 92.\*% %

\*% % Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Oct 91 without effect on pay and allowances.

Ram Pratap Yadav (14527273L now JC-218914W), 01 Dec 91.

Siram Setty Veeru Naidu (14527303X now JC-218915Y), 01 Dec 91.

Hav : To be Nb Sub Dvr (MT)

Ram Vilas (7117157M now JC-218916F), 01 Dec 91.

Onkar Singh (7117230A now JC-218917K), 01 Dec 91.

Jhaban Singh (7117496M now JC-218918M), 01 Dec 91.

Teju Bhagat (7117668W now JC-218919P), 22 Dec 91.

Gurdev Singh (7117281N now JC-218920K), 29 Dec 91.\*@@

\*@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 22 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Rameshwar Prasad (14504859P now JC-218921M), 26 Dec 91.

Nirmale Naga (14505767F now JC-218922P), 17 Feb 92.\*@

\*@Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Dec 91 without effect on pay and allowances.

Hav : To be Nb Sub ER

Jaipal Singh (13862821Y now JC-218923X), 01 Jun 91.

#### REGULAR ARMY

#### CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGRS TO BE SUB MAJ CLK (GD)

Sub Viruttanathu Kunnath Sankunni Adigal (JC-114862Y), 01 Apr 1992.

To be Sub Maj Tech (EC)

Sub Attar Singh Yadav (JC-121678W) 01 Apr 1992.

Sub Amarapati Chattopadhyay (JC-116891M), 01 Apr 1992.

Sub Samunder Singh (JC-121680N), 01 Apr 1992.

Sub Surendra Singh Rawat (JC-131242Y), 01 Apr 1992.

Sub Ram Rattan (JC-117079Y), 01 Apr 1992.

Sub Kadakarayandi Ramaswamy (JC-117081W), 01 Apr 1992.

Sub Shadi Lal Gujral (JC-117083F), 01 Apr 1992.

Sub A Padmanabhan (JC-117084K), 01 Apr 1992.

Sub Mehar Chand Manchanda (JC-117097F), 01 May 1992.

Sub Babu Ram Jagdeva (JC-117099M), 01 May 1992.

Sub Labh Singh (JC-120011N), 01 May 1992.

To be Sub Maj Armr

Sub Chinnappan Rajarathinain (JC-165896P), 01 Feb 1992.

Sub Mohinder Singh (JC-166485N), 01 Apr 1992.

To be Sub Maj Rec Mech

Sub Ram Narain (JC-169079N), 01 Feb 1992.

To be Sub Clk (GD)

Naib Sub Gurdev Singh Bhullar (JC-184181N), 01 Nov 1991.

Naib Sub Chaman Lal (JC-184186M), 01 Nov 1991.

Naib Sub Abdul Gaffar Madarangi (JC-188833Y), 01 Nov 1991.

Naib Sub Mathew Varghase (JC-188882F), 01 Nov 1991.

Naib Sub Bir Singh (JC-190903L), 01 Nov 1991.

Naib Sub Lal Chand Yadav (JC-190857F), 01 Dec 1991.

Naib Sub Shayam Lal Sharma (JC-190910F), 01 Dec 1991.

Naib Sub Ajit Singh (JC-194754A), 01 Dec 1991.

Naib Sub Thomas George (JC-195595A), 01 Jan 1992.

Naib Sub Venkatesalu Varadarajan (JC-195604W), 01 Jan 1992.

Naib Sub Babu Ram Verma (JC-195605Y), 01 Jan 1992.

Naib Sub Gajraj Singh (JC-195532X), 01 Feb 1992.

Naib Sub Savari Muthu (JC-195611K), 01 Feb 1992.

Naib Sub Angodi Bhaskar (JC-195612P), 01 Feb 1992.

Naib Sub Jagan Nath Dhadwal (JC-195844N), 01 Feb 1992.

Naib Sub Shripal Singh Tomar (JC-197363A), 01 Feb 1992.

Naib Sub Ram Pravesh Singh (JC-195849M), 01 Feb 1992.

Naib Sub Bhrigu Nath Mishra (JC-199409W), 01 Feb 1992.

Naib Sub Par-huram Pandit (JC-195538Y), 01 Mar 1992.

Naib Sub Sodhu Singh Dhillon (JC-195539F), 01 Mar 1992.

Naib Sub Om Prakash Bohara (JC-195540W), 01 Mar 1992.

Naib Sub Balbir Singh (JC-195851K), 01 Mar 1992.

Naib Sub Karatar Singh (JC-195852M), 01 Mar 1992.

Naib Sub Tarsem Masih (JC-195541Y), 01 Mar 1992.

Naib Sub Sohanveer Singh (JC-195542F), 01 Mar 1992.

Naib Sub Kirtan Chandra Kalita (JC-195853P), 01 Mar 1992.

Naib Sub Jai Ram Verma (JC-195854X), 01 Apr 1992.

Naib Sub Chombakaparambil Thomman Chacko (JC-195543K), 01 Apr 1992.

Naib Sub Shital Singh (JC-195544M), 01 Apr 1992.

Naib Sub Nirmal Chandra Jena (JC-195855A), 01 Apr 1992.

Naib Sub Chaudhari Diwan (JC-197366N), 01 Apr 1992.

Naib Sub Damodar Prasad Sharma (JC-197367W), 01 Apr 1992.

Naib Sub Kirshnan Sukumara Korup (JC-197368Y), 01 Apr 1992.

Naib Sub Shyam Bahadur (JC-197370W), 01 Apr 1992.

Naib Sub Rama Nand (JC-197371Y), 01 Apr 1992.

Naib Sub Kuldip Singh (JC-197372F), 01 Apr 1992.

Naib Sub Kanhi Ram Yadav (JC-197373K), 01 Apr 1992.

Naib Sub Narendra Nath Patar (JC-199413Y), 01 May 1992.

Naib Sub P Chavda (JC-198603Y), 01 May 1992.

Naib Sub P Ramachandran Pillai (JC-199411N), 01 May 1992.

Naib Sub Sambhaji Rao Vishnu Kadam (JC-199414F), 01 May 1992.

Naib Sub Bhakti Bushan Mandal (JC-199416M), 01 May 1992.

Naib Sub Sampuran Singh Bajwa (JC-199417P), 01 May 1992.

To be Sub Tech & Artz (EC)

Naib Sub Bharat Singh (JC-168263M), 01 Sep 1991.

Naib Sub Shanmugham Rajendran (JC-170852N), 01 Oct 1991.

Naib Sub Bhairab Dutt Nagarkoti (JC-176029L), 01 Nov 1991.

Naib Sub Khem Singh (JC-170815N), 01 Nov 1991.

Naib Sub Om Prakash Sharma (JC-181499A), 01 Jan 1992.

Naib Sub Kashinath Ghosh (JC-181512Y), 01 Jan 1992.

Naib Sub PuJha Ram (JC-176186X), 01 Jan 1992.

Naib Sub Krishan Lal (JC-181462Y), 01 Jan 1992.

Naib Sub Baby MA (JC-181464K), 01 Jan 1992.

- Naib Sub R Kathiresan (JC-176134F), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Puran Singh Mehta (JC-176135K), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Kailasam Murugesan (JC-176137P), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Puran Singh (JC-181102H), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Ram Khilari Sharma (JC-176167M), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Jaydev Chakravarthy (JC-181440A), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Ram Awadh Tiwari (JC-181472H), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Chandru Sekhar Sahoo (JC-181250X), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Nawraj Limbu (JC-181522H), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Harpal Singh (JC-176055L), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Bhopal Singh (JC-181523L), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Devender Singh Balyan (JC-181450K), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Sardari Lal (JC-181451M), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Samay Singh Tomar (JC-177557F), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Mangala Ranaiah (JC-176112H), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Sukhvir Singh (JC-181453K), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Jai Prakash (JC-176114N), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Girish Kumar Krishnaan (JC-176116Y), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Surya Narayan Pandey (JC-177560F), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Binod Kumar (176117F), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Gorakhnath Chaubey (JC-176118K), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Ram Singh (JC-181427W), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Jaswant Singh Negi (JC-176187A), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Bijendra Singh (JC-176183H), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Ram Naresh Sharma (JC-181428Y), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Gurusamy Gurusamy (JC-176190A), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Chinnappan Ventaktesan (JC-177644K), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Rebadhar Pandey (JC-176191H), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Hari Mohan (JC-181429F), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Sita Ram Dwivedi (JC-181438W), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Govind Singh (JC-176192L), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Suresh Kumar Singh (JC-177545M), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Kanagabammangal Singha (JC-181431Y), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Walaiti Ramkir (JC-182389X), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Sukhbir Singh (JC-182526Y), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Kashmir Singh (JC-182381L), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Kartar Singh Rao (JC-181103L), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Darshan Singh (JC-181527F), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Dharampaul (JC-181530F), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Chagan Singh Rathore (JC-181531K), 01 May 1992.  
 Naib Sub Prem Chand Regar (JC-181532M), 01 May 1992.  
 Naib Sub Kuldip Singh (JC-181534X), 01 May 1992.  
 Naib Sub Rajamuni P (JC-176108A), 01 May 1992.  
 Naib Sub Mangal Singh (JC-181625F), 01 May 1992.  
 Naib Sub Vinod Singh (JC-181626K), 01 May 1992.  
 Naib Sub Gurmail Singh (JC-176110X), 01 May 1992.  
 Naib Sub Tulsi Ram Mishra (JC-176111A), 01 May 1992.  
 Naib Sub Ajmer Singh (JC-176058A), 01 May 1992.  
 Naib Sub Ved Singh (JC-177533X), 01 May 1992.  
 Naib Sub Vidhate Sarje Rao (JC-187792M), 01 May 1992.  
 Naib Sub Hazara Singh (JC-181535A), 01 May 1992.  
 Naib Sub Ram Devan Prasad Singh (JC-181536X), 01 May 1992.  
 Naib Sub Duseph PV (JC-181537L), 01 May 1992.  
 Naib Sub Piara Singh (JC-176062H), 01 May 1992.  
 Naib Sub Phillipose KP (JC-182291K), 01 May 1992.  
 Naib Sub Shivakant Shukla (JC-176063L), 01 May 1992.  
 Naib Sub Palaniappa Subramanian (JC-181538M), 01 May 1992.  
 Naib Sub Krishnand Sharma (JC-176064N), 01 May 1992.  
 Naib Sub CX Felix (JC-176065W), 01 May 1992.  
 Naib Sub Mahan Singh (JC-181540L), 1 May 1992.  
 Naib Sub K Ravendra Kurup (JC-181541N), 01 May 1992.  
 Naib Sub Gopalan Nambiar (JC-176066Y), 01 May 1992.  
 Naib Sub Jagdish Singh (JC-181543Y), 01 May 1992.  
 Naib Sub Sudarshan Prasad (JC-182292M), 01 May 1992.  
 Naib Sub Somanathan VA (JC-181544F), 01 May 1992.  
 Naib Sub Kishan Ram (JC-184151W), 01 May 1992.  
 Naib Sub Jagpal Singh Yadav (JC-184152Y), 01 May 1992.  
 To be Sub SKT  
 Naib Sub Tippanna Subbarao Govekar (JC-189143F), 01 Nov 1991.  
 Naib Sub Manohar Lal (JC-189316N), 01 Nov 1991.  
 Naib Sub Jagaram Shivhare (JC-189232A), 01 Nov 1991.  
 Naib Sub Rama Krishnan Nair KK (JC-189151A), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Sarnam Singh (JC-189152H), 1 May 1992.  
 To be Sub Armr  
 Naib Sub Ram Chander (JC-189163P), 01 Aug 1991.  
 Naib Sub Kan Singh (JC-188931Y), 1 Sep 1991.  
 Naib Sub Mange Ram (JC-190959X), 01 Dec 1991.  
 Naib Sub Harlal Meena (JC-190892K), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Ramdayal Phulwar (JC-190963A), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Bateshwar Singh (JC-191133W), 01 May 1992.  
 Naib Sub Sant Ram (JC-191134Y), 01 May 1992.  
 To be Sub Dvr (MT)  
 Naib Sub Shiv Narayan (JC-179139L), 01 Nov 1991.  
 Naib Sub Ranbir Singh (JC-182377H), 01 Dec 1991.  
 Naib Sub Bhaskaran Vallikat Vallappil (JC-189356P), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Dariya Singh (JC-187885P), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Tulsi Ram (JC-187886H), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Rajender Prasad Yadav (JC-187888W), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Nathu Ram (JC-187889W), 01 Jan 1992.

Naib Sub Nityananda Mahato (JC-188857H), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Man Bhawan (JC-188859N), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Sheo Ram (JC-188860H), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Ram Kishore Mishra (JC-188861L), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Raghubir Singh Yadav (JC-189479F), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Ram Chander (JC-188863W), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Arjan Singh (JC-188866K), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Jatinder Paul (JC-189175K), 01 Jan 1992.  
 Naib Sub Rajendra Prasad Sharma (JC-188868P), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Suraj Bhan (JC-189481Y), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Bhawani Singh (JC-189482F), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Dashain Prasad Sinha (JC-188869X), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Ram Chander Pandey (JC-189483K), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Laxmi Narain (JC-190893L), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Mani Singh Bhadoria (JC-188870M), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Pohl Singh Thapa (JC-188954A), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Sheo Bhagwan (JC-189484M), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Thakur Tulsī Ram (JC-188871P), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Devi Singh Rathaur (JC-188955H), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Kamaljit Singh Shahid (JC-189487A), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Hari Singh (JC-188956L), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Balwinder Singh (JC-188897N), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Joga Ram (JC-189488H), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Geevarghese Baby Kutty (JC-189489L), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Lalji Singh (JC-191090M), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Shri Narain Tiwari (JC-191091P), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Daya Nand (JC-191088P), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Baljit Singh (JC-191092X), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Ram Phal (JC-191092H), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Harender Singh (JC-190996L), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Madan Mohan Singh (JC-190896A), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Dnyaneshwar Rewaskar (JC-190897H), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Durga Prasad Lala (JC-190898L), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Rajbir Singh (JC-190899N), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Satya Nath Phukan (JC-195652W), 01 May 1992.

To be Sub Rec Meeh

Naib Sub Sudama Prasad (JC-191037F), 01 Dec 1991.  
 Naib Sub Rattan Chand (JC-190946A), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Man Singh (JC-190880P), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Mohinder Singh (JC-191039M), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Kishan Ram (JC-191040F), 01 Apr 1992.  
 Naib Sub Lahri Ram (JC-191041K), 01 May 1992.  
 Naib Sub Chandra Mani (JC-191042M), 01 May 1992.  
 Naib Sub Harendra Singh (JC-191043P), 01 May 1992.

To be Sub Artzn (NE)

Naib Sub Awadh Bihari Bhatnagar (JC-188921P), 01 Jun 1991.  
 Naib Sub Karmegham Rajeswaran (JC-191083W), 01 Dec 1991.  
 Naib Sub Mahesh Chandra Pradhan (JC-191061X), 01 Feb 1992.  
 Naib Sub Om Prakash (JC-191082N), 01 Mar 1992.  
 Naib Sub Ram Murat Singh (JC-188918P), 01 May 1992.  
 Naib Sub Kharak Singh (JC-191060P), 01 May 1992.

S. K. RAY, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 742 dated 7-7-92.—The President is please to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mohanadasan TM (No. 2576377M now JC-219654H), 1st July 1991.  
 Hav Vijayakumar KK (No. 2576405N now JC-219655L), 1st July 1991.  
 Hav Kumaraswamy TB (No. 2577510W now JC-219656N), 1st Aug 1991.  
 Hav Sathia Dass D (No. 2571302L now JC-219657W), 20th Sep 1991.  
 Hav Poulse OI (No. 2577412W now JC-219658Y), 20th Sep 1991.  
 Hav Selvam Rengaraj (No. 2573807A now JC-219659F), 20th Sep 1991.  
 Hav Takkalapati Damodaran Naidu (No. 2575189Y now JC-219660W), 20th Sep 1991.  
 Hav Bevara Trinadham (No. 2575766A now JC-219661Y), 20th Sep 1991.  
 Hav Pavizhendran G (No. 2574397F now JC-219662F), 20th Sep 1991.  
 Hav Mohanan KN (No. 2574615P now JC-219663K), 20th Sep 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav(Clk) Devaraj Manoharan KM (No. 2573819P now JC-219664M), 1st Nov 1991.  
 Hav(Clk) Narayanan CN (No. 14520869H now JC-219665P), 1st Nov 1991.

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Balbir Singh (No. 2664250M now JC-219666X), 05 Dec 90.  
 (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 90 without effect on pay and allowances).  
 Hav Attar Singh (No. 2662234W now JC-219667A), 26 Mar 91.  
 (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 25 Feb 91 without effect on pay and allowances).  
 Hav Narain Singh (No. 2664036K now JC-219668H), 01 Apr 91.  
 Hav Prem Lal Gujar (No. 2666847N now JC-219669L), 29 Jun 91.  
 (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 91 without effect on pay and allowances).



Hav Amar Singh Meena (No. 2665716H now JC-219670A), 01 Jul 91.

Hav Raj Narain Singh (No. 2666668N now JC-219671H), 11 Jul 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 91 without effect on pay and allowances).

Hav Govind Singh (No. 2663450W now JC-219672L), 16 Jul 91.

Hav Kanhaiya Lal (No. 2662317F now JC-219673N), 30 Jul 91.

Hav Janak Singh (No. 8022803K now JC-219674W), 07 Aug 91.

Hav Indal Singh Tomar (No. 2666162P now JC-218675Y), 01 Sep 91.

Hav Chhotu Ram (No. 2661426F now JC-219676F), 18 Oct 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Hamid Khan Kaim Khanl (No. 2665879K now JC-219677K), 22 Oct 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 90 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Prahlaad Singh (No. 2663924M now JC-219678M), 01 Sep 91.

Hav/Clk Gopala Ram Verma (No. 2663976H now JC-219679P), 01 Sep 91.

Hav/Clk Kewal Singh (No. 2664355W now JC-219680K), 01 Oct 91.

Hav/Clk Jagdish Chand (No. 2664409M now JC-219681M), 01 Oct 91.

Hav/Clk Umed Khan (No. 2867480P now JC-219682P), 01 Oct 91.

The Raj Rif

To be Nb Sub

Hav Dharambir Singh (No. 2869682P now JC-219683X), 1st Feb 1991.

Hav Takhat Singh Rathore (No. 2867633N now JC-219684A), 1st May 1991.

Hav Sajjan Singh (No. 2870089H now JC-219685H), 12th May 1991.

Hav Badri Singh Shekhawat (No. 2871489F now JC-219686L), 1st July 1991.

Hav Gurudayal Jat (No. 2867669M now JC-219687N), 9th July 1991.

Hav Ram Kanwar Bahnewal (No. 2867684F now JC-219688W), 1st Aug 1991.

Hav Brij Raj Singh (No. 2871753K now JC-219689Y), 9th Aug 1991.

Hav Bhanwar Singh (No. 2868160M now JC-219690N), 1st Sep 1991.

Hav Narsinga Ram Jat (No. 2864942L now JC-219691W), 1st Sep 1991.

Hav Mukh Ram (No. 2864152W now JC-219692Y), 22nd Sep 1991.

The Rajput Regiment

To be Nb Sub

Hav Rajpal Sharma (No. 2971853K now JC-219693F), 1st Dec 1990.

Hav Jagpal Singh (No. 2971979K now JC-219694K), 29th Jul 1991\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Apr 1991 without effect on pay and allowances).

15—204 GI/92

Hav Shyam Singh (No. 2971027K now JC-219695M), 11th May 1991.

Hav Gori Sahae (No. 2966382X now JC-219696P), 28th June 1991\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Shyamveer Singh (No. 2971913N now JC-219697X), 1st June 1991.

Hav Balbir Singh (No. 2975991H now JC-219698A), 1st July 1991.

Hav Ram Singh (No. 2971413W now JC-219699H), 26th Oct 1991\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Subhash Chandra (No. 2970729W now JC-219700M), 1st Aug 1991.

The Jat Regt

To be Nb Sub

Hav Jay Singh (No. 3164627Y now JC-219701P), 21st June 1991.

Hav Kheta Ram Chowdhary (No. 3164127F now JC-219702X), 1st Aug 1991.

Hav Om Prakash (No. 3159059P now JC-219703A), 1st Oct 1991.

Hav Baljit Poonia (No. 3165598F now JC-219704H), 1st Nov 1991.

Hav Dharam Dev Arya (No. 3166651N now JC-219705L), 1st Nov 1991.

Hav Arjun Ram Bhadala (No. 3166667Y now JC-219706N), 1st Nov 1991.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Balbir Singh (No. 3369866F now JC-219707W), 7th Sep 91%.

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Feb 91 without effect on pay and allowances).

CHM Satgur Singh (No. 3372864F now JC-219708Y), 3rd July 91.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Avtar Singh (No. 3371671P now JC-219709F), 1st Nov. 91.

Hav Clk Bisa Singh (No. 14520269A now JC-219710W), 1st Nov 91.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

CHM Jit Singh (No. 336928H now JC-219711Y), 27th Sep 91.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Kashmir Singh (No. 14520705M now JC-219712F), 1st Nov 91.

The Sikh LI

To be Nb Sub (OD)

Hav Ram Richhpal Singh (No. 4451055Y now JC-219713K), 1st Feb 1991.

To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav(Clk) Harbhajan Singh (No. 4453237L now JC-219714M), 1st Sep 1991.

## The Sikh LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Charan Singh (No. 4455195H now JC-219715P), 28th July 1991.

Hav Karnail Singh (No. 4454363K now JC-219716X), 28th July 1991.

Hav Motiram Singh (No. 4454739A now JC-219717A), 28th July 1991.

Hav Avtar Singh (No. 4457472F now JC-219718H), 28th July 1991.

Hav Pritam Singh (No. 4456315H now JC-219719L), 28th July 1991.

Hav Sukhdev Singh (No. 4458104Y now JC-219720A), 28th July 1991.

Hav Jasvir Singh (No. 4455952M now JC-219721H), 1st Aug 1991.

## The Dogra Regiment

## To be Nb Sub

Hav Sada Nand Chandel (No. 3970176F now JC-219722 L), 20th Sep 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Sudarshan Kumar (No. 3970582F now JC-219723N), 7th Sep 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 19 May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Parshotam Ram (No. 3968826L now JC-219724W), 18th Aug 1991.

Hav Madan Lal (No. 3969010N now JC-219725Y), 1st Oct 1991.

Hav Hans Raj (No. 3968657P now JC-219726F), 1st Oct 1991.

## To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Amar Nath Sharma (3970861M now JC-219727 K), 1st Sep 1991.

Hav Clk Ved Parkash Sharma (No. 3970873F now JC-219728M), 1st Sep 1991.

## The Dogra Regiment

## To be Nb Sub

Hav Basu Dev (No. 3968629H now JC-219729P), 2nd May 1991.

Hav Sohan Lal (No. 3965970P now JC-219730K), 2nd May 1991.

Hav Malkit Singh (No. 3968253M now JC-219731M), 2nd May 1991.

Hav Rattan Singh (No. 3968593P now JC-219732P), 4th June 1991.

Hav Kartar Singh (No. 3965480F now JC-219733X), 27th Sep 1991.

## To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Baldev Singh (No. 3970905Y now JC-219734A), 1st Nov 1991.

## The Dogra Regiment

## To be Nb Sub

Hav Hari Om Kaushal (No. 3968956N now JC-219735H), 13th Aug 1991.

## To be Naib Subedar (Clk)

Hav/Clk Om Prakash (No. 3970916L now JC-219736L), 1st Nov 1991.

## The Kumaon Regiment

## To be Nb Sub

Hav Jai Pal Singh Yadav (No. 13607957Y now JC-219737 N), 7th Sep 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 01 Sep 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ayodhya Prasad (No. 4164083L now JC-219738W), 1st Sep 1991.

Hav Ram Surat (No. 4161905M Now JC-219739Y), 1st Sep 1991.

## The Kumaon Regiment

## To be No Sub

Hav Brahma Nand Yadav (No. 44166931X now JC-219740 N) 1st July 1991.

Hav Hem Singh (No. 4163030A now JC-219741W), 17th Oct 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 26 Jul 1991 without effect on pay and allowances).

CHM Mohan Lal (No 4165040 H now JC-219742Y), 1st Aug 1991.

Hav Pyere Lal Singh (No 4169851L now JC-219743F), 21st Sept 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Pratap (No 4163666F now JC-219744K), 19th Aug 1991.

Hav Jodhav Chand (No 4165841K now JC-219745M), 3rd Nov 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 28 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ramesh Singh (No 4164217Y now JC-219746P), 28th Aug 1991.

Hav Satya Narain Singh (No 13857857N now JC-219747X), 7th Oct 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 01 Sep 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Chander Yadav (No. 4164355A now JC-219748 A), 25th Sep 1991.

Hav Sukhbir Singh (No 4166988M now JC-219749H), 25th Sep 1991.

Hav Nihal Singh (No 4167068F now JC-219750X), 25th Sep 1991.

Hav Rajindra Singh Yadav (No 4168988I. now JC-219751A), 1st Oct 1991.

Hav Rohtas Kumar (No 4166927P now JC-219752H). 1st Oct 1991.

Hav Puran Singh (No. 4162384W now JC-219753L), 1st Dec 1991.

## The Assam Regiment

## To be Nb Sub

Hav Birendra Kumar Sinha (4347782K now JC-219754N), 31st Dec 90.

Hav G. Shiv Narayan (2574077M now JC-219755W), 01st Jan 91.

Hav Biron Chandra Ray (4348974N now JC 219756Y), 12th Feb 91.

Hav Haripada Sarkar (4347313F now JC-219757F), 01st Feb 91.

Hav Nabaghan Behura (4349507H now JC- 219758K), 01st May 91.

Hav Tangudu Rameswar Patro (4349502K now JC 219759 M), 01st May 91.

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Rajat Kanti Das (4348569W now JC 219760F), 01st Oct 91\*.

\*(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jan 91).

Infantry

The Bihar Regt

To be Nb Sub

CHM Sambhu Kumar Singh (No 4252409Y Now JC-219761K), 21st September 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 29th Jan 91 without effect on pay and allowances).

CHM Ignace Lakra (No. 4250607L now JC-219762M), 1st February 1991.

CHM Sukhdeo Chaudhary (No 4249574Y Now JC-219763 P), 26th March 1991.

Hav Dawarika Singh (No 4249490L Now JC-219764X), 5th April 1991.

Hav Parmeshwar Mishra (No 4249159X Now JC-219765 A), 5th April 1991.

Hav Ram Nath Singh (No 4251340N Now JC 219766H), 1st September 1991.

Hav Sushil Tiru (No 4253382Y Now JC-219767L), 13th September 1991.

CHM Sudama Rai (No. 4251294K now JC-219768N), 15th October 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Mani Kumar Pradhan (No 4252066N Now JC-219769W), 1st October 1991.

Hav (Clk) Bhagban Chandra Biswas (No. 4252080A now JC-2197N700L), 1st October 1991.

The Mahar Regiment

To be Nb Sub

Hav Jadav Tathyabha Chandu (No 4544580F now JC-219771N), 07th May 91.

CHM Dalip Singh (No 4546134Y now JC-219772W), 05th Jun 91.

Hav Sathe Dnyandeo Tukaram (No 4542155X now JC-219773Y), 01 July 91.

CHM Laxman Salve (No. 4541404Y now JC-219774F), 01st Sept 91.

Hav Tika Singh (No 4544356P now JC-219775K), 25th Sep 91.

Hav Balraj Singh Talyan (No 4544366Y now JC-219776 M), 25th Sep 91.

Hav Om Parkesh (No. 4544185N now JC-219777P), 25th Sep 91.

Hav Janak Raj (No 4544594F now JC-219778X), 16th Oct 91.

CHM Dalbir Singh (No 9213575L now JC-219779A), 01st Nov 91.

Hav Babu Lal Rao (No 2865749L now JC-219780P), 01st Nov 91.

Hav Shyam Lal (No 2865859A now JC-219781X), 01st Nov 91.

To be Nb Sub Clerk (GD)

Hav Clk Avtar Singh (13733001P Now JC-219782A), 1st Sep 1991.

Hav Clk Kirpal Singh Manhas (13734638L now JC-219783 H), 1st Sep 1991.

Hav Clk Sham Lal Sharma (13735309F Now JC-219784 L), 1st Sep 1991.

Sav Clk Raj Kumar Singh (6648268X Now JC-219785N), 1st Sep 1991.

Hav Clk Sansar Chand Sharma (8022435A No JC-219786 W), 1st Sep 1991.

To be Nb Sub (GD)

Hav Munshi Ram (13734268W Now JC-219787Y), 1st Jun 1991.

Hav Man Chand Chauhan (13733496M Now JC-219788 F), 25th Jun 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jun 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Daya Ram (13732454N Now JC-219789K), 1st Jul 1991.

Hav Karnail Singh (13734852N Now JC-219790Y), 5th Jul 1992\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 9th 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Om Parkash (13733460N Now JC-219791F), 17th Jul 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16th Jul 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Swaran Singh (13732749K Now JC-219792K), 1st Aug 1991.

Hav Shankar Singh (13732795Y Now JC-219793M), 1st Aug 1991.

Hav Durga Dass (13733831L Now JC-219794P), 1st Aug 1991.

Hav Harbans Singh (13736358W Now JC-219795X), 5th Aug 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 10th Mar 1991 without effect on pay & allowances).

JAK LI

To be Nb Sub

Hav Krishan Chand (No 9082002N Now JC-219796A), 07 Nov 91\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 15th Oct 90).

Hav Rattan Singh (No 9081539P Now JC 219797H), 07th Nov 91\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Nov 90).

Hav Nasib Singh (No 9081763F Now JC-219798L), 23 Sep 91\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Feb 91).

Hav Sham Lal (No 9081782M Now JC 219799N), 23 Sep 91%.

% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Mar 91).

Hav Yog Raj (No 9081930M Now JC-219800X), 03 Nov 91%%.

%% (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 16 Mar 91).

Hav Balbir Singh (No 2461879K Now JC-219801A), 01 Sep 91.

Hav Baldev Raj Shrama (No 9079077P Now JC 219802 H), 13 Oct 91@.

@ (Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Sep 91).

Hav Kuldeep Singh (No. 9079084L Now JC-219803L), 02 Oct 91@@.

@@(Granted seniority in the rank of Nb wef 02 Sep 91).

#### 11GR

To be Nb Sub

Hav Shiva Kumar Rai (9411860P now JC-219804N), 01st Jun 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 91).

Hav Tul Bahadur Rai (9411184L now JC 219805W), 01st May 91.

Hav Chhatra Bahadur Rai (9411477W now JC-219806Y), 28th May 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 91).

Hav Dambar Bahadur Rai (9412024X now JC 219807F) 15th May 91.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 May 91).

Hav Udai Kumar Rai (9413604Y now JC 219808K), 01st Apr 91.

Hav Padam Bhadur Gurung (9413090M now JC 219809M), 12th Aug 91.

Hav Jaya Kumar Rai (9412912M now JC-219810F), 01st Sep 91.

#### 1GR

To be Nb Sub

Hav Ranjit Pun (No 5040372H Now JC-219811K), 1st Oct 1991.

Hav Karan Vir Gurung (No 5040028X Now JC-219812M), 1st Oct 1991.

Hav Sarwan Kumar Thapa (No 5039261Y Now JC-219813P), 1st Nov 1991.

Hav Rohit Kumar Thapa (No. 5039282P Now JC-219814X), 1st Nov 1991.

#### 8 GR

To be Nb Sub

Hav Raj Bahadur Gurung (No 5745775Y now JC-219815A), 13th May 1991.

Hav Prasad Lama (No 5745700F now JC-219816H), 1st Sep 1991.

Hav Dil Bahadur Gurung (No 5745651K now JC-219817L), 1st Oct 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav Devi Singh Thapa (No 5745887Y now JC-219818N), 1st Aug 1991.

Hav Naresh Chandra Joshi (No 5745896A now JC-219819W), 1st Oct 1991.

#### LADAKH SCOUTS

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Ganga Ram (9079911H now JC-219820L), 01 Apr 91.

Hav Clk Surinder Singh (9080867W now JC-219821N), 01 Nov 91.

#### THE PUNJAB REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Pritam Singh (No. 2464380L now JC-216432W), 29 Jun 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Nov 90 without effect on pay and allowances).

Hav Inderjit Singh (No. 2467350Y now JC-216453Y), 14 Aug 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Jun 91 without effect on pay and allowances).

Hav Surjit Singh (No. 2465330M now JC-216454F), 01 Mar 91.

Hav Rup Lal (No. 2462324N now JC-216455K), 03 Apr 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay and allowances).

Hav Parveen Chand Rana (No. 2459923H now JC-216456M), 15 May 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 May 91 without effect on pay and allowances).

Hav Harbans Singh (No. 2464473A now JC-216457P), 01 May 91.

Hav Sukh Raj Singh (No. 2465624A now JC-216458X), 02 May 91.

Hav Gobinder Singh (No. 2466344Y now JC-216459A), 02 May 91.

Hav Ishwar Chand (No. 2464584X now JC-216460P), 15 Jun 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Jun 91 without effect on pay and allowances).

Hav Chura Ram Dharma (No. 2464765Y now JC-216461X), 14 Jun 91.

Hav Parkash Singh (No. 2466281F now JC-216462A), 03 Sep 91.

(Granted ante date of seniority wef 14 Jun 91 without effect on pay and allowances).

Hav Gurdev Singh (No. 2465153X now JC-216463H), 15 Jun 91.

Hav Bhupinder Singh (No. 2466028A now JC-216464L), 27 Jun 91.

Hav Bhikham Ram (No. 2463267K now JC-216465N), 22 Aug 91.

(Granted ante date of seniority wef 06 Jul 91 without effect on pay and allowances).

Hav Mohinder Singh Sidhu (No. 2466080H now JC-2166466W), 01 Aug 91.

Hav Jaswant Singh (No. 2467670N now JC-216467Y), 01 Aug 91.

Hav Jagir Singh (No. 2466342N now JC-216468F), 01 Aug 91.

Hav Hardayal Singh (No. 2466708A now JC-216469K), 30 Aug 91.

Hav Sabhajit Singh (No. 2465811Y now JC-216470Y), 01 Sep 91.

Hav Inderjit Singh (No. 2463861L now JC-216471F), 01 Sep 91.

Hav Parkash Singh (No. 2466433X now JC-216472K), 01 Sep 91.

Hav Chain Singh (No. 2461285N now JC-216473M), 01 Sep 91.

To be Nb Sub (Clerks)

Hav Clk Jagir Singh (No. 2460905M now JC-216474P), 06 May 91.

(Granted ante date of seniority wef 01 Apr 91 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Trilok Singh (No. 2460932W now JC-216475X) 01 Apr 91.

Hav Clk Ami Chand Chauthan (No. 2461036P now JC 216476A), 01 May 91.

Hav Clk Mohan Singh (No. 2461095F now JC-216477H), 01 May 91.

Hav Clk Darshan Singh (No. 2461170A now JC-216478-L), 12 Aug 91.

(Granted ante date of seniority wef 06 Jul 91 without effect on pay and allowances).

Hav Clk Santokh Singh (No. 2461215P now JC-216479 N), 26 Jul 91.

#### The Madras Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Pattan Jabbarkhan (No. 2573128H now JC-216480-H), 1st Dec 1990.

Hav S Perumal Samy (No. 2572256N now JC-216481L), 1st Jan 1991.

Hav Akula Ayodha Rao (No. 2572519F now JC-216482N), 11th Jan 1991.

Hav Mannoji Rao R (No. 2576015L now JC-216483W), 1st June 1991.

Hav Nagaraju K (No. 2574654N now JC-216484Y), 11th July 1991.\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Thomas VJ (No. 2574996F now JC-216485F), 1st June 1991.

Hav Halliyal Shivappa Kanteppa (No. 2575796X now JC-216486K), 8th July 1991.\*

\*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Panem Devadanam (No. 2575332A now JC-216487-M), 13th May 1991.

##### To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Sharabudeen T (No. 2573726A now JC-216488-P), 1st Sep 1991.

#### The Madras Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Kumar Mahadev Tukaram Patil (No. 2770262M now JC-216489X), 1st Oct 1990.

Hav Patil Murlidhar Devaram (No. 2770283M now JC-216490M), 1st Nov 1990.

Hav Sudam Gitaram Kate (No. 2771004Y now JC-216491 P), 6th Jan 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Borkar Suresh Eknath (No. 2771374Y now JC-216492X), 1st July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 16th Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Manohar Shriram Khetle (No. 2772900Y now JC-216493A), 1st Jan 1991.

Hav Sapate Bhanudas Maruti (No. 2770098P now JC-216494H), 3rd July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 27th Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Panalkar Pandurang Bhimrao (No. 2770961X now JC-216495L), 1st Apr 1991.

Hav Parite Anandrao Sadu (No. 2770513L now JC-216496N), 27th May 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 21st May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Krishnadev Sudam Chauhan (No. 2771738A now JC-216497W), 21st May 1991.

Hav Shelake Raghunath Vishnu (No. 2770104X now JC-216498Y), 21st May 1991.

PA Hav Riyasat Khan (No. 13857582L now JC-216499 F), 21st May 1991.

PA Hav Nikam Janardan (No. 2771860W now JC-216500 L), 21st May 1991.

Hav Arjun Ranaba Patil (No. 2765402K now JC-216501 N), 13th June 1991.

Hav Mahipat Vithoba Shinde (No. 2765085N now JC-216502W), 13th June 1991.

Hav Sase Saheba Vishnu (No. 2771778F now JC-216503 Y), 10th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13th June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Rahane Vithal Sundar (No. 2772177H now JC-216504F), 10th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13th June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jambhile Magan (No. 8024556A now JC-216505K), 19th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 13th June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Madhav Gayanoba Lungare (No. 2770633K now JC-216506N), 13th June 1991.

Hav Daundkar Balu Sahadu (No. 2769225M now JC-216507P), 8th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jadhav Namdeo Dhondiram (No. 2767288W now JC-216508X), 1st Aug 1991.

Hav Dombale Maruti Auba (No. 2768389W now JC-216509A), 1st Aug 1991.

Hav Vajjinath Bowade (No. 2762663M now JC-216510P), 1st Aug 1991.

#### The Grenadiers

##### To be Nb Sub

Hav Rameshwar Lal (No. 2662242P now JC-216511X), 1st Jan 1991.

Hav Yakub Khan (No. 2668211L now JC-216512A), 25th Mar 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Mohd. Altaf (No. 2664662N now JC-216513H), 1st Apr 1991.

Hav Hawa Singh (No. 2663729P now JC-216514L), 10th Jun 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 14 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Banen Singh (No. 2660992P now JC-216515N), 28th Dec 1990.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 27th Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav. Shabir Shah (No. 2667803H now JC-216516W), 1st Feb 1991.

Hav Mohd Ayub (No. 2669231L now JC-216517Y), 1st Mar 1991.

Hav Deva Ram (No. 2662447K now JC-216518F), 1st Apr 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Arjun Ram (No. 2664541M now JC-216519K), 4th Jul 1991.

Hav Sita Ram (No. 2661677L now JC-216520Y), 12th Jun 1991.

Hav Ompal Singh (No. 2664392K now JC-216521F), 13th Jun 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30th Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Suraj Mal (No. 2659584X now JC-216522K), 28th Aug 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Kewal Krishna Verma (No. 2662851Y now JC-216523M), 1st Jul 1991.

Hav/Clk Mahal Singh Shekhawat (No. 2662661M now JC-216524P), 17th Jul 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) wef 1st Jul 1991 without effect on pay and allowances).

The Rajput Regiment

To be Nb Sub

Hav Man Singh (No. 13609982W now JC-216525X), 1st Mar 1991.

Hav Jugat Singh (No. 2971919P now JC-216526A), 15th May 1991\*.

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Harbans Lal (No. 2970400M now JC-216527H), 1st Mar 1991.

Hav Chiranji Lal (No. 2970755X now JC-216528L), 1st June 1991.

Hav Chandgi Ram (No. 2970933P now JC-216529N), 7th June 1991.

Hav Babu Lal (No. 13808954F now JC-216530H), 1st July 1991.

Hav Prtap Singh Gujar (No. 2971075K now JC-216531L), 1st July 1991.

The Jat Regt

To be Nb Sub

Hav Samandar Singh (No. 3164138N now JC-216532N), 13th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10th June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Man Singh (No. 3164787Y now JC-216533W), 22nd June 1991.

Hav Mam Chand (No. 3165707H now JC-216534Y), 20th July 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Kailash Singh (No. 14519717P now JC-216535F), 1st Aug 1991.

Hav (Clk) Randhir Singh Mahlawat (No. 14520164W now JC-216536K), 1st Aug 1991.

Hav Banwari Lal (No. 3165070K now JC-216537M), 2nd July 1991.

Hav Sube Singh (No. 3166669A now JC-216538P), 9th July 1991.

Hav Bidya Dutt (No. 4051887L now JC-216539X), 20th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10th July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Satvir Singh Phogat (No. 3165587P now JC-216540M), 2nd Aug 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Sukh Ram Choudhary (No. 3164370Y now JC-216541P), 1st July 1991.

The Sikh Regiment

To be Nb Sub

Hav Jaswinder Singh (No. 3367769L now JC-216542X), 1st Jan 1991.

Hav Kashnir Singh (No. 3371444P now JC-216543A), 1st Jan 1991.

Hav Hardial Singh (No. 3372678L now JC-216544H), 1st Jan 1991.

CHM Balkar Singh (No. 3368351P now JC-216545L), 21st Mar 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30th Jan 91 without effect on pay and allowances).

Hav Amrik Singh (No. 3367874F now JC-216546N), 16th Feb 1991.

Hav Arjan Singh (3370863A now JC-216547W), 16th Feb 91.

Hav Ajaib Singh (No. 3371950A now JC-216548Y), 1st Mar 1991.

Hav Pargat Singh (No. 3372046A now JC-216549F), 1st Apr 1991.

Hav Jagjeet Singh (No. 3372127A now JC-216550W), 27th Apr 1991.

Hav Parvinder Singh (No. 3372047H now JC-216551Y), 2nd Jun 1991@.

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20th May 91 without effect on pay and allowances).

Hav Harbhajan Singh (No. 3372695L now JC-216552F), 1st Jun 1991.

Hav Bachan Singh (No. 3372359Y now JC-216553K), 18th Jun 1991£.

£(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jun 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Harpal Singh (No. 3372373L now JC-216554M), 1st Jun 1991.

Hav Labh Singh (No. 3371604K now JC-216555P), 12th Jun 1991.

Hav Gurnit Singh (No. 3372557K now JC-216556X), 3rd Jul 1991.

Hav Amolak Singh (No. 3371755H now JC-216557A), 4th Jul 1991.

Hav Nahar Singh (No. 3372177L now JC-216558H), 4th Jul 1991.

Hav Inderjit Singh (No. 3372186M now JC-216559L), 4th Jul 1991.

Hav Jasmir Singh (No. 3372948P now JC-216560A), 1st Aug 1991.

Hav Nirmal Singh (No. 3372336X now JC-216561H), 1st Aug 1991.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Bhagwant Singh (No. 3371454Y now JC-216562 L), 1st Aug 1991.

## To be Nb Sub

Hav Balwinder Singh (No. 3373579P now JC-216563N), 1st Oct 1990.

Hav Gian Singh (No. 3375064N now JC-216564W), 10th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 12th June 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Surjit Singh (No. 14518841K now JC-216565Y), 1st Sep 1991.

Hav Clk Jeet Singh (No. 3371629W now JC-216566F), 1st Sep 1991.

## The Sikh LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Tirath Singh (No. 4458300Y now JC-216567K), 28th Oct 1990.

Hav Sardara Singh (No. 4454676H now JC-216568M), 1st Jan 1991.

Hav Pritam Singh (No. 4454315K now JC-216569P), 1st Jan 1991.

Hav Parkash Singh (No. 4453924F now JC-216570K), 1st Jan 1991.

Hav Bhagwan Singh (No. 4454114L now JC-216571M), 1st Jan 1991.

Hav Surjit Singh (No. 4454719M now JC-216572P), 5th Feb 1991.

Hav Bakhshish Singh Bhatti (No. 4455586N now JC-216573X), 17th Jun 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 28th Oct 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Bara Singh (No. 4454472W now JC-216574A), 27th Apr 1991.

Hav Mangal Singh (No. 4456502F now JC-216575H), 27th Apr 1991.

Hav Parkash Singh (No. 4454473Y now JC-216576L), 27th Apr 1991.

Hav Sukhwinder Singh (No. 4457339Y now JC-216577N), 27th Apr 1991.

## To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) Yohannan John (No. 4453098M now JC-216578 W), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Raiesh Mehta (No. 4453142L now JC-216579 Y), 14th Sep 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (GD) with effect from 1st Sep 1991 without effect on pay and allowances).

## The Dogra Regiment

## To be Naib Subedars

Hav Mast Ram (No. 4162852L now JC-216580N), 3rd Dec 1990.

Hav Jagwant Rai Singh Chauhan (No. 3971552W now JC-216581W), 26th Jan 1991.

Hav Jagdish Chand (No. 3965994X now JC-216582Y), 15th Mar 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 24th Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ranjit Singh (No. 3971707H now JC-216683F), 5th Mar 1991.

Hav Partap Chand Rana (No. 3968027P now JC-216584 K), 1st Apr 1991.

Hav Kashmir Chand (No. 3967624X now JC-216585M), 29th Apr 1991.

Hav Joginder Singh (No. 3969496K now JC-216586P), 5th May 1991.

Hav Partap Singh (No. 3969039W now JC-216587X), 12th May 1991.

Hav Hans Raj (No. 3967857A now JC-216588A), 9th July 1991\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 7th June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Khushal Singh (No. 3969498P now JC-216589H), 11th June 1991.

Hav Swaran Das (No. 3967870H now JC-216590X), 1st July 1991.

Hav Ghanshyam Singh (No. 3971982A now JC-216591A), 3rd July 1991\*\*\*.

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bhagwan Dass (No. 3968518L now JC-216592H), 1st July 1991.

## To be Naib Subedar (Clk)

Hav Clk Basant Ram (No. 3969126K now JC-216593I), 1st Aug 1991.

Hav Clk Partap Singh (No. 3969205Y now JC-216594N), 1st August 1991.

## The Garhwal Rifles

## To be Nb Sub

Hav Mohan Singh (No. 4050701L now JC-216595W), 15th Apr 1991.

Hav Mahabir Prasad Dobhal (No. 4052922W now JC-216596Y), 16th Apr 1991.

Hav Garga Datt Semwal (No. 4050463K now JC-216597 F), 13th May 1991.

Hav Mahitap Singh (No. 4053808L now JC-216598K), 1st June 1991.

Hav Birendar Singh (No. 4051192K now JC-216599M), 1st Aug 1991.

Hav Man Singh (No. 4054042Y now JC-216600W), 1st Aug 1991.

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Sewa Singh (No. 6648363K now JC-216601 Y), 1st July 1991.

Hav (Clk) Jodh Singh (No. 4053903X now JC-216602F), 1st July 1991.

Hav (Clk) Ram Shankar Singh Kanaujia (No. 6648373N now JC-216603K), 28th July 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Govind Singh Bisht (No. 4053980M now JC-216604M), 1st Aug 1991.

Hav (Clk) Vanjavaka Mallikarjuna Reddy (No. 6648461K now JC-216605P), 1st Aug 1991.

Hav (Clk) Shailendra Prasad Kotnala (No. 4052089L now JC-216606X), 1st Aug 1991.

## THE KUMAON REGIMENT

## To be Nb Sub

Hav An Singh (No. 4168647A now JC-216607A), 3rd Aug 1991\*

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Puran Singh (No. 4166387F now JC-216608H), 7th May 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 01 Jan 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Krishan Kumar (No. 4167287H now JC-216609L),  
2nd Apr 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 06 July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Sangram Singh (No. 13688694X now JC-216610A),  
28th Aug 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 06 Jul 1991 without effect on pay and allowances).

CHM Sujjan Singh (No. 4163163W now JC-216611H), 1st Aug 1991.

Hav Ram Avtar (No. 4163281K now JC-216612L), 18th Aug 1991\*.

\*(Granted ante date seniority wef 01 Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Roop Ram Yadava (No. 4161014K now JC-216613N), 1st Aug 1991.

Hav Dharam Pal Yadav (No. 4166846P now JC-216614W), 1st Aug 1991.

Hav Sunder Singh (No. 4168206K now JC-216615Y), 23rd Mar 1991.

Hav Shri Bhagwan (No. 4163855L now JC-216616F), 7th Aug 1991.

CHM Sher Singh (No. 4165143F now JC-216617K), 1st Sep 1991.

#### The Assam Regiment

##### To be Nb Sub

Hav Iswar Bahadur Pradhan (No. 10243581X now JC-216618M), 1st Aug 1990.

Hav Kiran Chandra Pator (No. 4348688M now JC-216619P), 1st Aug 1990.

Hav Kamal Chandra Borah (No. 4346525A now JC-216620K), 31st Jul 1991\*.

Hav ST Volhring Anal (No. 4348699Y now JC-216621M), 1st Sep 1990.

Hav Gandhi Ram Rajbangshi (No. 4347665Y now JC-216622P), 17th Dec 1990@.

Hav Nila Kanta Das (No. 4348884M now JC-216623X), 23rd Dec 1990.

Hav Pardeen Kumar Thapa (No. 5443183X now JC-216624A), 30th May 1991.

Hav Prakash Chandra Muchahary (No. 4349199N now JC-216625H), 1st Jun 1991.

Hav Clk Anji Chandra Sinha (No. 4348274A now JC-216626L), 1st Jun 1991.

\*(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Sep 90).

@(Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Nov 90).

#### The Bihar Regt

##### To be Nb Sub

Hav Ralendra Singh (No. 4052187L now JC-216627N), 1st September 1990.

CHM Albert Kujur (No. 4257647P now JC-216628W), 1st November 1990.

Hav Shrikant Pandey (No. 4249492W now JC-216629Y), 1st January 1991.

Hav Parbindar Singh Pundir (No. 4051027Y now JC-216630N), 29th April 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 18 March 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Emanuel Murmu (No. 4256717W now JC-216631W), 1st May 1991.

Hav Lakshman Singh (No. 4250552M now JC-216632Y), 7th May 1991.

CHM Tintus Minj (No. 4256896F now JC-216633F), 7th May 1991.

CHM Nipan Pradhan (No. 4250745M now JC-216634K), 01st June 1991.

Hav Raj Kishore Singh (No. 4250731M now JC-216635M), 1st June 1991.

Hav Isidore Kerketta (No. 4251513A now JC-216636P), 1st July 1991.

CHM Malkiat Singh (No. 4452188F now JC-216637X), 1st July 1991.

CHM Prem Chand Kumar Singh (No. 4255052Y now JC-216638A), 1st July 1991.

Hav Bishnu Singh Yadav (No. 4255599F now JC-216639H), 1st July 1991.

CHM Jugeshwar Prasad Yadava (No. 4250362A now JC-216640X), 1st July 1991.

Hav Churia Mandi (No. 4252780N now JC-216641A), 4th July 1991.

Hav Sudershan Hembrom (No. 4254907K now JC-216642H), 12th July 1991.

Hav Shri Bhagwan Singh (No. 4251850P now JC-216643L), 23rd August 1991.

Hav Vishnu Dayal Singh (No. 4252248F now JC-216644N), 23rd August 1991.

#### The Mahar Regiment

##### To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk (GD) Som Raj (No. 9212764H now JC-216645W), 1st Sep 1991.

Hav Clk (GD) Lallan Singh (No. 9212783N now JC-216646Y), 1st Sep 1991.

#### JAK RIF

##### To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk Vijay Suman Pathania (No. 13733951K now JC-216647F), 1st Jul 1991.

Hav Clk Johli Ram Sharma (No. 13733955A now JC-216648K), 1st Jul 1991.

Hav Clk Jagjit Singh (No. 13732707X now JC-216649M), 1st Aug 1991.

Hav Clk Sat Pal Singh Jamwal (No. 13733979K now JC-216650F), 1st Aug 1991.

Hav Clk Dalbir Singh (No. 13734006A now JC-216651K), 1st Aug 1991.

##### To be Naib Subedar (GD)

Hav Charan Dass (No. 13736185K now JC-216652M), 31st Mar 1991.

Hav Gopal Singh (No. 13736497A now JC-216653P), 1st Jun 1991.

Hav Girdhari Lal Chaudhary (No. 13733750L now JC-216654X), 22nd Jun 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Apr 1991 without effect on pay & allowances).



Hav Parladh Singh Dalpatia (No. 13735389K now JC-216655A), 24th Jun 1991".

"(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jan 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Raj Kumar Singh (No. 13732501A now JC-216656H), 1st Jul 1991.

Hav Madan Lal (No. 13734536P now JC-216657L), 1st July 1991.

Hav Man Chand (No. 13732256H now JC-216658N), 5th Jul 1991%.

%(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Jul 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Pawan Kumar Verma (No. 13732569F now JC-216659W), 9th Jul 1991.

Hav Nectar Singh (No. 13733763H now JC-216660L), 28th Jul 1991@.

@(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 4th Feb 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Baryam Chand (No. 13731329X now JC-216661N), 1st Aug 1991.

Hav Jasmer Singh (No. 13734800X now JC-216662W), 8th Aug 1991£.

£(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Ram Chand (No. 13734894A now JC-216663Y), 1st Aug 1991.

#### JAK LI

To be Naib Subedars (Clerks)

Hav (Clk) Abdul Khaliq Mir (No. 9079662P now JC-216664F), 02 Jul 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Dec 1990).

Hav (Clk) Madan Lal (No. 9079690F now JC-216665-K), 29 Jun 1991\*\*.

\*\* (Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 11 May 1991).

Hav (Clk) Babu Ram (No. 9079691K now JC-216666-M), 22 Jul 1991\*\*\*.

\*\*\* (Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 13 May 1991).

#### JAK LJ

To be Naib Subedars

Hav Har Bhajan Singh (No. 3370120Y now JC-216667P), 14 Jun 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 1991).

Hav Krishan Lal (No. 9080635X now JC-216668X), 1st Aug 1991.

Hav Mohd Hafiz (No. 9081215X now JC-216669A), 1st Aug 1991.

#### 4 GR

To be Nb Sub

Hav Bal Bahadur Ghale (No. 5341835X now JC-216670-P), 01 Sep 1991.

Hav Indra Bahadur Rana (No. 5340470F now JC-216671X), 17 Aug 1991.

6 —204GI/92

#### 3 GR

To be Nb Sub

Hav Gopal Bahadur Thapa (No. 5239674M now JC-216672A), 7th Aug 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Nar Bahadur Gurung (No. 5240126F now JC-216673H), 31st Jul 1991.

Hav Harka Man Rai (No. 4160707P now JC-216674L), 1st Sep 1991.

#### 9 GR

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Rajendra Singh Negi (No. 5841022K now JC-216675N), 1st Aug 1991.

#### 9 GR

To be Nb Sub

Hav Tek Bahadur Khattri (No. 5841394P now JC-216676W), 1st Dec 1990.

Hav Gajendra Bahadur Khattri (No. 5841396A now JC-216677Y), 1st Dec 1990.

Hav Udhap Chand (No. 5841034Y now JC-216678F), 1st Jan 1991.

Hav Tek Bahadur Chhetri (No. 5841295M now JC-216679K), 9th Mar 1991.

#### 8 GR

To be Nb Sub (GD)

Hav Moti Bahadur Gurung (No. 5745528L now JC-216680Y), 1st Jan 1991.

Hav Anil Thapa (No. 5745330M now JC-216681F), 28th Jun 1991.\*

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Tek Bahadur Burathoki (No. 5745404W now JC-216682K), 1st Mar 1991.

Hav Khadka Bahadur Pun (No. 5745500L now JC-216683M), 3rd Mar 1991.

Hav Tika Bahadur Ghale (No. 5746266M now JC-216684P), 29th May 1991.@

@(Gtd. seniority in the rank of Nb Sub wef 3rd Mar 1991 without effect on pay & allowances).

Hav Giri Prasad Pun (No. 5746426F now JC-216685X), 8th May 1991.

Hav Dinesh Gurung (No. 5745331P now JC-216686A), 20th Jul 1991.

#### 5 GR (FF)

To be Nb Sub

Hav Surya Bahadur Gurung (No. 5445967X now JC-216687H), 11th Jun 1991.

Hav Dilip Kumar Gurung (No. 5446106N now JC-216688L), 11th Jun 1991.

Hav Prem Kumar Gurung (No. 5443539A now JC-216689N), 1st Aug 1991.

#### LADAKH SCOUTS

To be Naib Subedar (GD)

Hav Tashi Rinchen (No. 9921475F now JC-216690H), 1st Aug 1991.

## Armoured Corps

## To be Nb Ris

Dfr Ratn Singh (No. 1048544H now JC-219030W), 25th Dec 1990\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Nov. 1990 without effect on pay and allowances).

Dfr Kharak Singh Rautela (No. 1045231Y now JC-219031Y), 1st Dec 1990.

Dfr Gopal Singh (No. 1050623W now JC-219032F), 10th Jan 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Dfr Bandu Hari Gurav (No. 14318219M now JC-219033K), 1st Dec 1990.

Dfr Diwakar Singh (No. 1042977K now JC-219034M), 1st Jan 1991.

Dfr Govind Singh (No. 1047913H now JC-219035P), 1st Jan 1991.

Dfr Braj Narayan Singh (No. 1047359H now JC-219036X), 1st Jan 1991.

Dfr Chhotey Singh (No. 13837086X now JC-219037A), 1st Jan 1991.

SQMD Mahender Singh (No. 1048796P now JC-219038H), 15th Jan 1991.

SDM Ramvir Singh (No. 13809597W now JC-219039L), 15th Jan 1991.

RDM Attar Singh (No. 1044307F now JC-219040A), 1st Feb 1991.

SDM Amarपाल Singh Malik (No. 1050369X now JC-219041H), 1st Mar 1991.

Dfr Jaipal Sagwal (No. 1053793K now JC-219042L), 27th Mar 1991.

RDM Mohanan Cheru Palakandi (No. 1045941W now JC-219043N), 1st Apr 1991.

Dfr Kamal Singh (No. 1050523L now JC-219044W), 1st May 1991.

SDM Subba Rao Busi (No. 14291759Y now JC-219045Y), 18th Jun 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st May 1991 without effect on pay & allowances).

SQMD Naduvila Velayudhan Gopinandhan Nair (No. 1049725A now JC-219046F), 1st May 1991.

Dfr Parkash Chand (No. 1047126F now JC-219047K), 1st May 1991.

Dfr Mahendra Singh (No. 1045244W now JC-219048M), 1st Jul 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 01st May 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Ram Rattan Singh (No. 1043499Y now JC-219049P), 1st May 1991.

RDM Ranjit Kumar Tung (No. 1260239M now JC-219050K), 1st May 1991.

SDM Ponnalah Krishnan (No. 1046890A now JC-219051M), 1st May 1991.

Dfr Chhelo Ram (No. 1051034M now JC-219052P), 1st May 1991.

Dfr Hans Raj (No. 1048630N now JC-219053X), 3rd May 1991.

Dfr Subhash Chand (No. 1048717P now JC-219054A), 7th May 1991.

SQMD Dharam Pal (No. 1045491K now JC-219055H), 17th May 1991.

SQMD Narasanayak Narasanayakar (No. 1060603W now JC-219056L), 10th Jun 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 17th May 1991 without effect on pay & allowances).

SDM Sukhjinder Singh (No. 1055445H now JC-219057N), 29th May 1991.

SDM Rameshwer Datt (No. 1051053X now JC-219058W), 1st Jun 1991.

Dfr Ser Singh Yadav (No. 14318981M now JC-219059Y), 1st Jun 1991.

Dfr Bhanwar Singh Rathore (No. 1052242N now JC-219060N), 1st Jun 1991.

Dfr Rajinder Singh (No. 1043895N now JC-219061W), 4th Jun 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 2nd Jun 1991 without effect on pay & allowances).

SDM Arumugam Yovan (No. 1049038K now JC-219062Y), 5th Jun 1991.

SDM Sucha Singh (No. 1048342F now JC-219063F), 19th Jun 1991.

SDM Manohar Singh (No. 1049077H now JC-219064K), 26th Jun 1991.

SQMD Bachehu Singh (No. 1047684H now JC-219065M), 30th Jun 1991.

SQMD Gurnam Singh (No. 1045959M now JC-219066P), 1st Jul 1991.

Dfr Bawa Singh (No. 1048212Y now JC-219067X), 1st Jul 1991.

SDM Satya Narayan Prasad (No. 1043913A now JC-219068A), 22nd Jul 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Jul 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Rakam Singh (No. 1051195P now JC-219069H), 1st Aug 1991.

SDM Ram Niwas (No. 1052082Y now JC-219070X), 1st Aug 1991.

Dfr Surinder Singh (No. 1049230M now JC-219071A), 1st Aug 1991.

Dfr Balwant Singh (No. 1047436M now JC-219072H), 10th Aug 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Aug 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Rameshwar Singh (No. 1051980L now JC-219073L), 1st Aug 1991.

SQMD Surat Singh Rao (No. 1047955Y now JC-219074N), 1st Aug 1991.

Dfr Ram Kishan (No. 1045168P now JC-219075W), 2nd Aug 1991.

Dfr Nain Singh (No. 1047380L now JC-219076Y), 1st Sep 1991.

SQMD Dharampal Singh (No. 1046752Y now JC-219077F), 1st Sep 1991.

SDM Balwan Singh (No. 1045876F now JC-219078K), 25th sep 1991.

## ARMOURED CORPS

## To be Naib Risaldar Clerks (GD)/SKsT

Dfr Ck Shri Kanth (No. 1051187W now JC-219079M), 18th Feb 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Feb 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Clk Kechu Kesavan Kuttan (No. 1051043N now JC-219080F), 1st Jul 1991.

Dfr Clk Brahm Datt Sharma (No. 2462841L now JC-219081K), 1st Jul 1991.

Dfr Clk Arun Sonu Kedare (No. 1049672M now JC-219082M), 1st Aug 1991.

Dfr Clk Joginder Singh (No. 1051851L now JC-219083-P), 1st Aug 1991.

Dfr Clk Brahma Nand (No. 1050673F now JC-219084-X), 1st Aug 1991.

Dfr Clk Digambar Singh Chaudhry (No. 1052270A now JC-219085A), 1st Aug 1991.

Dfr Clk Milap Chand (No. 1052598F now JC-219086H), 1st Sep 1991.

Dfr Clk Zainul Abidin (No. 1052604K now JC-219087L), 1st Sep 1991.

Dfr Clk Harbanish Singh (No. 1050990H now JC-219088N), 1st Sep 1991.

Dfr Clk John K M (No. 1052906W now JC-219089W), 21st Oct 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 01 Sep 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Clk Gurmail Singh (No. 1052908F now JC-219090-L), 1st Sep 1991.

Dfr Kangjam Kondumba Singh (No. 1052916A now JC-219091N), 1st Sep 1991.

Dfr Clk Ram Shankar Shukla (No. 1052946X now JC-219092W), 1st Sep 1991.

Dfr Clk Siyaram Singh Yadav (No. 1052963X now JC-219093Y), 1st Sep 1991.

Dfr SKT Jarnail Singh (No. 1045449I now JC-219094-F), 1st Jan 1991.

Dfr SKT Makhon Lal Dutta (No. 1047339K now JC-219095K), 1st Feb 1991.

Dfr SKT K Perumal (No. 1047452K now JC-219096M), 1st Jul 1991.

#### To be Nb Ris

Dfr Chhotu Ram Jat (No. 1048703P now JC-219097P), 24th Aug 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Apr 1990 without effect on pay and allowances).

Dfr Gnanadoss Chinnappa Thinagaraj T (No. 1053489F now JC-219098X), 28th Sep 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Dfr Baldev Singh (No. 1048651K now JC-219099A), 11th Aug 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Dec 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Gopalappa P (No. 1053363F now JC-219100K), 9th May 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 16th Feb 1991 without effect on pay & allowances).

SDM Panchanand Pandey (No. 1046656K now JC-219101-M), 14th Apr 1991.

Dfr Jasbir Singh (No. 1048379H now JC-219102P), 14th Sep 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st May 1991 without effect on pay and allowances).

Dfr Krishna Singh Kaira (No. 1046719M now JC-219103-X), 14th Jul 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st May 1991 without effect on pay and allowances).

SDM Krishnanunni P (No. 1053520H now JC-219104A), 22nd May 1991.

Dfr Muthusamy Thirumalai Rengan (No. 13844711F now JC-219105H), 7th Oct 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 10th Jul 1991 without effect on pay and allowances).

Dfr Ravindra Amrutrao Choudhari (No. 14317900N now JC-219106L), 13th Jul 1991.

SQMD Ramanand Prasad (No. 1047441X now JC-219107N), 31st Jul 1991.

RDM Mangal Singh (No. 1042427F now JC-219108W), 31st Jul 1991.

Dfr Harminder Singh (No. 1048424K now JC-219109Y), 5th Aug 1991.

Dfr Nafe Singh (No. 1054392H now JC-219110N), 12th Aug 1991.

SDM Iqbal Singh (No. 1048902A now JC-219111W), 1st Sep 1991.

SDM Ravindra Singh (No. 1260199W now JC-219112Y), 1st Sep 1991.

Dfr Govind Singh (No. 1049554Y now JC-219113F), 8th Oct 1991\*.

\*(Gtd. seniority in the rank of Nb Ris wef 1st Sep 1991 without effect on pay and allowances).

Dfr Ram Biranjan Mishra (No. 14320135X now JC-219114-K), 01st Sep 1991.

Dfr Sajjan Singh (No. 1045304A now JC-219115M), 12th Oct 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01st Sep 1991 without effect on pay and allowances).

RDM Ranvir Singh Tomar (No. 1052379A now JC-219116P), 01st Sep 1991.

Dfr Dharam Prakash (No. 1043673M now JC-219117X), 11th Sep 1991.

SDM Amrik Singh (No. 1046031P now JC-219118A), 01st Oct 1991.

SDM Balwinder Singh (No. 1047849W now JC-219119H), 01st Oct 1991.

Dfr Ajit Singh (No. 1049338L now JC-219120X), 01st Oct 1991.

SQMD Charar Singh (No. 1052298A now JC-219121A), 03rd Oct 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

SDM Parma Nand Puri (No. 1044379L now JC-219122H), 01st Oct 1991.

Dfr Jai Ratan (No. 1044559N now JC-219123L), 12th Oct 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wef 01st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

Dfr Balwant Singh Rawat (No. 1044868W now JC-219124-N), 01st Oct 1991.

Dfr Babu Ram (No. 1051867W now JC-219125W), 01st Oct 1991.

Dfr Bakhsish Singh (No. 1047428N now JC-219126Y), 01st Oct 1991.

Dfr Raghunath Ram (No. 1045469Y now JC-219127F), 01st Oct 1991.

RDM Sachin Chandra Mishra (No. 1044268N now JC-219128K), 13th Oct 1991.

Dfr Devi Singh (No. 1052220P now JC-219129M), 15th Oct 1991.

Dfr Rohitas Singh (No. 1047021X now JC-219130F), 01st Nov 1991.

Dfr Dharampal Singh (No. 1047179A now JC-219131K), 01st Nov 1991.

Dfr Raj Pal Singh (No. 1042742X now JC-219132M), 01st Nov 1991.

RDM Saleman Khan (No. 1046771K now JC-219133P), 01st Nov 1991.

SDM Jagrad Singh (No. 1046529P now JC-219134X), 19th Sep 1991\*.

\*Granted seniority in the rank of Nb Ris wcf 01st Oct 1989 without effect on pay and allowances.

SDM Mulk Raj Sharma (No. 1045884A now JC-219135A), 01st Jan 1991.

Dfr Aidan Singh Gogadey (No. 1050972A now JC-219136H), 27th Mar 1991.

RDM Harnam Singh (No. 1047852W now JC-219137L), 05th Apr 1991.

Dfr Jai Singh (No. 1051107N now JC-219138N), 21st Apr 1991.

Dfr Ranjan Khan (No. 1047258P now JC-219139W), 01st May 1991.

KDM Ram Singh (No. 1047178X now JC-219140L), 01st May 1991.

SDM Nawab Singh (No. 1052057A now JC-219141N), 08th May 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wcf 01st May 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Sunder Pal (No. 1053633L now JC-219142W), 01st May 1991.

Dfr Munendra Pal Singh (No. 1054466M now JC-219143Y), 01st May 1991.

Dfr Shri Pal (No. 14321621F now JC-219144F), 12th Jul 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wcf 26th Jun 1991 without effect on pay & allowances).

SDM Malkhan Singh (No. 1044476X now JC-219145K), 01st Jul 1991.

SDM Shyam Lal Dhiman (No. 1050634H now JC-219146M), 25th Jul 1991.

SDM Badan Singh (No. 1052189A now JC-219147P), 05th Aug 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Ris wcf 01st Aug 1991 without effect on pay & allowances).

SDM Kutty Krishnan Kuttiyil Valappil (No. 1048307Y now JC-219148X), 01st Aug 1991.

SQMD Surrinder Kumar (No. 1048400A now JC-219149A), 22nd Aug 1991.

Dfr Devappa Janagar (No. 1053721F now JC-219150P), 01st Sep 1991.

Dfr Tara Singh (No. 1048930P now JC-219150X), 01st Sep 1991.

RDM D'u'at Singh (No. 1045394M now JC-219152A), 10th Sep 1991.

Dfr Surendra Pal Singh (No. 1047001K now JC-219153H), 01st Oct 1991.

SQMD P Dhanabalan (No. 1359127P now JC-219154L), 16th Nov 1991\*.

\*(Granted seniority in the rank of Nb R's wcf 01st Oct 1991 without effect on pay & allowances).

Dfr Goradban (No. 1049982X now JC-219155N), 01st Oct 1991.

Dfr Balbir Singh (No. 1047454P now JC-219156W), 01st Oct 1991.

RDM Pirthvi Singh (No. 1049983A now JC-219157Y), 01st Oct 1991.

Dfr Trilok Singh Nitwal (No. 1045857W now JC-219158F), 01st Oct 1991.

Dfr Balram Singh (No. 14318907L now JC-219159K), 01st Oct 1991.

Dfr Prem Nath Dogra (No. 1051773Y now JC-219160Y), 03rd Oct 1991.

SDM Mahipal Singh (No. 1048189W now JC-219161F), 01st Nov 1991.

SDM Ram Pratap Singh (No. 1046638F now JC-219162K), 01st Nov 1991.

Dfr Rajmani Prasad (No. 1045165F now JC-219163M), 01st Nov 1991.

SDM Dilbag Singh Joon (No. 1045278K now JC-219164P), 01st Nov 1991.

Dfr Ambika Singh (No. 1050436X now JC-219165X), 01st Nov 1991.

Dfr Thuru Ram (No. 1046132H now JC-219166A), 01st Nov 1991.

SDM Rajio Singh (No. 1050693P now JC-219167H), 01st Nov 1991.

Dfr Singh Raj Singh Shishodia (No. 13838965A now JC-219168L), 01st Nov 1991.

SQMD Yeshwant Singh Dhatwalia (No. 1050792X now JC-219169N), 01st Nov 1991.

SQMD Darshan Singh (No. 1049452H now JC-219170H), 01st Dec 1991.

Dfr Karan Singh (No. 1047020P now JC-219171L), 01st Dec 1991.

Dfr Attar Singh (No. 1047003P now JC-219172N), 01st Dec 1991.

Dfr Narinder Singh (No. 1048238N now JC-219173W), 01st Dec 1991.

SDM Ram Nath Jut (No. 1051301H now JC-2199174Y), 01st Dec 1991.

SDM Pritam Chand (No. 1052291W now JC-219175F), 1st Dec 1991.

#### Brigade of the Guards

##### To be Nb Sub

Hav Mahadik Ashok Sadashiv (No. 13673594A now JC-216691L), 08th August 1990\*.

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wcf 01st July 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Chander Mani Prasad (No. 13669718M now JC-216692N), 09th August 1990\*\*.

\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wcf 01st Aug 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Mangal Singh (No. 13672352L now JC-216693N), 01st Nov 1990.

Hav Veer Singh Yadav (No. 1366975N now JC-216694Y), 01st Nov 1990.

Hav Jai Kishan Sungar (No. 13670709X now JC-216695F), 26th Jan 1990.@

@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wcf 16th Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Mohar Singh (No. 13667604H now JC-216696K), 11th Jan 1991 @ @

@ @ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wcf 01st Dec 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Dharam Pal (No. 13669942Y now JC-216697M),  
01st Dec 1990.

Hav Ratan Singh (No. 13670035L now JC-216698P), 01st  
Dec 1990.

Hav Arjun Tamang (No. 13669798P now JC-216699X),  
01st Dec 1990.

Hav Shandage Vasant Dattatray (No. 13674460N now JC-  
216700F), 09th Dec 1990.

Hav Kashmir Singh (No. 13670984X now JC-216701K),  
12th Dec 1990.

Hav Moti Lal Sharma (No. 13667490H now JC-216702M),  
01st Jan 1991.

Hav Ram Prasad Singh (No. 13666031X now JC-216703  
P), 01st Jan 1991.

Hav Ram Singh (No. 13667605L now JC-216704X), 01st  
Jan 1991.

Hav Chanderpal Singh (No. 13674662A now JC-216705A),  
01st Jan 1991.

Hav Humbe Arjun Dinkar (No. 13673595H now JC-  
216706H), 10th Jan 1991.

Hav Nirmal Singh (No. 13671063K now JC-216707L),  
16th Jan 1991.

Hav Bala Prasad Tripathi (No. 13671250H now JC-  
216708N), 19th Jan 1991.

Hav Girish Chandra (No. 13667835Y now JC-216709W),  
01st Feb 1991.

Hav Unnikrishnan CP (No. 13672048F now JC-216710L),  
01st Feb 1991.

Hav Nand Lal Singh (No. 13668566K now JC-216711N),  
09th Feb 1991.

Hav Ajit Kumar Dey Sarker (No. 13669884A now JC-  
216712W), 15th Feb 1991.

Hav Kashmir Singh (No. 13668142N now JC-216713Y),  
01st Apr 1991.

Hav Sukhdev Raj (No. 13668182P now JC-216714F), 01st  
Apr 1991.

Hav Durgeswar Gogoi (No. 13670346Y now JC-216715K),  
01st Apr 1991.

Hav Karam Chand (No. 13808931A now JC-216716M),  
17th May 1991.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar  
wef 08th Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ghungar Ram (No. 13668155L now JC-216717P),  
15th Apr 1991.

Hav Jagmal Singh (No. 13671730M now JC-216718X),  
15th Apr 1991.

Hav Harlal Singh (No. 13674435P now JC-216719A), 15th  
Apr 1991.

Hav Udai Singh (No. 13674663Y now JC-216720P), 15th  
Apr 1991.

Hav Rajpal (No. 13674612A now JC-216721X), 15th,  
Apr 1991.

Hav Kamalakar Prasad (No. 13858171Y now JC-216722A),  
26th May 1991.@@@

@@@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef  
27th Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jaswant Singh Varma (No. 13808969K now JC-  
216723H), 01st May 1991.

Hav Rajinder Singh (No. 13671064M now JC-216724L),  
14th May 1991.

Hav Gurmel Singh (No. 13669312Y now JC-216725N), 15th  
May 1991.

Hav Sohan Lal (No. 13669971N now JC-216726W), 27th  
May 1991.£

£ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef  
17th May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kulamani Sutar (No. 13672429H now JC-216727Y),  
01st June 1991.

Hav Tarsem Lal (No. 13670043K now JC-216728F), 02nd  
June 1991.

Hav Younes Masih (No. 13666749F now JC-216729K), 07  
June 1991.

Hav Lakhmi Chand (No. 13670797Y now JC-216730Y),  
08th June 1991.

Hav Ranbir Singh (No. 13669321A now JC-216731F), 12th  
June 1991.

Hav Sukhwinder Singh (No. 13673415P now JC-216732K),  
01st July 1991.

Hav Shri Bhagwan Tiwari (No. 13670772M now JC-  
216733M), 06th Aug 1991.£ £

£ £ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef  
04th July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Santokh Singh (No. 13669426K now JC-216734P),  
09th July 1991.

#### To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Baldev Singh Sirohi (No. 13665941Y now JC-  
216735X), 01st May 1991.

Hav (Clk) Surendra Singh Solanki (No. 13668601F now  
JC-216736A), 01st May 1991.

Hav (Clk) Lakshmi Kanta Sharma (No. 1669444M now  
JC-216737H), 01st May 1991.

#### THE MADRAS REGIMENT

##### To be Nb Sub

Hav Hamza Keralanthodi Ponthiodiyil (No. 2572719X now  
JC-216738L), 20 Dec 1990.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef  
02 Nov 1990 without effect on pay and allowances).

Hav Pentakota Govinda Rao (No. 2573280W now JC-  
216739N), 29 Nov 1990.

Hav K. Kanagaraj (No. 2578644F now JC-216740H), 05  
Feb 1991.

Hav T Worrall Robertraj (No. 2579394X now JC-216741L),  
01 Mar 1991.

Hav Mohanan KD (No. 2575122A now JC-216742N), 13  
May 1991.

Hav S Ponraj (No. 2577815W now JC-216743W), 01 June  
1991.

Hav Philip D (No. 2576555K now JC-216744Y), 01 July  
1991.

Hav K. Ramasubbu (No. 2576837H now JC-216745F), 01  
May 1991.

##### The Grenadiers

##### To be Nb Sub

Hav Bhanwar Lal Khatat (No. 2669768K now JC-216746K),  
1st Mar 1991.

Hav Kusam Ali Kyam Khani (No. 2669825A now JC-  
216747M), 15th Apr 1991.

Hav Sher Singh (No. 2662223K now JC-216748P), 21st  
May 1991.

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 28th  
Apr 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Shambhoo Singh Gahlot (No. 2666538L now JC-  
216749X), 1st July 1991.

Hav Sunil Kumar (No. 2666694P now JC-216750M), 1st July 1991.

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Iqbal Singh Harchand (No. 2662679H now JC-216751P), 1st July 1991.

Hav (Clk) Hari Singh Rana (No. 2662850W now JC-216752X), 1st Aug 1991.

Hav (Clk) Shish Ram Rarh (No. 2663037A now JC-216753A), 1st Aug 1991.

THE MARATHA LI

To be Nb Sub Clk

Hav Clk Premanand Raghoba Kadam (No. 2765587W now JC-216754H), 1st July 1991.

Hav Clk Nangare Shankar Nanasaheb (No. 2767538M now JC-216755L), 1st Sep 1991.

Hav Clk Mukundan KO (No. 2767790L now JC-216756N), 1st Sep 1991.

Hav Clk Patil Ramdas Uttam (No. 2767973F now JC-216757W), 1st Sep 1991.

To be Nb Sub

Hav Raghubir Singh (No. 3164293P now JC-216758Y), 14th Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 6th Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jal Singh (No. 3166481P now JC-216759F), 12th Sep 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 6th Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Dinakar Ganu (No. 2766016K now JC-216760W), 12th May 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bavan Shankar Ghadge (No. 2769062K now JC-216761Y), 24th Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st May 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Chalak Shankar Bhairunath (No. 2767068M now JC-216762F), 1st June 1991.

Hav Sambhaji Vasant Ambre (No. 2772243A now JC-216763K), 7th July 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Garad Subhash Rambhau (No. 2772190M now JC-216764M), 13th July 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Bhima Ranaba Korvi (No. 2764177N now JC-216765P), 10th Sep 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Atmaram Sakham Jadhav (No. 2766487X now JC-216766X), 1st Sep 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Shivaji Ganapati (No. 2765151L now JC-216767A), 18th Sep 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Krishnadas More (No. 2766085A now JC-216768H), 13th Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ambre Suresh Narayan (No. 2766010H now JC-216769L), 1st Aug 1991.

Hav Chaudhari Mahadev (No. 2763368W now JC-216770A), 1st Aug 1991.

Hav Padwal Anant Shankar (No. 2767312F now JC-216771H), 1st Sep 1991.

Hav Dashrath Pardhi (No. 2766279H now JC-216772L), 15th Sep 1991.

Hav Ashok Bhikaji Gujar (No. 2770153A now JC-216773N), 15th Sep 1991.

Hav Sawant Ramesh Manohar (No. 2774047Y now JC-216774W), 15th Sep 1991.

Hav Malasane Anil Vasudeorao (No. 2775182Y now JC-216775Y), 15th Sep 1991.

The Raj Rif

To be Nb Sub

Hav Uday Singh (No. 2867163N now JC-216776F), 29th Jan 1991.

Hav Bhagirath Singh Gorh (No. 2869526L now JC-216777K), 1st Feb 1991.

Hav Tar Singh (No. 2868560Y now JC-216778M), 18th May 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Feb 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Riyaz Ahmed (No. 2872047P now JC-216779P), 2nd Feb 1991.

Hav Madho Singh (No. 2869428L now JC-216780K), 31st Mar 1991.

Hav Gordhan Singh (No. 2870040M now JC-216781M), 1st Apr 1991.

Hav Sardar Singh (No. 2870141A now JC-216782P), 1st Apr 1991.

Hav Fajru Khan (No. 2873284L now JC-216783X), 30th June 1991.

Hav Bhanwar Singh (No. 2869194M now JC-216784A), 1st July 1991.

Hav Satyavir Singh (No. 2873011H now JC-216785H), 9th July 1991.

Hav Rawal Singh (No. 2868450K now JC-216786L), 9th July 1991.

Hav Krishan Singh Tanwar (No. 2868066H now JC-216787N), 19th Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Raj Singh (No. 2870648F now JC-216788W), 1st Aug 1991.

Hav Rajender Singh (No. 2861282N now JC-216789Y), 1st Aug 1991.

Hav Naru Singh (No. 2870123X now JC-216790N), 1st Aug 1991.

Hav Rotan Singh (No. 2869614F now JC-216791W), 1st Aug 1991.

Hav Bhanwaru Khan (No. 2872133A now JC-216792Y), 1st Aug 1991.

Hav Brham Singh (No. 2871079L now JC-216793F), 13th Sep 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 23rd Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Chander (No. 2870391F now JC-216794K), 29th Aug 1991.

Hav Shankar Singh (No. 2870232K now JC-216795M), 1st Sep 1991.

## To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Zabar Singh Rathore (No. 2865331H now JC-216796P), 1st Aug 1991.

Hav Clk Ram Prakash (No. 2865493N now JC-216797X), 1st Aug 1991.

Hav Clk Hari Ram Singh (No. 2865500Y now JC-216798A), 1st Aug 1991.

Hav Clk Dalel Singh Rathore (No. 2865603X now JC-216799H), 1st Aug 1991.

Hav Clk Ranjit Singh (No. 2865692F now JC-216800M), 1st Aug 1991.

Hav Clk Ram Prakash Verma (No. 2865831A now JC-216801P), 1st Aug 1991.

Hav Clk Surendra Kumar Mishra (No. 2865834N now JC-216802X), 1st Aug 1991.

Hav Clk Autar Singh (No. 2866580N now JC-216803A), 1st Aug 1991.

Hav Clk Rajput Pratap Bahadur Singh (No. 2866376P now JC-216804H), 1st Aug 1991.

Hav Clk Mahender Singh (No. 2866650F now JC-216805L), 1st Aug 1991.

## The Raj Rif

## To be Nb Sub

Hav Pradeep Singh Rathore (No. 2870614N now JC-216806N), 1st Feb 1991.

Hav Ram Kishan (No. 2866663Y now JC-216807W), 16th Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Satbir Singh (No. 2871453H now JC-216808Y), 1st Sep 1991.

Hav Govind Singh (No. 4054141F now JC-216809F), 1st Sep 1991.

## The Rajput Regiment

## To be Nb Sub

Hav Moosa Ram Gurjar (No. 2971847W now JC-216810W), 30th Mar 1991.

Hav Mahi Pal Singh (No. 2971277L now JC-216811Y), 1st May 1991.

Hav Raj Kumar Singh (No. 2969582Y now JC-216812F), 1st May 1991.

Hav Kehar Singh (No. 2967545M now JC-216813K), 1st July 1991.

Hav Gurmail Singh (No. 4457462X now JC-216814M), 1st July 1991.

Hav Om Parkash (No. 2966796K now JC-216815P), 1st Aug 1991.

Hav Bharat Singh (No. 2970022Y now JC-216816X), 1st Sep 1991.

Hav Roop Ram Gurjar (No. 2969281P now JC-216817A), 1st Sep 1991.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Yadunath Singh (No. 2971639I now JC-216818H), 1st July 1991.

Hav Clk Yogendra Singh (No. 2971640W now JC-216819L), 1st July 1991.

Hav Clk Ramji Lal Bunkar (No. 2971682H now JC-216820A), 28th Aug 1991.\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub

Hav Ram Dulare (No. 2971550P now JC-216821H), 17th June 1991.\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Kishan Singh Rajput (No. 2966452L now JC-216822L), 1st June 1991.

Hav Gulzari Lal (No. 2973350X now JC-216823N), 5th Sep 1991.\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdish (No. 2966840H now JC-216824W), 18th Sep 1991.

Hav Sadhu Singh (No. 2969932A now JC-216825Y), 1st Oct 1991.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Satish Kumar Chauhan (No. 2971327L now JC-216826F), 10th May 1991.\*

\*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 1991 without effect on pay and allowances).

## The Jat Regt

## To be Nb Sub

Hav Rohtash Singh (No. 3166543K now JC-216827K), 7th July 1991.

Hav Debu Ram (No. 3164295A now JC-216828M), 11th July 1991.

Hav Bajrang Lal (No. 3162698F now JC-216829P), 1st Aug 1991.

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Samdar Singh Rathor (No. 14520281F now JC-216830K), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Ram Phal Dahiya (No. 3166243H now JC-216831M), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Sube Singh Yadav (No. 3166244L now JC-216832P), 6th Sep 1991.

## The Jat Regt.

## To be Nb Sub

Hav Baljit Singh Dahiya (No. 3165424F now JC-216833X), 22nd June 1991.

Hav Himmat Singh Rathi (No. 3163850W now JC-216834A), 1st July 1991.

Hav Gajendra Singh (No. 3166563X now JC-216835H), 24th Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Randhir Singh (No. 3166724P now JC-216836L), 3rd July 1991.

Hav Dharam Pal (No. 3164073L now JC-216837N), 4th July 1991.

Hav Prabhu Dayal Jat (No. 3166550A now JC-216838W), 9th July 1991.

Hav Bhagwan Singh (No. 3163396F now JC-216839Y), 15th Sep 1991.

Hav Bhoop Singh (No. 3165016W now JC-216840N), 7th Oct 1991.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Prabhu Ram Jakhar (No. 14520581H now JC-216341W), 27th Sep 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) with effect from 1st Sep 1991 without effect on pay and allowances).

## The Sikh Regiment

## To be Nb Sub

Hav Paramjit Singh (No. 3371074A now JC-216842Y), 26th May 1991.

Hav Darshan Singh (No. 3372356L now JC-216843F), 30th May 1991.

Hav Karnail Singh (No. 3370538A now JC-216844K), 1st July 1991.

Hav Gurmeet Singh (No. 3372635W now JC-216845M), 3rd July 1991.

Hav Savinder Singh (No. 3372158A now JC-216846P), 4th July 1991.

## To be Nb Sub Clk

Hav Clk Devinder Singh (No. 3371594L now JC-216847X), 1st Oct 1991.

Hav Clk Gurdial Singh (No. 14520122K now JC-216848A), 1st Oct 1991.

## The Sikh Regiment

## To be Nb Sub

Hav Sant Ram (No. 3964931K now JC-216849H), 22nd Apr 1991.

CHM Om Parkash (No. 3966533F now JC-216850X), 29th June 1991.%

%(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 30 May 1991 without effect on pay and allowance).

Hav Baksish Singh (No. 3370785N now JC-216851A), 12th June 1991.

Hav Seth Ram (No. 8023051X now JC-216852H), 7th Jul 1991.@

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 July 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Gurpartap Singh (No. 3373929W now JC-216853L), 1st Sep 1991.

## The Sikh LI

## To be Nb Sub (GD)

Hav Sawaran Singh (No. 4455698N now JC-216854N), 1st June 1991.

Hav Sukhdev Singh (No. 4453339F now JC-216855W), 4th Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (Clk) (GD)

Hav (Clk) P Sivalingam (No. 4453018K now JC-216856Y), 1st July 1991.

## The Dogra Regiment

## To be Naib Subedar

Hav Surjit Singh (No. 3968016H now JC-216857F), 1st July 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar wef 1st June 1991 without effect on pay and allowances).

Hav Gian Chand (No. 3968200N now JC-216858K), 24th June 1991.

Hav Durga Dass (No. 3972998X now JC-216859M), 1st Aug 1991.

## To be Naib Subedar (Clk)

Hav Clk Janki Dass (No. 3969462W now JC-216860F), 12 Aug 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 1st Aug 1991 without effect on pay and allowances).

## The Garhwal Rifles

## To be Nb Sub

Hav Satendar Singh, SM (No. 4055664M now JC-216861K), 1st Apr 1991.

Hav Bhim Singh (No. 4057791A now JC-216862M), 1st July 1991.

Hav Jaman Singh (No. 4049723X now JC-216863P), 29th July 1991.

Hav Jaspal Singh Bisht (No. 4051758M now JC-216864X), 29th July 1991.

Hav Birendra Singh Rawat (No. 4052280M now JC-216865A), 29th July 1991.

Hav Buti Singh Rawat (No. 4052454F now JC-216866H), 1st Aug 1991.

Hav Rajendra Singh (No. 4049759W now JC-216867L), 1st Aug 1991.

Hav Rajendra Singh Rawat (No. 4050359W now JC-216868N), 1st Aug 1991.

Hav Rajendra Chand Ramola (No. 4054284F now JC-216869W), 1st Aug 1991.

Hav Kunwar Singh (No. 4050954A now JC-216870L), 1st Aug 1991.

Hav Yashpal Singh (No. 4051753N now JC-216871N), 1st Aug 1991.

Hav Surendra Singh Negi (No. 4056078W now JC-216872W), 17th Aug 1991.

Hav Dhiraj Mani (No. 4056055P now JC-216873Y), 1st Sep 1991.

Hav Sangram Singh (No. 4052329X now JC-216874F), 1st Sep 1991.

Hav Chakradhar Juyal (No. 4053962K now JC-216875K), 1st Sep 1991.

Hav Darshan Singh Rawat (No. 4054867K now JC-216876M), 1st June 1991.

Hav Bijai Singh (No. 4050072Y now JC-216877P), 1st Sep 1991.

Hav Kula Nand Sharma (No. 4054752W now JC-216878X), 5th Sep 1991.

Hav Yashpal Singh (No. 4050570L now JC-216879A), 1st Oct 1991.

Hav Chandra Prakash Painuly (No. 4052632Y now JC-216880P), 5th Oct 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1st Oct 1991 without effect on pay and allowances).

## To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Prem Singh Chauhan (No. 4051593Y now JC-216881X), 1st Oct 1991.

Hav/Clk Narendra Singh Rana (No. 4053611P now JC-216882A), 1st Oct 1991.

Hav/Clk Balbir Singh Rawat (No. 14518951Y now JC-216883H), 1st Oct 1991.

## The Kumaon Regiment

## To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Madan Lal Sharma (No. 4162973W now JC-216884L), 1st Aug 1991.

Hav Clk Data Ram (No. 4161446Y now JC-216885N), 1st Aug 1991.

Hav Clk Ram Singh (No. 4162165P now JC-216886W), 1st Aug 1991.



Hav Clk Panni Lal Yadav (No. 4163009X now JC-216887Y), 1st Aug 1991.

Hav Clk Gopal Singh Nagarkoti (No. 4163011P now JC-216888F), 1st Aug 1991.

Hav Clk Bhupal Singh Basra (No. 4163013A now JC-216889K), 9th Aug 1991.

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Ram Pratap Rikhaly (No. 4163177W now JC-216890Y), 30th Aug 1991.

Hav (Clk) Suraj Bhan (No. 4163190A now JC-116891F), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Daya Ram Yachava (No. 4163393K now JC-216892K), 1st Sep 1991.

Hav (Clk) Sube Singh Yadav (No. 4163436N now JC-216893M), 1st Sep 1992.

To be Nb Sub

CHM Goverdhan Singh (No. 4173963X JC-216849P), 1st Mar 1991.

CHM Bed Pal Singh (No. 4166424K now JC-216895X), 1st Aug 1991.

Hav Shyam Singh (No. 4167313Y now JC-216896A), 1st Aug 1991.

Hav Jeet Singh (No. 4162429L now JC-216897H), 28th Aug 1991.

Hav Main Pal (No. 4163831F now JC-216898L), 1st July 1991.

#### THE ASSAM REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Hrang Thang Kima (No. 4347680N now JC-216899N), 01st Apr 91.

Hav Holi Ram Ray (No. 4349533K now JC-216900X), 1st Apr 91.

Hav Jarmaz Singh (No. 13732476M now JC-216901A), 12th May 91.

Hav Daveedu Arul (No. 2572200F now JC-216902H), 12th May 91.

Hav Bhim Bahadur Chhatri (No. 4348187M now JC-216903L), 01st Jun 91.

Hav Thomas Mang Kuki (No. 4349016M now JC-216904N), 22nd Jul 91\*.

Hav Gopi Nath Misra (No. 435052P now JC-216905W), 01st June 91.

Hav Lila Ram Barik (No. 4345722W now JC-21906Y), 01st Jul 91.

Hav Nomal Chandra Gogoi (No. 4350033Y now JC-216907F), 01st Aug 91.

Hav Nirmal Hazarika (No. 4350365H now JC-216908K), 01st Aug 91.

Hav Labalya Ram Chiry (No. 4349367F now JC-216909M), 01st Sep 91.

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Manik Mitra (No. JC-4348446K now JC-216910F), 01st Aug 91.

Hav/Clk Jamini Ram Sinha (No. 4348481M now JC-216911K), 01st Sep 91.

\*Granted ante-date of seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances wef 01 Jun 91.

#### THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Sushil Topno (No. 4254521K now JC-216912M), 1st March 1991.

Hav Jagdish Sahu (No. 4254482W now JC-216913P), 25th July 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances.

Hav Rama Shankar Singh (No. 4252356L now JC-216914X), 6th June 1991.

Hav Peter Bara (No. 4254048K now JC-216915A), 1st July 1991.

Hav Raj Dev Pandey (No. 4249621L now JC-216916H), 1st July 1991.

Hav Jagdish Singh (No. 4252385A now JC-216917L), 21st August 1991.

Hav Kashi Nath Tripathy (No. 4251854L now JC-216918N), 21st August 1991.

CHM Sudarshan Singh (No. 4253129X now JC-216919W), 21st August 1991.

Hav Robert Kiro (No. 4253306M now JC-216920L), 13th September 1991.

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav(Clk) Hare Ram Choubey (No. 4251950A now JC-216921N), 1st July 1991.

Hav(Clk) Hira Lal Rai (No. 4251956F now JC-216922W), 1st August 1991.

Hav(Clk) Man Masih Tirkey (No. 4251976P now JC-216923Y), 1st August 1991.

Hav(Clk) Chandra Bhanu Prasad Singh (No. 4252017L now JC-216924F), 5th August 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub(ClK) with effect from 01 Aug 1991 without effect on pay and allowances).

Hav(Clk) Bidya Dhar Das (No. 4252023Y now JC-216951L), 1st Oct 1991.\*

Hav(Clk) Ram Pravesh Prasad (No. 4252057M now JC-216926M), 1st September 1991.

#### THE MAHAR REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Paradhe Ashok Govind (No. 4548925P now JC-216927P), 01 Jul 1991.

CHM Chandra Singh (No. 9214602W now JC-216928X), 01 Aug 1991.

Hav Jeetpal Singh (No. 4543657M now JC-216929A), 01 Aug 1991.

Hav Om Prakash (No. 4544558W now JC-216930P), 01 Aug 1991.

Hav Chaman Lal (No. 4544283N now JC-216931X), 01 Aug 1991.

Hav Bidhi Chand (No. 9215073F now JC-216932A), 01 Aug 1991.

Hav Jai Singh (No. 9213554P now JC-216933H), 12 Aug 1991.

CHM Arta Bhoi (No. 9214352A now JC-216934L), 01 Sep 1991.

Hav Bhanwar Singh (No. 2866446H now JC-216935N), 01 Sep 1991.

Hav Dev Karan (No. 4545718Y now JC-216936W), 01 Sep 1991.

Hav Balwant Singh (No. 4548132M now JC-216937Y), 01 Sep 1991.

To be Nb Sub Clk (GD)

Hav Clk (GD) Het Ram (No. 9212871K now JC-216938F), 01 Oct 1991.

Hav Clk (GD) Vamadevan N (No. 9212864N now JC-216939K), 01 Oct 1991.

Hav Clik (GD) Ratan Singh Rawat (No. 9212892A now JC-216940Y), 01 Oct 1991.

11 GR

To be Nb Sub (Clik)

Hav(Clik) Manoj Kumar Chakrabarty (9412334H now JC-216941F), 29 Sep 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances w.e.f. 01 Sep 1991.

Hav(Clik) Shubh Chandra Thakur (9412339F now JC-216942K), 1st Sep 1991.

Hav(Clik) Kishore Chand (9412373M now JC-216943-M), 1st Sep 1991.

Hav(Clik) Kishori Lal (9412376P now JC-216944P), 1st Oct 1991.

Hav(Clik) Om Parkash (9412386X now JC-216945P), 1st Oct 1991.

Hav(Clik) Duli Chand (9412842Y now JC-216946A), 1st Oct 1991.

Hav(Clik) Dal Bir Singh Bishi (9412942K now JC-216947H), 1st Oct 1991.

Hav(Clik) Durga Prasad Subba (9412863P now JC-216948L), 1st Oct 1991.

1 GR

To be Naib Subedar

Hav Purna Bahadur Thapa (No. 5039334A now JC-216949N), 15th Sep 1991.%%

%%(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances with effect from 22nd May 1991).

Hav Hari Prasad Rana (No. 5039337N now JC-216950-H), 1st Oct 1991.

3 GR

To be Nb Sub (Clik)

Hav (Clik) Laxman Singh Suyal (5241206L now JC-216951L), 1st Oct 1991.\*

\*(Granted seniority in the rank of Nb (Clik) wef 01 Aug 91 without effect on pay and allowances).

Hav (Clik) Lal Bihari Verma (5241846P now JC-216952 N), 1st Sept 1991.

Hav (Clik) Kamal Kishor (5241910F now JC-216953W), 1st Sep 1991.

264 Hav Bhim Bahadur Gurung (5240954M now JC-216954Y), 5th Aug 1991.

Hav Tal Bahadur Thapa (5240893A now JC216955F), 1st Sep 1991.

Hav Bhum Bahadur Thapa (5241145L now JC-216956K), 1st Oct 1991.

9 GR

To be Nb Sub

Hav Dal Bahadur Khandka (5840610I now JC-216957M), 1st Dec 1990.

Hav Chakra Bahadur Khattri (5841836H now JC-216958P), 15th Apr 1991.

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 91 without effect on pay and allowances).

Hav Dhan Bahadur Khandka (13848873K now JC-216959 X), 1st Jul 1991.

Hav Tej Bahadur Thapa (5840628A now JC-216960M), 1st Sep 1991.

#### LADAKH SCOUTS

To be Naib Subedar (GD)

Hav Sonam Phundhek (9921468L), Now 216961P), 01 Sep 91.

#### THE KUMAON REGIMENT

To be Nb Sub

CHM Mohan Singh (No 4156998H now JC-175090H), 1st Jan 1988.

Hav Chander Singh (No 4155873Y now JC-175091L), 1st Feb 1988.

RPHM Bhupal Singh (No 4158937K now JC-175092N), 1st Feb 1988.

D. R. Sharma  
Under Secretary

#### CANTEEN STORES DEPARTMENT

No. 743, dated the 15th July 1992.—The President is pleased to transfer the services of Sqn Ldr P Ramesh to the Canteen Stores Department on Deputation to the post of Deputy General Manager (Finance and Accounts) for a period of three years with effect from 01 Apr. 92.

PRAKASH CHAND  
Under Secretary to the Govt. of India

#### (ARMY BRANCH)

No 744, dated 3rd July 1992.—The undermentioned officer awarded the following punishment by the GOM:—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

IC-38926 Capt Paramjit Singh, Inf :—

- To take rank and precedence as if his appointment as Capt bore date the 7th Jun 1987.
- To forfeit three years service for the purpose of promotion.
- To forfeit three years past service for the purpose of pension.  
—09 Dec 1991.

IC-34638 Major S. B. Joshi, AOC—Forfeiture of one year service for promotion.—22 Nov 1991.

A. K. MALIK  
CSO  
DAMS 8C  
3 Jul 92

#### (ARMY BRANCH)

#### CORRIGENDA

No. 745, dated 10-7-92.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification serial No. 1853 dated 17th Dec 1990, published in the Gazette of India serial No 3 dated 19th Jan 1991, under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'INFANTRY' below to be Subedar :—

For Nb Sub P N Ramachandran Pillai (JC 151588X) 1st Sep. 1990.

Read Nb Sub PN Ramachandran Pillai (JC 151188X) 1st Sep 1990.

No. 3, dated 18th Jan 1992 in Min of Def Notification 1740 dated 9th Dec 1991 published in the Gazette of India dated 18th Jan 1992 under heading 'REGULAR ARMY' sub heading 'Infantry' and 'The Punjab Regiment' below :—

To be Nb Subedar

For Hav Balbir Singh (No 2464421K Now JC-208032F), 01st Jan 1991.

Read Hav Balbir Singh (No 2464421K Now JC-208032F), 03rd Apr 1991.

(Granted ante date of seniority wef 02nd Oct 1990 without effect on pay and allowances).

In M of D Notification No 1120 dated 24 July 91 Published in Gazette of India ser No 39 dated 28 Sep 91, under heading 'Regular Army' sub heading 'Infantry' and 'Brigade of the Guards' below 'To be Nb Sub (Clk)' :—

For "Hav (Clk) Kuldip Singh (No 1366701X now JC-303949P), 01st Nov 1990".

Read "Hav (Clk) Kuldip Singh (No. 13667017X now JC-203949P), 01st Nov 1990".

In Ministry of Defence Notification number 1371 dated 09 Oct 91 published in the Gazette of India serial number 45 dated 09 Nov 91 under heading 'Regular Army' sub heading 'Infantry' The Madras Regiment' below :—

For : Hav A Shanmugam (No 2574701A now JC-205861 K) 1st Mar 1991.

Read : Hav A Shanmugam (No. 2574701A now JC-205861 K) 1st Mar 91.

Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 05 Feb 91 without effect on pay allowances.

D. R. Sharma  
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1992

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1992

